



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/Weekly

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 35] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 2—सितम्बर 8, 2006 (भाद्रपद 11, 1928)  
No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 2—SEPTEMBER 8, 2006 (BHADRA 11, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 सितम्बर 2006

सं. 425, दिनांक 1.8.2006.--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय की नफरी के पूर्व अवर सचिव श्री आर.सी. गुप्ता को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29, जून 2006 के आदेश सं. 4/2/2006-सी एस-1 के तहत 29 जून, 2006 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक रक्षा मंत्रालय में पूर्णतः तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) में नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की उप सचिव (तदर्थ) के रूप में नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :--

(i) तदर्थ पदोन्नति से ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति की चयन सूची में शामिल करने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

राष्ट्रपति, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की नफरी के अवर सचिव श्री जोस थोमस को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29 जून 2006 के आदेश संख्या 4/2/2006-सी एस-1 के तहत 11.7.2006 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक रक्षा मंत्रालय में पूर्णतः तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) में नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की उप सचिव (तदर्थ) के रूप में नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :--

(i) तदर्थ पदोन्नति से ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति की चयन सूची में शामिल करने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(ii) तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

राष्ट्रपति, आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद के, वाणिज्यिक कर आयुक्त के कार्यालय में सहायक आयुक्त (सी टी) श्री आई. श्रीनागेश को 31 मई 2006 (पूर्वाह्न) से मंत्री के पद पर बने रहने तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, 10,000-15,200/-रु. के वेतनमान में रक्षा राज्य मंत्री (श्री एम. एम. पल्लमराजू) का विशेष कार्याधिकारी नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की नफरी के अवर सचिव श्री राजकुमार गठवाल को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29 जून 2006 के आदेश संख्या 4/2/2006-सी एस-1 के तहत 6.7.2006 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक रक्षा मंत्रालय में पूर्णतः तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) में नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की उप सचिव (तदर्थ) के रूप में नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :--

(i) तदर्थ पदोन्नति से ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति की चयन सूची में शामिल करने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(ii) तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

3. यह अधिसूचना इस मंत्रालय की दिनांक 13 जुलाई, 2006 की समसंख्यक अधिसूचना का अधिक्रमण करती है।

राष्ट्रपति, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग की नफरी के अवर सचिव श्री यशवीर दत्त मेहता को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29 जून 2006 के आदेश संख्या 4/2/2006-सी एस-1 के तहत 12.7.2006 (अपराह्न) से अगले आदेश जारी होने तक रक्षा मंत्रालय में पूर्णतः तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) में नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की उप सचिव (तदर्थ) के रूप में नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :--

(i) तदर्थ पदोन्नति से ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति की चयन सूची में शामिल करने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(ii) तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी श्री एस. नागनाथन को 07 जुलाई, 2006 से अगले आदेश जारी होने तक इसी मंत्रालय में डेस्क अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, कृषि मंत्रालय के कृषि एवं सहकारिता विभाग की केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग की सहायक श्रीमती मीना पिल्लई (इस समय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में डेस्क अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर) का नाम कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5 जून, 2006 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/25-2004-सी एस 1 के तहत वर्ष 2003 की अनुभाग अधिकारी ग्रेड (वरिष्ठता कोटा) की चयन सूची में शामिल किए जाने पर उन्हें 14 जुलाई 2006 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक 6,500-10,500/- रु. के वेतनमान में नियमित आधार पर रक्षा मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के (माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग) के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के नियमित सहायक श्री ए. के. सूद (तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी पद पर कार्यरत) का नाम वर्ष 2003 की अनुभाग अधिकारी ग्रेड (वरिष्ठता कोटा) की चयन सूची में शामिल किए जाने पर उन्हें 18 जुलाई 2006 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक 6,500-10,500/- रु. के वेतनमान में नियमित आधार पर रक्षा मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, दूरसंचार विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के सहायक श्री बृज बिहारी लाल का नाम वर्ष 2004 के अनुभाग अधिकारी ग्रेड (परीक्षा कोटा) की चयन सूची में शामिल किए जाने पर उन्हें 29 जून 2006 (अपराह्न) से अगले आदेश जारी होने तक 6,500-10,500/- रु. के वेतनमान में रक्षा मंत्रालय में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. यह अधिसूचना इस मंत्रालय की दिनांक 3 जुलाई, 2006 की समसंख्यक अधिसूचना का अधिक्रमण करती है।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय की केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग की नियमित सहायक श्रीमती ज्योत्सना गुप्ता (इस समय तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी पद पर कार्यरत) का नाम वर्ष 2002 की अनुभाग अधिकारी ग्रेड (परीक्षा कोटा) की चयन सूची में शामिल किए जाने पर उन्हें 17 जुलाई, 2006 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक 6,500-10,500/- रुपए के वेतनमान में नियमित आधार पर इसी मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग की वैयक्तिक सहायक श्रीमती पार्वती चन्द्रन का नाम वर्ष 2004 की अनुभाग अधिकारी ग्रेड (परीक्षा कोटा) की चयन सूची में शामिल किए जाने पर उन्हें 30 जून, 2006 (पूर्वाहन) से अगले आदेश जारी होने तक 6,500--10,500/- रुपए के वेतनमान में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के ग्रेड 'ग' आशुलिपिक श्री बृजेश कुमार शर्मा का नाम वर्ष 2004 के अनुभाग अधिकारी ग्रेड (परीक्षा कोटा) की चयन सूची में शामिल किए जाने पर उन्हें 3 जुलाई, 2006 (पूर्वाहन) से अगले आदेश जारी होने तक 6,500-10,500/- रुपए के वेतनमान में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

वी. सरस्वती  
अवर सचिव

(सेना शाखा)

सं. 426, दिनांक 7 अगस्त 2006--यथासंशोधित थलसेना अनुदेश 75/78 के अधीन राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :--

नियमित सेना

अल्पकालीन कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा)

कप्तान के पद पर (परखपर)

कप्तान गणपत सिंह (एम एस-14977एक्स), ए एम सी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान येगाडे वाल्मीक श्रीहारी (एम एस-14995ए), ए एम सी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान राजीव कुमार भगत (एम एस-15034एल), ए एम सी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान रमनदीप सेखो (एम एस-15035एन), ए एम सी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान बलविन्दर सिंह (एम एस-15038एफ), ए एम सी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान रविन्दर कुमार (एम एस-15039के), ए एम सी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान कीर्ति भूषण (एम एस-15040के), ए एम सी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान आदर्श शर्मा (एम एस-15041एफ), ए एम सी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान रोशन कुमार बी (एम एस-15042के), ए एम सी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान (कुमारी) सीमा राठौड़ (एम एस-14467 डब्ल्यू), ए एम सी, 14 फरवरी 2003

कप्तान बासुदेव मण्डल (एम एस-14604के), ए एम सी, 4 अप्रैल 2003

कप्तान रतन कुमार मिश्रा (एम एस-14610एक्स), ए एम सी, 18 फरवरी 2003

कप्तान बलविन्दर कुमार (एम एस-14784एक्स), ए एम सी, 17 फरवरी 2004

कप्तान देवेश कुमार (एम एस-14813एफ), ए एम सी, 17 फरवरी 2004

कप्तान बलजीत सिंह झज (एम एस-15028एक्स), ए एम सी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान राजीव कुमार (एम एस-15001ए), ए एम सी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान श्रीधरा टी आर (एम एस-15002एच), ए एम सी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान पलविन्दर सिंह (एम एस-15004एन), ए एम सी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान रघुविन्द्र कुमार (एम एस-15066एन), ए एम सी, 17 मई 2005

कप्तान संजय कुमार झा (एम एस-15067डब्ल्यू), ए एम सी, 17 मई 2005

कप्तान नवदीप सिंह (एम एस-15068वाई), ए एम सी, 17 मई 2005

कप्तान हरजीत कौर ढिढ़सा (एम एस-15069एफ), ए एम सी, 17 मई 2005

कप्तान रवि कपूर (एम एस-15070डब्ल्यू), ए एम सी, 17 मई 2005

कप्तान मोरे विजय कुमार कृष्णा (एम एस-15071वाई), ए एम सी, 17 मई 2005

कप्तान मरियम माल्यु (एम एस-15072एफ), ए एम सी, 17 मई 2005

कप्तान धनंजय सुधाकर बोस्से (एम एस-15073के), ए एम सी, 17 मई 2005

कप्तान उदयाकुमार आर (एम एस-15075पी), ए एम सी, 17 मई 2005

कप्तान पाटील प्रदीप मारुति (एम एस-15076एक्स), ए एम सी, 17 मई 2005

कप्तान कौशिक विशाल देवेन्द्राप्रसाद (एम एस-15078एच), ए एम सी, 17 मई 2005

कप्तान संदीप शंकर भंडारे (एम एस-15079एल), ए एम सी, 17 मई 2005

कप्तान नचिकेत एम पलसकर (एम एस-15080ए), ए एम सी, 17 मई 2005

कप्तान वन्दना मक्कड़ (एम एस-15086एफ), ए एम सी, 09 अगस्त 2005

कप्तान ओमकार सिंह (एम एस-14993पी), ए एम सी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान संदीप गुप्ता (एम एस-15029ए), ए एम सी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान सुमित भास्कर (एम एस-15030पी), ए एम सी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान संदीप सिंह (एम एस-15033एच), ए एम सी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान कंवलजीत सिंह (एम एस-15036डब्ल्यू), ए एम सी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान जगमीत सिंह अरोड़ा (एम एस-15037वाई), ए एम सी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान सौरभ मूंड (एम एस-15044पी), ए एम सी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान राजेश कुमार (एम एस-15045एक्स), ए एम सी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान जाधव त्रिंबक भिमराव (एम एस-15046ए), ए एम सी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान अर्चना गुप्ता (एम एस-15047एच), ए एम सी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान कपिल रामपाल (एम एस-15059एक्स), ए एम सी, 19 अप्रैल 2005

कप्तान सतिन्द्र पाल सिंह (एम एस-15060एम), ए एम सी, 19 अप्रैल 2005

कप्तान बानखेडे तानाजी सिताराम (एम एस-15061पी), ए एम सी, 19 अप्रैल 2005

कप्तान हरीश चन्द्र जोशी (एम एस-15062एक्स), ए एम सी, 19 अप्रैल 2005

कप्तान मिन्टू मणि बरूआ (एम एस-15064एच), ए एम सी, 17 मई 2005

कप्तान जी बसंत कुमार (एम एस-15065एल), ए एम सी, 17 मई 2005

कप्तान विवेक कुमार (एम एस-15074एम), ए एम सी, 17 मई 2005

कप्तान अमित अरोड़ा (एम एस-15102एन), ए एम सी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान संजय कुमार सैनी (एम एस-14949एल), ए एम सी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान अनिल कुमार गुप्ता (एम एस-14950ए), ए एम सी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान सिध्दार्थ जैन (एम एस-14952एल), ए एम सी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान नितिन दत्त भारद्वाज (एम एस-14953एन), ए एम सी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान अनिल गोयल (एम एस-14957के), ए एम सी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान नीरज शर्मा (एम एस-14969वाई), ए एम सी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान सुनील कुमार झाझड़िया (एम एस-14970वाई), ए एम सी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान हरप्रीत सिंह (एम एस-14971डब्ल्यू), ए एम सी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान संदीप कुमार कौशल (एम एस-14972वाई), ए एम सी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान प्रदीप कुमार गुप्ता (एम एस-14973एफ), ए एम सी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान नन्द किशोर साह (एम एस-14974के), ए एम सी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान राहुल झा (एम एस-14975एम), ए एम सी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान अबराहम ललछना चौन्डिम (एम एस-14978ए), ए एम सी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान सुखविंदर सिंह संधा (एम एस-14984एन), ए एम सी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान अमित महाजन (एम एस-14985डब्ल्यू), ए एम सी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान विरेन्द्र सुहाग (एम एस-15032ए), ए एम सी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान मीना मारूति ओहल (एम एस-14694डब्ल्यू), ए एम सी, 09 दिसम्बर 2003

कप्तान उज्ज्वल प्रताप (एम एस-14965एच), ए एम सी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान कंवलजीत सिंह (एम एस-14976पी), ए एम सी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान मनीष बंसल (एम एस-14979एच), ए एम सी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान अमित बराट (एम एस-14980एक्स), ए एम सी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान नीरज (एम एस-14981ए), ए एम सी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान रणजीत पाल सिंह भोगल (एम एस-14994एक्स), ए एम सी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान रवीन्द्र कुमार (एम एस-14996एच), ए एम सी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान आशीष चड्ढा (एम एस-14999डब्ल्यू), ए एम सी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान अम्बिकेश कुमार (एम एस-15006वाई), ए एम सी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान संतोष टी (एम एस-15007एफ), ए एम सी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान विपन कुमार (एम एस-15009एम), ए एम सी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान मुकेश कुमार (एम एस-15010एफ), ए एम सी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान जेयश्री एन (एम एस-15012एम), ए एम सी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान काकुल अग्रवाल (एम एस-15013पी), ए एम सी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान गिरिजा नंदन त्रिपाठी (एम एस-15014एक्स), ए एम सी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान दया नाथ झा (एम एस-15043एम), ए एम सी, 12 अप्रैल 2005

कप्तान अजीत कुमार पाण्डेय (एम एस-14523के), ए एम सी, 17 फरवरी 2003

कप्तान अमित अरोड़ा (एम एस-14706ए), ए एम सी, 27 नवम्बर 2003

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को पदोन्नत करते हैं :--

नियमित सेवा

अल्पकालीन कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा) (गैर तकनीकी)

लेफ्टिनेन्ट के पद पर 28 अप्रैल 2005 से प्रभावी (परख पर)

नायक सूबेदार/क्लर्क नरेन्द्रा सिंह (जेसी-694025ए अब एन टी एस-17506पी), 28 अप्रैल 2005

(वेतन के लिए ज्येष्ठता 28 अप्रैल 2003 से प्रभावी)

हवलदार/क्लर्क दलीप कुमार (जेसी-13976441ए अब एन टी एस-17507एक्स), 28 अप्रैल 2005

हवलदार/क्लर्क वर्गीस के वाई (जेसी-13978121के अब एन टी एस-17508ए), 28 अप्रैल 2005

हवलदार/एस केटी कैलाश चन्द्रा (जेसी-13968975डब्ल्यू अब एन टी एस-17509एच), 28 अप्रैल 2005

नायक/एच ए सुरेश पी एस (जेसी-13982152एफ अब एन टी एस-17516वाई), 28 अप्रैल 2005

नायक/एसकेटी गुरमेन्द्र सिंह (जेसी-13989156ए अब एन टी एस-17510एक्स), 28 अप्रैल 2005

नायक/डी टी तोमर शिव प्रकाश सिंह राजेन्द्रा सिंह (जेसी-13994733एल अब एन टी एस-17511ए), 28 अप्रैल 2005

लांस नायक/डी एच जौली सी जोसेफ (जेसी-13988821एल अब एन टी एस-17512एच), 28 अप्रैल 2005

नायक/एल ए बितेश कुमार पी एल (जेसी-13984541ए अब एन टी एस-17513एल), 28 अप्रैल 2005

नायक/फ्रॉम नीलाकंटन पी एस (जेसी-13993673पी अब एन टी एस-17514एन), 28 अप्रैल 2005

नायक/क्लर्क परविन्दर सिंह (जेसी-13995476एल अब एन टी एस-17515डब्ल्यू), 28 अप्रैल 2005

सिपाही/फ्रॉमा चन्द्रा प्रकाश (जेसी-13997676एक्स अब एन टी एस-17517एफ), 28 अप्रैल 2005

सिपाही/ए ए प्रभाकरन के (जेसी-13987457एल अब एन टी एस-17518के), 28 अप्रैल 2005

सिपाही/एस टी ए एस राजा (जेसी-13989226एन अब एन टी एस-17519एम), 28 अप्रैल 2005

लांस नायक/एल ए बिकास चन्द्र राणा (जेसी-13991010एल अब एन टी एस-17520एफ), 28 अप्रैल 2005

सिपाही/ओ आर ए हरि साई श्रीनिवास (जेसी-13993556के अब एन टी एस-17521के), 28 अप्रैल 2005

सिपाही/एस टी ए संजय कुमार शुक्ल (जेसी-13995549एम अब एन टी एस-17522एम), 28 अप्रैल 2005

सिपाही/ओ आर ए अभय सिंह (जेसी-13996262एफ अब एन टी एस-17523पी), 28 अप्रैल 2005

सिपाही/ड्राईवर सूरज बसनेट (जेसी-13997480एम अब एन टी एस-17524एक्स), 28 अप्रैल 2005

सिपाही/फ्रॉमा रविन्द्र जांभले (जेसी-13999012एल अब एन टी एस-17525ए), 28 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार एच ए मोहन सिंह कपकोही (जेसी-694217एक्स अब एन टी आर-16711के), 28 अप्रैल 2005

(वेतन के लिए ज्येष्ठता 28 अप्रैल 2003 से प्रभावी)

नायब सूबेदार/एन टी जयवेलु एस (जेसी-694253एच अब एन टी आर-16712एम), 28 अप्रैल 2005

(वेतन के लिए ज्येष्ठता 28 अप्रैल 2003 से प्रभावी)

हवलदार/फ्रॉमा आरकोया सामी (जेसी-13982784एम अब एन टी आर-16713पी), 28 अप्रैल 2005

नायक एक्स रे रमेश तिरावियम के (जेसी-13994173के अब एन टी आर-16714एक्स), 28 अप्रैल 2005

नायक क्लर्क कैलाश पी एस (जेसी-13995303एन अब एन टी आर-16715ए), 28 अप्रैल 2005

नायक क्लर्क सुनिल वाई (जेसी-13995504एन अब एन टी आर-16716एच), 28 अप्रैल 2005

सिपाई एल ए गुरम रवि नरसिया (जेसी-13992172एच अब एन टी आर-16717एल), 28 अप्रैल 2005

सिपाई एन ए संजीव युनियल (जेसी-13992790एन अब एन टी आर-16718एन), 28 अप्रैल 2005

सिपाई ए ए विनोद कुमार यू (जेसी-13993713एल अब एन टी आर-16719डब्ल्यू), 28 अप्रैल 2005

लांस नायक एन ए रविन्द्र कुमार मलिक (जेसी-13993889डब्ल्यू अब एन टी आर-16720एल), 28 अप्रैल 2005

सिपाई एन ए डी प्रकाश राव (जेसी-13998877एल अब एन टी आर-16721एन), 28 अप्रैल 2005

सिपाई पी टी ए निरञ्ज यादव (जेसी-13998944एल अब एन टी आर-16722डब्ल्यू), 28 अप्रैल 2005

सिपाई एस के टी विरेन्द्र कुमार पांडेय (जेसी-13999139एन अब एन टी आर-16723वाई), 28 अप्रैल 2005

यथासंशोधित थलसेना अनुदेश 75/78 के अधीन राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं।

नियमित सेना

अल्पकालीन कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा)

फ्ला. लेफ्टी. के पद पर (परख पर)

फ्ला. लेफ्टी. मोहन रनगम टी (एम एस-15027पी ए एम सी ए एफ-28370), 12 अप्रैल 2005

फ्ला. लेफ्टी. मो. अबु सादिक (एम एस -15052एन ए एम सी ए एफ-27683), 12 अप्रैल 2005

फ्ला. लेफ्टी. ताकयो तेयी (एम एम-15054वाई ए एम सी ए एफ-28375), 12 अप्रैल 2005

फ्ला. लेफ्टी. बिपुल कुमार सिन्हा (एम एस-15056के ए एम सी ए एफ-27684), 12 अप्रैल 2005

सर्जन लेफ्टी. के पद पर (परख पर)

सर्जन लेफ्टी. अलैक्स थंगजलैट तुथंग (एम एस-14685पी ए एम सी- 75828के), 08 दिसम्बर 2003

सर्जन लेफ्टी. प्रोमिला रानी (एम एस-14780एफ ए एम सी- 75837एफ), 17 फरवरी 2004

अनुदेश 14/79 द्वारा यथासंशोधित थलसेना अनुदेश 75/78 के अधीन राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं।

नियमित सेवा

अल्पकालीन आयोग

कप्तान के पद पर (परख पर)

कप्तान (कुमारी) मीना जाटवेन्दू (एम एस-14459 एक्स) आयोग की तिथि 19.12.2002 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 19 दिसम्बर, 1999 से दी जाएगी। स्नातकोत्तर योग्यता मास्टर आफ सर्जरी के लिए 36 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है।

कप्तान कंवल जीत कौर (एम एस-14484 डब्ल्यू) आयोग की तिथि 19.12.2002 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 19 जून, 1999 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति एवं स्नातकोत्तर योग्यता डाक्टर आफ मेडीसन के लिए 42 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है।

कप्तान मयूरी जैन (एम एस-14822एच) डी ओ सी 17.2.2004 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 17 अगस्त, 2003 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति योग्यता के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है। जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी तथा नोशनल ज्येष्ठता से की गई जो कि वेतन तथा भत्तो के लिए नहीं गिनी जाएगी।

राजेश कामरान

उप डीजीएएफ एम एस (पर्स)

-----

सं. 427, दिनांक 7 अगस्त 2006-- राष्ट्रपति, यथा संशोधित विशेष थल सेना अनुदेश 7 विशेष 66 के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी/अधिकारियों को उसके/उनके 04 मार्च 2005 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर यथा संशोधित थल सेना अनुदेश 7 विशेष 66 के अंतर्गत पदोन्नति के लिए और वेतन वृद्धि के लिए दिनांक 08 मई 1998 से वरिष्ठता के साथ लेफ्टिनेंट के पद में तारीख 04 मार्च 2005 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है। तथापि स्थाई कमीशन प्रदान किये गये अल्पकालिक सेवा कमीशन अफसरो की तुलना में उनकी वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्पकालीन सेवा कमीशन की मंजूरी के राजपत्र अधिसूचना में निर्धारित की गयी है।

एस एस सं, आई सी सं, नाम आर्म/सर्विस

एस एस-38289, आई सी-64819वाई, निशित मिश्रा, ई एम ई

एम एल एन श्रवण कुमार

कर्नल

कर्नल एम एस-7

-----

सं. 428, दिनांक 1 अगस्त 2006-- राष्ट्रपति, इस समय स्थानापन्न तदर्थ अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्यरत रक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय

सेवा संवर्ग के निम्नलिखित सहायकों की नियुक्ति 01.07.2006 से 17.07.2006 तक अथवा मूल आवेदन संख्या 1295/2006 में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा यथानिदेशित अनुभाग अधिकारियों की "यथास्थिति" हटाए जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो निम्नलिखित शर्तों के अधधीन 6,500-200-10,500/- रु. के वेतनमान में इसी मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर आगे बढ़ते हैं :--

(i) तदर्थ पदोन्नति से ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने या अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा; और

(ii) तदर्थ अनुभाग अधिकारियों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमावली में यथाविहित भर्ती के सामान्य माध्यमों से नियमित अनुभाग अधिकारियों के उपलब्ध होने पर सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा :--

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम
1	2
	सर्वश्री
1.	ओम प्रकाश जोशी
2.	श्रीमती के. सरस्वती
3.	धर्म प्रकाश-2
4.	वी.के. कौड़ा
5.	श्रीमती ज्योत्सना गुप्ता
6.	डी.आर. साहू
7.	एस.के. पांडे
8.	श्रीमती सुषमा रानी
9.	विनोद कुमार
10.	बी.एम.पटनायक
11.	श्रीमती संतोष कुमारी
12.	ए.के. सिंह
13.	श्रीमती निर्मल छाबड़ा
14.	ए.के.सक्सेना
15.	इतवारी लाल
16.	दिनेश चन्द्र शर्मा
17.	एस. दास
18.	एस.एन. अग्रवाल
19.	श्रीमती भागवन्ती
20.	डी.पी. तंवर
21.	पी.बी.एस. दिनकर
22.	शशिधरण नायर एन
23.	के.के. शर्मा

1	2
	सर्वश्री
24.	शंकर गांगुली
25.	बाल किशन गुप्ता
26.	जे.पी. असवानी
27.	वी.पी सिंह
28.	कृष्णा प्रसाद
29.	श्रीमती चन्द्र कांता
30.	श्रीमती कांता कामरा
31.	जे.बी. गुप्ता
32.	आर.एस. डबास
33.	के.सी. उप्रेती
34.	एस.के. मल्होत्रा
35.	रमेश गोयल
36.	कुमार प्रणव
37.	जोगिन्दर कुमार
38.	वी.के. रमनानी
39.	डी.के. चोपड़ा
40.	सतीश कुमार
41.	श्रीमती गीता महाजन
42.	सुरेन्द्र कुमार
43.	रतन सिंह
44.	यशपाल
45.	शेख मोइद्दीन एम.
46.	श्याम स्वरूप
47.	डी. सुदर्शन राव
48.	एच.आर. बत्रा
49.	वी. तनबालन
50.	जी.सी. शर्मा

वी. सरस्वती  
उप सचिव

## थल सेना विभाग

## सेना शाखा

सं. 429, दिनांक 2 अगस्त 2006--राष्ट्रपति, निम्नलिखित भूतपूर्व जूनियर कमीशन्ड अफसरों को नौकरी पर बहाल करते हैं :--

सं. 430, दिनांक 1 अगस्त 2006--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति उनके नाम के सम्मुख दी गई तिथि से करते हैं :--

## नियमित सेना

## नियमित सेना

## रक्षा तथा सुरक्षा कोर

## स्थायी कमीशन

## सूबेदार मेजर (जी डी) के रैंक में

## मेजर से मूल लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक में

सूबेदार मेजर अमीर जी (जेसी-179320एच), पहले मराठ एल आई, 09 जुलाई 2005

वी-430के एम एस संधू, आर वी सी 16.12.2004

सूबेदार मेजर कैलाश चन्द्र रौत (जेसी-184441एन), पहले बिहार रेजीमेन्ट, 11 जुलाई 2005

वी-431एम एस एल बघेल, आर वी सी 16.12.2004

सूबेदार मेजर रणजीत सिंह राणा (जेसी-205720पी), पहले जैक राइफल्स, 13 जुलाई 2005

वी-432पी एस के भारतद्वाज, आर वी सी 16.12.2004

सूबेदार मेजर रविन्द्र सिंह (जेसी-152798डब्ल्यू), पहले पंजाब रेजीमेन्ट, 08 अक्टूबर 2005

वी-433एक्स जगदीप सिंह, आर वी सी 16.12.2004

वी-434ए वाई एस कुमार, आर वी सी 16.12.2004

## सूबेदार (जी डी) के रैंक में

वी-444के आर एन जोशी, आर वी सी 16.12.2004

वी-436एल के शिवाजी, आर वी सी 16.12.2004

वी-437एन एस डी गंगवार, आर वी सी 16.12.2004

सूबेदार रामजी दुबे (जेसी-810293एल), पहले आर्टिलरी, 01 मई 2005

वी-445एम अनिल कुमार वर्मा, आर वी सी 16.12.2004

वी-438डब्ल्यू प्रदीप पुनिया, आर वी सी 16.12.2004

सूबेदार प्रेम चन्द (जेसी-211652एच), पहले मेक इंफैन्ट्री रेजिमेन्ट, 01 मई 2005

वी-440एन डी पी सिंह, आर वी सी 16.12.2004

सूबेदार सुमन कुमार (जेसी-578731एच), पहले जैक राइफल्स, 02 मई 2005

वी-441डब्ल्यू प्रदीप कुमार, आर वी सी 16.12.2004

सूबेदार सरूप चन्द (जेसी-578352एम), पहले जैक राइफल्स, 09 जुलाई 2005

वी-446पी इन्द्रजीत सिंह, आर वी सी 16.12.2004

वी-442वाई प्रमोद बत्रा, आर वी सी 16.12.2004

सूबेदार सुरिन्द्र कुमार (जेसी-578450एम), पहले जैक राइफल्स, 09 जुलाई 2005

वी-443एफ आर ए मिश्रा, आर वी सी 16.12.2004

वी-447एक्स बापू परसनली, आर वी सी 16.12.2004

सूबेदार रणजित सिंह (जेसी-221025के), पहले कुमाऊ रेजीमेन्ट, 09 जुलाई 2005

वी-448ए रनवीर सिंह, आर वी सी 16.12.2004

वी-449एच बी एस नारा, आर वी सी 16.12.2004

सूबेदार वेद परकाश (जेसी-205423एफ), पहले गार्ड्स, 09 जुलाई 2005

वी-450एक्स संजय मलिक, आर वी सी 16.12.2004

वी-451ए वाई वी वी सुंदर राम मुर्ती, आर वी सी 16.12.2004

सूबेदार सुनिल कुमार (जेसी-558373एफ), पहले बिहार रेजीमेन्ट, 08 अक्टूबर 2005

वी-455डब्ल्यू डी एम प्रसाद, आर वी सी 16.12.2004

वी-452एच रवि गिरधर, आर वी सी 16.12.2004

## नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार चन्द्र प्रकाश (जेसी-841885डब्ल्यू), पहले भारतीय नौ सेना, 11 जुलाई 2005

वी-453एल सी एस राठौर, आर वी सी 16.12.2004

वी-460एफ वी के जोशी, आर वी सी 16.12.2004

नायब सूबेदार कृष्णा नन्द श्रीवास्तव (जेसी-237071एच), पहले आर्मर्ड कोर, 08 अक्टूबर 2005

वी-456वाई अनुराग कोहली, आर वी सी 16.12.2004

वी-457एफ डी के एहलावत, आर वी सी 16.12.2004

नायब सूबेदार मुथु पी (जेसी-236067एन), पहले आर्मर्ड कोर, 08 अक्टूबर 2005

वी-461के इन्द्रजीत सिंह, आर वी सी 16.12.2004

वी-458के देवेन्द्र कुमार, आर वी सी 16.12.2004

वी-459एम राजेश अरोरा, आर वी सी 16.12.2004

टी.के.एम. पिल्लै  
अवर सचिव



वी-477पी एन एस नारा, आर वी सी 16.12.2004	वी-511के मादरेवार लक्ष्मीकांत भीम राव, आर वी सी 03.04.2005
वी-478एक्स एस पी अनंतराव, आर वी सी 16.12.2004	वी-497एच अजय कुमार, आर वी सी 03.04.2005
वी-462एम डी एस दूहान, आर वी सी 16.12.2004	वी-495एक्स संजीव चौहान, आर वी सी 21.12.2005
वी-479ए पी के सोनी, आर वी सी 16.12.2004	वी-499एन कृशन अत्री, आर वी सी 21.12.2005
वी-463पी वी के मुदगल, आर वी सी 16.12.2004	वी-500एक्स दिव्या दर्शन पवार, आर वी सी 21.12.2005
वी-464एक्स प्रताप भानु, आर वी सी 16.12.2004	वी-502एच सोमवीर भाटनागर, आर वी सी 07.02.2006
वी-465ए पी वी एस सिध्दू, आर वी सी 16.12.2004	वी-503एल पी के चुग, आर वी सी 07.02.2006
वी-480पी निकुंज कुमार, आर वी सी 16.12.2004	वी-505डब्ल्यू जे के पी शर्मा, आर वी सी 07.02.2006
वी-466एच संजीव भल्ला, आर वी सी 16.12.2004	वी-506वाई मंगल सिंह, आर वी सी 07.02.2006
वी-481एक्स सी पी चूरामानि, आर वी सी 16.12.2004	वी-519डब्ल्यू भूपेन्द्र भसीन, आर वी सी 07.02.2006
वी-467एल के बी मृतुंजय, आर वी सी 16.12.2004	सेना सेवा कोर (पशु परिवहन)
वी-468एन आर टी पंवार, आर वी सी 16.12.2004	पक्के रिसालदार मेजर के रैंक में
वी-469डब्ल्यू वी के दीक्षित, आर वी सी 16.12.2004	रिसालदार राज कुमार जोशी (जेसी-680222एक्स), 14.11.2005/ 01.11.2005 *
वी-470एल डब्ल्यू एस विनायक, आर वी सी 16.12.2004	पक्के रिसालदार के रैंक में (ए एस एच)
वी-482ए पी पी सिंह, आर वी सी 16.12.2004	नायब रिसालदार अमर सिंह (जेसी-680587एम), 13.09.2005/ 01.08.2005 *
वी-490वाई बी पी दूवे, आर वी सी 16.12.2004	नायब रिसालदार जलाउद्दीन (जेसी-680601एन), 24.10.2005/ 01.10.2005 *
वी-471एन रमन जोशी, आर वी सी 16.12.2004	नायब रिसालदार सेवा लाल (जेसी-680602डब्ल्यू), 08.10.2005/ 01.10.2005 *
वी-483एच अश्वनी गोयल, आर वी सी 16.12.2004	नायब रिसालदार प्रदीप कुमार बिस्वास (जेसी-680603वाई), 15.10.2005/ 01.10.2005 *
वी-484 एल गुरविंदर सिंह गिल, आर वी सी 16.12.2004	नायब रिसालदार बिकास बिस्वास (जेसी-680605के), 23.11.2005/ 01.11.2005 *
वी-485एन जे एस मान, आर वी सी 16.12.2004	नायब रिसालदार हरदयाल सिंह (जेसी-680606एम), 01.11.2005
वी-472डब्ल्यू के एल नारायनन, आर वी सी 16.12.2004	नायब रिसालदार तारा सिंह (जेसी-680609एन), 22.11.2005/ 01.11.2005 *
वी-491एफ आर के यादव, आर वी सी 16.12.2004	पक्के रिसालदार के रैंक में (ए टी)
वी-486डब्ल्यू एस एस बालाजी, आर वी सी 16.12.2004	नायब रिसालदार पंचम सिंह (जेसी-680593ए), 01.12.2005/ 01.09.2005 *
वी-473वाई मनोज बत्रा, आर वी सी 16.12.2004	नायब रिसालदार राजेंद्रा राम परमानिक (जेसी-680594एच), 07.11.2005/01.10.2005 *
वी-487वाई जीत कश्यप, आर वी सी 16.12.2004	नायब रिसालदार कैलाश कुमार (जेसी-680595एल), 12.11.2005/ 01.10.2005 *
वी-492के राजेश ऋषि, आर वी सी 16.12.2004	नायब रिसालदार मीर अजिम (जेसी-680626ए), 16.11.2005/ 01.11.2005 *
वी-488एफ योगेश डोगरा, आर वी सी 16.12.2004	
वी-474एफ स्वागत सिब्बल, आर वी सी 16.12.2004	
वी-475के पंकज अग्रवाल, आर वी सी 16.12.2004	
वी-476एम अरविंदो हलदार, आर वी सी 16.12.2004	
वी-489के बिजिंद्र सिंह मलिक, आर वी सी 16.12.2004	
वी-498एल एस आर अकरड्डी, आर वी सी 21.12.2004	
वी-493एम योगेन्द्र सांगवान, आर वी सी 21.12.2004	
वी-494पी रवीश कुमार छज्जड, आर वी सी 21.12.2004	
वी-496ए सरत कुमार नायक, आर वी सी 21.12.2004	
वी-510एफ जगदीश एम, आर वी सी 03.04.2005	

नायब रिसालदार सरंगाधर दास (जेसी-680687एक्स), 02.01.2006/  
01.01.2006\*

नायब रिसालदार नेहरू लाल (जेसी-680689एच), 03.01.2006/  
01.01.2006\*

नायब रिसालदार वी गुना सेकरन (जेसी-680692एन), 02.01.2006/  
01.01.2006\*

नायब रिसालदार स्वयमबर सिंह रावत (जेसी-680693एल),  
02.01.2006/01.01.2006\*

नायब रिसालदार कंदर्पा कुमार ककती (जेसी-680694एन),  
10.01.2006/01.01.2006\*

नायब रिसालदार बी एल बी बी भाई (जेसी-680695डब्ल्यू),  
01.01.2006/01.01.2006\*

नायब रिसालदार दिनेश यादव (जेसी-680696वाई), 02.01.2006/  
01.01.2006\*

नायब रिसालदार रामोतार (जेसी-680698के), 01.02.2006/  
01.01.2006\*

नायब रिसालदार सम्पत सिंह (जेसी-680700डब्ल्यू), 02.01.2006/  
01.01.2006\*

नायब रिसालदार चंद्र शेकर बेहरा (जेसी-680701वाई), 02.01.2006/  
01.01.2006\*

नायब रिसालदार रघुबर सिंह (जेसी-680702एफ), 02.01.2006/  
01.01.2006\*

नायब रिसालदार नरेश कुमार (जेसी-680704एम), 23.01.2006/  
01.01.2006\*

पक्के रिसालदार के रैंक में (ए एस एच)

नायब रिसालदार महेश कुमार (जेसी-680705पी), 01.02.2006/  
01.02.2006\*

नायब रिसालदार देस राज (जेसी-680706एक्स), 01.02.2006/  
01.02.2006\*

नायब रिसालदार धरम देव (जेसी-680709एल), 01.02.2006/  
01.02.2006\*

नायब रिसालदार आर्विंद कुमार (जेसी-680710ए), 01.02.2006/  
01.02.2006\*

नायब रिसालदार मदन सिंह चौहान (जेसी-680711एच), 03.02.2006/  
01.02.2006\*

नायब रिसालदार बाग सिंह (जेसी-680712एफ), 01.02.2006/  
01.02.2006\*

नायब रिसालदार प्रभु सिंह (जेसी-680713एन), 01.02.2006/  
01.02.2006\*

नायब रिसालदार मधा बनंद रोय (जेसी-680716एफ), 01.02.2006/  
01.02.2006\*

नायब रिसालदार विश्राम सिंह (जेसी-680718एम), 01.02.2006/  
01.02.2006\*

पक्के रिसालदार के रैंक में (ए टी)

नायब रिसालदार गोपल दत्त (जेसी-680684के), 18.01.2006/  
01.02.2006\*

नायब रिसालदार अभिनाश प्रसाद (जेसी-680617वाई), 10.11.2005/  
01.11.2005\*

नायब रिसालदार मनोहर सिंह (जेसी-680674ए), 31.01.2006/  
01.11.2005\*

नायब रिसालदार राम चंद्र सवैयन (जेसी-680619के), 26.12.2005/  
01.11.2005\*

नायब रिसालदार प्रेमादसन सी के (जेसी-680620वाई), 09.01.2006/  
01.11.2005\*

नायब रिसालदार रघुबीर सिंह (जेसी-680621एफ), 29.12.2005/  
01.11.2005\*

नायब रिसालदार आर बी एस यादव (जेसी-680622के),  
06.01.2006/01.11.2005\*

नायब रिसालदार राम दयाल (जेसी-680623एच), 02.01.2006/  
01.11.2005\*

नायब रिसालदार रमेश (जेसी-680624पी), 03.01.2006/  
01.11.2005\*

नायब रिसालदार नारायण राय (जेसी-680625एक्स), 28.12.2005/  
01.11.2005\*

नायब रिसालदार आर डी एस यादव (जेसी-680627एच/  
02.01.2006/01.11.2005\*

नायब रिसालदार मुखतियार सिंह (जेसी-680629डब्ल्यू), 25.12.2005/  
01.12.2005\*

नायब रिसालदार दिनेश चंद्र पांडे (जेसी-680630एच), 27.12.2005/  
01.12.2005\*

नायब रिसालदार केशव कुमार (जेसी-680631एल), 28.12.2005/  
01.12.2005\*

पक्के रिसालदार के रैंक में (ए एस एच)

नायब रिसालदार दया किशन (जेसी-680632एक्स), 28.12.2005/  
01.12.2005\*

नायब रिसालदार ओम प्रकाश (जेसी-680634वाई), 17.01.2006/  
01.12.2005\*

नायब रिसालदार सीता राम (जेसी-680640एम), 03.01.2006/  
01.12.2005\*

नायब रिसालदार शिवजी राम मीना (जेसी-680641पी), 27.12.2005/  
01.12.2005 \*

नायब रिसालदार दिलीप कुमार घोष (जेसी-680642एन)/  
28.12.2005, 01.12.2005 \*

नायब रिसालदार श्री धरन एस (जेसी-680643ए), 28.12.2005/  
01.12.2005 \*

नायब रिसालदार दिनेश चंद्र मोहंती (जेसी-680648वाई)/  
27.12.2005, 01.12.2005 \*

नायब रिसालदार रूम सिंह (जेसी-680650डब्ल्यू), 27.12.2005/  
01.12.2005 \*

नायब रिसालदार मनबीर सिंह (जेसी-680655पी), 26.12.2005/  
01.12.2005 \*

नायब रिसालदार महाबीर सिंह (जेसी-680656एक्स), 01.12.2005/  
01.12.2005 \*

नायब रिसालदार राम सिंह गोदरा (जेसी-680657ए), 16.01.2006/  
01.12.2005 \*

नायब रिसालदार श्रीमंत नामदेव के (जेसी-680658एच), 14.01.2005/  
01.12.2005 \*

नायब रिसालदार चुन्नी लाल (जेसी-680659एल), 30.12.2005/  
01.12.2005 \*

नायब रिसालदार केशर प्रसाद सिंह (जेसी-680660ए), 26.12.2005/  
01.12.2005 \*

नायब रिसालदार उमा कांता मोहंती (जेसी-680661एच)/  
19.01.2006, 01.12.2005 \*

नायब रिसालदार सत्य प्रकाश (जेसी-680662एल), 28.12.2005/  
01.12.2005 \*

नायब रिसालदार गंगाधर मालविया (जेसी-680663एन), 02.01.2006/  
01.12.2005 \*

नायब रिसालदार मोहम्मद गुलाम किब्रीया लस्कर  
(जेसी-680664डब्ल्यू), 30.12.2005, 01.12.2005 \*

पक्के रिसालदार के रैंक में (ए एस एच)

नायब रिसालदार जोय के जे (जेसी-680665वाई), 02.01.2006/  
01.12.2005 \*

नायब रिसालदार रामेश्वर सिंह (जेसी-680666एफ), 17.01.2006/  
01.12.2005 \*

नायब रिसालदार परसु राम स्वैन (जेसी-680667के), 06.01.2006/  
01.12.2005 \*

नायब रिसालदार मोहन राम (जेसी-680668एम), 16.01.2006/  
01.12.2005 \*

नायब रिसालदार पी एन झा (जेसी-680672पी), 06.01.2006/  
01.12.2005 \*

नायब रिसालदार अर्जुन प्रसाद शर्मा (जेसी-680675वाई),  
03.01.2006/01.12.2005 \*

नायब रिसालदार सुरेश राम (जेसी-680677एन), 26.12.2005/  
01.12.2005 \*

नायब रिसालदार बिजय कुमार (जेसी-680678डब्ल्यू), 02.01.2006/  
01.12.2005 \*

नायब रिसालदार बच्चू मंडल (जेसी-680680के), 28.12.2005/  
01.12.2005 \*

नायब रिसालदार नरेंद्र राउत (जेसी-680683एफ), 26.12.2006/  
01.12.2005 \*

नायब रिसालदार अनिल कुमार मिश्रा (जेसी-680685एम)/  
28.12.2006, 01.12.2005 \*

नायब रिसालदार क्रिशन कुमार (जेसी-680688एन), 26.01.2006/  
01.12.2005 \*

(\*वेतन और भत्ते पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठा दी जायेगी)

तोपखाना रेजिमेन्ट

सबस्टैटिव सूबेदार (जी डी) के पद में

नायब सूबेदार लक्ष्मन सिंह अनकोह (जेसी-260940वाई), 29 जनवरी  
2005/ 01 जनवरी 2005 \*

नायब सूबेदार राम नाथ सिंह (जेसी-263837वाई), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार चन्द्र प्रकाश (जेसी-264091ए), 12 फरवरी 2005/  
01 जनवरी 2005 \*

नायब सूबेदार तेजवीर सिंह (जेसी-264051वाई), 26 जनवरी 2005/  
01 जनवरी 2005 \*

नायब सूबेदार राजपाल सिंह (जेसी-264664वाई), 18 जनवरी 2005/  
01 जनवरी 2005 \*

नायब सूबेदार सतनाम सिंह (जेसी-264098के), 31 जनवरी 2005/  
01 जनवरी 2005 \*

नायब सूबेदार हरी सिंह यादव (जेसी-264516एन), 10 जनवरी 2005/  
01 जनवरी 2005 \*

नायब सूबेदार कृष्णन नायर बी (जेसी-264424एक्स), 01 जनवरी  
2005

नायब सूबेदार रमेशन पी (जेसी-264231एच), 03 फरवरी 2005  
01 जनवरी 2005 \*

नायब सूबेदार मिलाप चन्द्र (जेसी-264723ए), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार रनजीत सिंह राजपूत (जेसी-264764के), 24 फरवरी  
2005/ 01 जनवरी 2005 \*

नायब सूबेदार सीरनामे सदाशिव तुकाराम (जेसी-264816पी),  
21 जुलाई 2005/ 01 जनवरी 2005 \*

नायब सूबेदार वरकी के पी (जेसी-264782एम), 03 फरवरी 2005/  
01 जनवरी 2005 \*

नायब सूबेदार पावीथरन पी (जेसी-264309ए), 04 जनवरी 2005/  
01 जनवरी 2005\*

नायब सूबेदार सुजामनी के (जेसी-264233एम), 22 फरवरी 2005/  
01 जनवरी 2005\*

नायब सूबेदार जगदीश सिंह (जेसी-264647वाई), 04 जनवरी 2005/  
01 जनवरी 2005\*

नायब सूबेदार माता बादल मिश्रा (जेसी-264565डब्ल्यू), 01 फरवरी  
2005/ 01 जनवरी 2005\*

नायब सूबेदार सुजान सिंह (जेसी-264397एच), 12 जनवरी 2005/  
01 जनवरी 2005\*

नायब सूबेदार बिजय कुमार सामल (जेसी-264459एक्स),  
01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार जी उदयनन (जेसी-264904एल), 10 जनवरी 2005/  
01 जनवरी 2005\*

नायब सूबेदार दलबीर सिंह (जेसी-264479एल), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार पास्वथा रामी रेडडी (जेसी-264863एम), 01 जनवरी  
2005

नायब सूबेदार बलदेव सिंह (जेसी-264969वाई), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार सुरेश सिंह (जेसी-264842डब्ल्यू), 07 मार्च 2005/  
01 जनवरी 2005\*

नायब सूबेदार सिद्धपा (जेसी-264893के), 21 फरवरी 2005/ 01 जनवरी  
2005\*

नायब सूबेदार मकखन सिंह (जेसी-264945पी), 18 जनवरी 2005,  
01 जनवरी 2005\*

नायब सूबेदार भगवान सिंह (जेसी-265079एल), 29 जनवरी 2005/  
01 जनवरी 2005\*

नायब सूबेदार दलजीत सिंह (जेसी-265348एम), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार रनजीत सिंह (जेसी-265177एल), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार भगवान सिंह राना (जेसी-265338एच), 30 जनवरी  
2005/ 01 जनवरी 2005\*

नायब सूबेदार भूषन लाल (जेसी-265448एक्स), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार चिन्नापा राजू (जेसी-265574के), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार मातादीन (जेसी-264512एक्स), 07 मई 2005/  
06 जनवरी 2005\*

नायब सूबेदार जगबीर सिंह (जेसी-261306एच), 15 फरवरी 2005/  
01 फरवरी 2005\*

नायब सूबेदार किशोरी लाल (जेसी-261536डब्ल्यू), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार सतपाल (जेसी-261720एफ), 01 फरवरी 2005/ 01  
जनवरी 2005\*

नायब सूबेदार राम धनी मिश्रा (जेसी-262257एक्स), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार अमर सिंह (जेसी-262073वाई), 12 जुलाई 2005/  
01 फरवरी 2005\*

नायब सूबेदार बानी सिंह (जेसी-265401एम), 21 फरवरी 2005/  
01 फरवरी 2005\*

नायब सूबेदार सन्तोष कुमार (जेसी-265534एच), 01 अप्रैल 2005/  
01 फरवरी 2005\*

नायब सूबेदार बजरंग सिंह (जेसी-265355एच), 20 मार्च 2005/  
01 फरवरी 2005\*

नायब सूबेदार एस राजेन्द्रन (जेसी-265626पी), 07 मार्च 2005/  
01 फरवरी 2005\*

नायब सूबेदार राम किशन (जेसी-265298एम), 19 फरवरी 2005/  
01 फरवरी 2005\*

नायब सूबेदार सुखदेव सिंह (जेसी-265810ए), 14 फरवरी 2005/  
01 फरवरी 2005\*

नायब सूबेदार आर मुरुगसेन (जेसी-265712ए), 12 फरवरी 2005/  
01 फरवरी 2005\*

(\*ज्येष्ठता प्राप्त)

एस पी शर्मा  
अवर सचिव

-----

एम जी ओ/ई एम ई कार्मिक

सं. 431, दिनांक 3 अगस्त 2006--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित  
पदोन्नतियां करते हैं।

सूबेदार मेजर टेक्नीकल के रैंक में

सूबेदार अशोक वी घोरपाडे (जेसी-748065एक्स), 12 सितंबर 2005/  
01 अगस्त 2005

सूबेदार राम प्यारे प्रसाद (जेसी-748179एच), 01 सितंबर 2005

सूबेदार गिरिजा आशांकार (जेसी-748654एन), 01 अक्टूबर 2005

सूबेदार अतर सिंह (जेसी-748272के), 01 अक्टूबर 2005

सूबेदार करनैल सिंह (जेसी-748264एल), 01 अक्टूबर 2005

सूबेदार अखे कुमार समाल (जेसी-748099एल), 01 अगस्त 2005

सूबेदार रचपाल सिंह मनहास (जेसी-748249डब्ल्यू), 01 अक्टूबर  
2005

सूबेदार केसी समाल (जेसी-748730एफ), 01 अक्टूबर 2005

सूबेदार मेजर आरटीजन (ई सी) के रैंक में  
 सूबेदार राज कुमार निशाद (जेसी-751228एल), 01 अक्टूबर 2005

सूबेदार मेजर आरटीजन (ई सी) के रैंक में  
 सूबेदार थोमस कुट्टी के टी (जेसी-747120डब्ल्यू), 01 सितंबर 2005

सूबेदार मेजर अरमोर के रैंक में  
 सूबेदार गौरव सिंह (जेसी-752977एन), 01 सितंबर 2005

सूबेदार जी पी सिंह (जेसी-752976एल), 08 सितंबर 2005/01 अगस्त 2005

सूबेदार टेक्नीकल के रैंक में  
 नायब सूबेदार राजेन्द्र यादव (जेसी-755640 डब्ल्यू), 27 अगस्त 2005/1 मई 2005X

नायब सूबेदार देनेन्द्र प्रसाद सिंह (जेसी-754181 डब्ल्यू), 16 अगस्त 2005/1 जून 2005X

नायब सूबेदार अम्बिका प्रसाद (जेसी-755860ए), 23 अगस्त 2005, 1 जुलाई 2005X

नायब सूबेदार जय करण यादव (जेसी-755681ए), 29 अगस्त 2005/1 अगस्त 2005X

नायब सूबेदार राजेन्द्रन के (जेसी-755682एच), 27 अगस्त 2005/1 अगस्त 2005X

नायब सूबेदार भास्करन कीमत (जेसी-755694एक्स), 25 अगस्त 2005/1 अगस्त 2005X

नायब सूबेदार श्यामबीर (जेसी-755805के), 30 अगस्त 2005/1 अगस्त 2005X

नायब सूबेदार बन्सु प्रसाद वर्मा (जेसी-755906एक्स), 1 सितम्बर 2005

अनिल कुमार (जेसी-755907ए), 1 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार अजय कुमार गुप्ता (जेसी-755535ए), 8 जून 2005/1 मई 2005X

नायब सूबेदार पी. लक्ष्मी नारायण (जेसी-755637 डब्ल्यू), 29 जुलाई 2005/1 मई 2005X

नायब सूबेदार हरि केशव (जेसी-755545के), 18 जुलाई 2005/1 जुलाई 2005X

नायब सूबेदार ब्रन्दाबन पाल (जेसी-755556 डब्ल्यू), 29 अगस्त 2005/1 जून 2005X

नायब सूबेदार पवाले हनुमन्त (जेसी-756151 ए), 5 अगस्त 2005/1 जून 2005X

नायब सूबेदार शशि चन्द्र मिश्रा (जेसी-755547पी), 25 अगस्त 2005/1 जुलाई 2005X

नायब सूबेदार शशांक चक्रवर्ती (जेसी-755483एम), 24 अगस्त 2005/01 जुलाई 2005\*

नायब सूबेदार सनबम रामेश्वर मैती (जेसी-755866एफ), 1 सितंबर 2005

नायब सूबेदार रति राम (जेसी-755746एच), 1 सितंबर 2005/1 अगस्त 2005X

सूबेदार टेक्नीकल के रैंक में लगातार  
 नायब सूबेदार पी जानसन वदामुता (जेसी-755751एन), 1 सितंबर 2005

नायब सूबेदार गौर चन्द्र सूत्रदार (जेसी-755809ए), 1 सितंबर 2005/1 अगस्त 2005X

नायब सूबेदार राम्बाबु शर्मा (जेसी-755756एम), 1 सितंबर 2005

नायब सूबेदार नेम सिंह (जेसी-756204एल), 1 सितंबर 2005/1 जुलाई 2005X

नायब सूबेदार विनोद कुमार (जेसी-755544एफ), 1 अगस्त 2005/1 जुलाई 2005X

सूबेदार आरटीजन (ई सी) के रैंक में  
 नायब सूबेदार सुखमार पांडा (जेसी-757336एल), 27 अगस्त 2005/1 जुलाई 2005X

नायब सूबेदार भक्त वत्सलम (जेसी-757338डब्ल्यू), 29 अगस्त 2005/1 अगस्त 2005X

नायब सूबेदार हरीश चन्द्र पांडे (जेसी.757352एच), 29 अगस्त 2005/1 अगस्त 2005X

नायब सूबेदार ईश्वर प्रसाद (जेसी-757342वाई), 29 अगस्त 2005/1 अगस्त 2005X

नायब सूबेदार संतो दास (जेसी-757777एफ), 30 अगस्त 2005/1 अगस्त 2005X

नायब सूबेदार सुब्रमन्यम एस. बी. (जेसी-75772एच), 1 सितंबर 2005

सूबेदार आरटीजन (एन ई) के रैंक में  
 नायब सूबेदार श्याम बाबु सिंह (जेसी-755924ए), 2 सितंबर 2005/1 अगस्त 2005X

सूबेदार आरटीजन ऐवियेशन के रैंक में  
 नायब सूबेदार पुरान चन्द्र (जेसी-753582वाई), 29 अगस्त 2005/1 अगस्त 2005X

नायब सूबेदार क्लर्क (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार दौलत सिंह यादव (जेसी-754004डब्ल्यू), 22 अगस्त 2005/01 जुलाई 2005X

सूबेदार एस के टी के रैंक में

नायब सूबेदार नारायण पी. (जेसी-754213 एन), 29 अगस्त 2005/1 जून 2005X

नायब सूबेदार डी. डब्ल्यू. के रैंक में

नायब सूबेदार कृष्ण प्रसाद यादव (जेसी-757459एक्स), 8 अगस्त 2005/1 अगस्त 2005X

नायब सूबेदार योगेन्द्र प्रसाद (जेसी-757461पी), 1 अगस्त 2005

नायब सूबेदार प्रदीप सी एच भोर्ताकुर (जेसी-757385एन), 22 अगस्त 2005/1 अगस्त 2005X

नायब सूबेदार इन्द्रज सिंह (जे सी-756942पी), 30 अगस्त 2005/22 मार्च 2005X

नायब सूबेदार रामप्पा वाघ (जेसी-751515एल), 1 सितंबर 2005

नायब सूबेदार ए. के. शर्मा (जेसी-757520डब्ल्यू), 1 सितंबर 2005

नायब सूबेदार जगदीश सिंह (जेसी-757474एम), 5 सितंबर 2005/1 अगस्त 2005X

सूबेदार टेक्नीकल के रैंक में

नायब सूबेदार छोटे लाल (जेसी-753245के), 28 नवम्बर 2005/1 जून 2005\*

नायब सूबेदार आदित्य कुमार धराई (जेसी-755477एफ), 28 जुलाई 2005/1 जून 2005\*

नायब सूबेदार मूसा एम. एम. (जेसी-755494एफ), 7 अक्टूबर 2005/1 जून 2005\*

नायब सूबेदार नरेश कुमार (जेसी-755864डब्ल्यू), 29 अगस्त 2005/1 जुलाई 2005\*

नायब सूबेदार जगदले एस. के. (जेसी-755666एल), 28 दिसम्बर 2005/1 अगस्त 2005\*

नायब सूबेदार वन्ना सिंह (जेसी-755807पी), 31 अगस्त 2005/1 अगस्त 2005\*

नायब सूबेदार अगरकर एस डब्ल्यू (जेसी-755873एक्स), 31 दिसम्बर 2005/1 अक्टूबर 2005\*

नायब सूबेदार रमेश चन्द (जेसी-755786एल), 23 दिसम्बर 2005/1 अक्टूबर 2005\*

नायब सूबेदार पमल्ला विजय भास्कर (जेसी-756283एल), 22 नवम्बर 2005/1 अक्टूबर 2005\*

नायब सूबेदार कान्हे गोरख देविदास (जेसी-755784 वाई), 23 नवम्बर 2005/1 अक्टूबर 2005\*

नायब सूबेदार के विजय राज (जेसी-755899एम) 31 दिसम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005\*

नायब सूबेदार विजयेन्द्र एम वी (जेसी-756033के), 02 जनवरी 2006/1 दिसम्बर 2005\*

नायब सूबेदार गनेश साहनी (जेसी-755881डब्ल्यू), 10 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005\*

नायब सूबेदार लोखान्हे तनहाजी रघुनाथ (जेसी-755882वाई), 02 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005\*

नायब सूबेदार कालू राम माली (जेसी-755883एफ), 29 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005\*

नायब सूबेदार महादेव नुली (जेसी-755974एल), 27 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005\*

नायब सूबेदार उमा दत्त शर्मा (जेसी-755975एन), 25 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005\*

नायब सूबेदार पी वेन्कटेश्वरलू (जेसी-758307के), 02 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005\*

नायब सूबेदार श्याम सिंह (जेसी-755902एफ), 02 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005\*

नायब सूबेदार राज पाल सिंह (जेसी-755903के), 25 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005\*

नायब सूबेदार किशन राम (जेसी-755936पी), 05 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005\*

नायब सूबेदार विजय कुमार पी के (जेसी-756007एच), 27 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005\*

नायब सूबेदार राज सिंह (जेसी-755980वाई), 24 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005\*

नायब सूबेदार अथानी सामल (जेसी-755983एम), 09 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005\*

नायब सूबेदार एम पोनमलाई (जेसी-755994वाई), 01 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005\*

नायब सूबेदार एस के दिल मोहम्मद (जेसी-755995एफ), 26 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005\*

नायब सूबेदार अनिल कुमार मन्डल (जेसी-755998पी), 27 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005\*

नायब सूबेदार बक्ता राम पटेल (जेसी-756036एक्स), 02 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005\*

नायब सूबेदार इलीसीअस सोरेना (जेसी-756037ए), 02 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005\*

नायब सूबेदार गिरीश चन्द्र अन्दोला (जेसी-756038ए), 26 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005\*

नायब सूबेदार ठाकुर सिंह (जेसी-756209के), 19 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005\*

नायब सूबेदार सी टी नाइडू (जेसी-755945डब्ल्यू), 22 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2006\*

सूबेदार आरटीजन (ईसी) के रैंक में

नायब सूबेदार कौर सिंह (जेसी-757557एक्स), 23 अगस्त 2005/01 जुलाई 2005\*

नायब सूबेदार सजित कुमार वी (जेसी-758045एक्स), 24 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005\*

नायब सूबेदार देवानन्द ठकुर (जेसी-757942एफ), 29 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005\*

सूबेदार आरटीजन (एनई) के रैंक में

नायब सूबेदार सत्य नरायन (जेसी-754174ए), 18 अक्टूबर 2005/01 नवम्बर 2005\*

नायब सूबेदार सतपाल शर्मा (जेसी-756022एक्स), 06 सितम्बर 2005/01 अगस्त 2005\*

नायब सूबेदार सुरेन्द्र प्रसाद (जेसी-756314ए), 12 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005\*

नायब सूबेदार राम चन्द्र (जेसी-756216ए), 27 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005\*

सूबेदार क्लर्क (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार देवेन्द्र कुमार शर्मा (जेसी-753958पी), 28 अगस्त 2005/01 जून 2005\*

नायब सूबेदार लक्ष्मन यादव (जेसी-754003एन), 27 अगस्त 2005/01 जून 2005\*

नायब सूबेदार प्रदीप कुमार चोपरा (जेसी-754113एच), 29 अगस्त 2005/01 अगस्त 2005\*

नायब सूबेदार विजेन्द्र कुमार (जेसी-754199वाई), 30 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005\*

सूबेदार आरमोर के रैंक में

नायब सूबेदार सी आर दास (जेसी-756958ए), 13 अक्टूबर 2005/01 अगस्त 2005\*

नायब सूबेदार चितरन्जन सरकार (जेसी-755960एल), 09 जनवरी 2005/01 सितम्बर 2005\*

नायब सूबेदार सुरेश चन्द्र (जेसी-756765ए), 23 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005\*

नायब सूबेदार पूरन सिंह (जेसी-756716एक्स), 23 नवम्बर 2005/01 सितम्बर 2005\*

नायब सूबेदार बसवाराज कोनुरी (जेसी-756916एन), 17 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005\*

नायब सूबेदार ए रमेश (जेसी-756917डब्ल्यू), 31 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005\*

नायब सूबेदार शिव प्रसाद पन्डा (जेसी-757045एल), 26 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005\*

नायब सूबेदार कन्हैया लाल (जेसी-757136पी), 26 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005\*

सूबेदार ड्राइवर के रैंक में

नायब सूबेदार उमेश सिंह (जेसी-757606पी), 02 दिसम्बर 2005/01 नवम्बर 2005\*

नायब सूबेदार रनजीत सिंह (जेसी-757526एक्स), 29 नवम्बर 2005/01 नवम्बर 2005\*

नायब सूबेदार सचिता नन्द सिंह (जेसी-757823एल), 20 दिसम्बर 2005/01 नवम्बर 2005\*

नायब सूबेदार धनेश्वर राय (जेसी-757826वाई), 24 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005\*

नायब सूबेदार अविनाश कुमार ओझा (जेसी-757997एल), 26 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005\*

नायब सूबेदार नगेन्द्र सिंह (जेसी-757944एम), 02 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005\*

नायब सूबेदार भूपेन्द्र सिंह (जेसी-757945पी), 28 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005\*

नायब सूबेदार प्रीतम चन्द्र (जेसी-757946एक्स), 26 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005\*

नायब सूबेदार राम नरेश (जेसी-757947ए), 26 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005\*

नायब सूबेदार माखन सिंह (जेसी-758002एच), 30 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005\*

सूबेदार टेक्नीकल के रैंक में

नायब सूबेदार रजिन्द्र सिंह (जेसी-755589एफ), 01 मई 2005

नायब सूबेदार बिमल चन्द्र नाथ (जेसी-755501एम), 19 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005\*

नायब सूबेदार नरेश कुमार मेहता (जेसी-755654डब्ल्यू), 24 अगस्त 2005/01 जून 2006\*

नायब सूबेदार मोरे सम्भाजी निवर्तुती (जेसी-755801एन), 31 अगस्त 2005/01 जुलाई 2005\*

नायब सूबेदार कैलाश चन्द्र (जेसी-755863एन), 30 अगस्त 2005/01 जुलाई 2005\*

नायब सूबेदार बिरबल प्रसाद (जेसी-755550पी), 31 अगस्त 2005/01 जुलाई 2005\*

नायब सूबेदार शैलेन्द्र कुमार दुबे (जेसी-755677एक्स), 22 अगस्त 2005/01 अगस्त 2005\*

नायब सूबेदार सुरेश कुमार तानवार (जेसी-755679एच), 01 सितम्बर 2005/01 अगस्त 2006\*

नायब सूबेदार अनील कुमार मिश्रा (जेसी-755748एन), 01 सितम्बर 2005/01 अगस्त 2006\*

नायब सूबेदार विजय नारायण त्रिपाठी (जेसी-755749डब्ल्यू), 03 सितंबर 2005/01 सितंबर 2005\*

नायब सूबेदार इन्दरजीत (जेसी-755750एल), 01 सितंबर 2005

नायब सूबेदार डी सी उपरेती (जेसी-755757पी), 01 सितंबर 2005

नायब सूबेदार एस बी एस जगतागोरी (जेसी-755802डब्ल्यू), 30 अगस्त 2005/01 अगस्त 2005\*

नायब सूबेदार प्रादीप पटेल (जेसी-755868एम), 01 सितंबर 2005

नायब सूबेदार महेन्द्रा नाथ मन्डी (जेसी-755872एम), 01 सितंबर 2005

नायब सूबेदार पी मूर्ती (जेसी-755361एल), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार श्री कृष्णन (जेसी-755475डब्ल्यू), 18 जुलाई 2005/01 जून 2005\*

नायब सूबेदार सुशील कुमार (जेसी-755715एच), 23 अगस्त 2005/01 जून 2006\*

नायब सूबेदार चन्द्रा पाल पटेल (जेसी-755668डब्ल्यू), 28 अगस्त 2005/01 अगस्त 2005\*

नायब सूबेदार दिल बाग हिंस (जेसी-755695ए), 27 अगस्त 2005/01 अगस्त 2005\*

नायब सूबेदार एस के श्रीवास्तवा (जेसी-755696एच), 29 अगस्त 2005/01 अगस्त 2005\*

नायब सूबेदार एस मुत्तू एस कृष्णन (जेसी-755665एन), 02 सितंबर 2005/01 अगस्त 2005\*

नायब सूबेदार मनगत राम (जेसी-755579एक्स), 04 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005\*

नायब सूबेदार बशीर खान (जेसी-755656के), 18 जुलाई 2005/01 जून 2005\*

नायब सूबेदार अरविन्द कुमार (जेसी-755671डब्ल्यू), 24 अगस्त 2005/01 जुलाई 2005\*

नायब सूबेदार योगेन्द्रा नाथ चतुर्वेदी (जेसी-755651एच), 17 सितंबर 2005/01 जून 2005\*

नायब सूबेदार माल सिंह शेखावत (जेसी-755539डब्ल्यू), 16 अगस्त 2005/01 जून 2005\*

नायब सूबेदार पी विजय कुमार (जेसी-755702एल), 12 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005\*

नायब सूबेदार मल्लीका अर्जुन स्वामी (जेसी-755861एच), 16 सितंबर 2005/01 जुलाई 2005\*

नायब सूबेदार एन मुरलीधरन (जेसी-755720एन), 31 अगस्त 2005/01 जुलाई 2005\*

नायब सूबेदार सुजीत कुमार नाथ (जेसी-755745ए), 30 अगस्त 2005/01 जुलाई 2005\*

नायब सूबेदार मनोरान्जन डे (जेसी-756366डब्ल्यू), 24 अगस्त 2005/01 जुलाई 2005\*

नायब सूबेदार श्री पाल सिंह (जेसी-755653एन), 12 सितंबर 2005/01 जुलाई 2005\*

नायब सूबेदार वी पी सिंह (जेसी-755689डब्ल्यू), 26 अगस्त 2005/01 अगस्त 2005\*

नायब सूबेदार मोहम्मद जियाउद्दीन (जेसी-756511एच), 27 सितंबर 2005/01 अगस्त 2005\*

नायब सूबेदार राम बालक सिंह (जेसी-755754एफ), 01 सितंबर 2005

नायब सूबेदार जयमोहनन (जेसी-755895डब्ल्यू), 28 सितंबर 2005/01 अगस्त 2005\*

नायब सूबेदार सूर्या देव (जेसी-755698एन), 29 अगस्त 2005/01 अगस्त 2005\*

नायब सूबेदार आर के नेग (जेसी-755680एक्स), 26 सितंबर 2005/01 अगस्त 2005\*

नायब सूबेदार दुलाल बासु बिस्बास (जेसी-755869पी), 01 सितंबर 2005

नायब सूबेदार रघुवीर सिंह (जेसी-755687एफ), 27 सितंबर 2005/01 अगस्त 2005\*

नायब सूबेदार रवीन्द्र सिंह (जेसी-755667एन), 29 अगस्त 2005/01 अगस्त 2005\*

नायब सूबेदार चन्द्र शेखर (जेसी-755752डब्ल्यू), 16 सितंबर 2005/01 सितंबर 2005\*

सूबेदार आरटीज (ईसी) के रैंक में

नायब सूबेदार जयनन्दन (जेसी-757261वाई), 23 अगस्त 2005/01 जुलाई 2005\*

नायब सूबेदार निर्माल कुमार साहू (जेसी-757360एफ), 01 सितंबर 2005

नायब सूबेदार दिवाकर प्रसाद सिंह (जेसी-757771ए), 07 सितंबर 2005/01 सितंबर 2005\*

नायब सूबेदार ए एस बिष्ट (जेसी-757778के), 01 सितंबर 2005

नायब सूबेदार राम कृष्ण सिन्हा (जेसी-757940डब्ल्यू), 01 सितंबर 2005

नायब सूबेदार तपेस चक्रावर्ती (जेसी-757248पी), 05 सितंबर 2005/01 जून 2005\*

नायब सूबेदार विजय कुमार पीएस (जेसी-758319एक्स), 18 सितंबर 2005/01 जनवरी 2005\*

नायब सूबेदार तीप्पन्ना नुचा नाती (जेसी-757339वाई), 19 सितंबर 2005/01 अगस्त 2005\*

नायब सूबेदार मोहनन नायर टीआर (जेसी-757554के), 23 सितंबर 2005/01 सितंबर 2005\*



## सूबेदार आरटीज (एनई) के रैंक में

नायब सूबेदार कैलास बाबू (जेसी-755922पी), 07 सितंबर 2005/01  
जुलाई 2005\*

नायब सूबेदार वाई एन मलेश (जेसी-755856एक्स), 01 सितंबर  
2005/01 अगस्त 2005\*

नायब सूबेदार वेमा राजू सेसम राजू (जेसी-755438एच), 10 अगस्त  
2005/01 जुलाई 2005\*

## सूबेदार टेक्नीकल (एवीएन) के रैंक में

नायब सूबेदार ए पी विश्वाकर्मा (जेसी-756586ए), 28 जुलाई 2005/01  
जून 2005\*

## सूबेदार क्लर्क (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार सुभा चन्द यादव (जेसी-754160ए), 01 सितंबर 2005/01  
अगस्त 2005\*

नायब सूबेदार मोहिन्दर सिंह (जेसी-754161एन), 01 सितंबर 2005

## सूबेदार आरमोरर के रैंक में

नायब सूबेदार राधा कान्त प्रसाद सिंह (जेसी-754852पी), 08 अगस्त  
2005/01 अगस्त 2002\*

नायब सूबेदार तेज बहादुर पाल (जेसी-755223के), 06 सितम्बर  
2005/01 जून 2005\*

## सूबेदार ड्राईवर के रैंक में

नायब सूबेदार ए के इंगले (जेसी-757464एच), 8 सितंबर 2005/1  
अगस्त 2005\*

नायब सूबेदार पवित्र कुमार दास (जेसी-757518वाई), 2 सितंबर  
2005/1 सितंबर 2005\*

नायब सूबेदार चयन लाल (जेसी-757587एफ), 27 अगस्त 2005/1  
अगस्त 2005\*

नायब सूबेदार उमा शंकर सिंह (जेसी-757571के), 1 सितंबर 2005

नायब सूबेदार ओम साराज (जेसी-757353एल), 31 अगस्त 2005/1  
अगस्त 2005\*

नायब सूबेदार यू के मिश्रा (जेसी-757463ए), 1 अगस्त 2005

नायब सूबेदार सुरेश प्रसाद साह (जेसी-757462एक्स), 29 अगस्त  
2005/1 अगस्त 2005\*

नायब सूबेदार एन एस नेगी (जेसी-757570एफ), 2 सितंबर 2005/1  
अगस्त 2005\*

नायब सूबेदार विजय कुमार सिंह (जेसी-757519पी), 1 सितंबर 2005

नायब सूबेदार हन्श नारायण सिंह (जेसी.757513ए), 1 सितंबर 2005

## हवलदार से नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) के रैंक में

राजेन्द्र प्रसाद दास (सं. 14558056डब्ल्यू अब जेसी-760301ए),  
08 नवंबर 2005/1 अक्टूबर 2005\*

कृष्णामूर्ती एल (सं. 14559673एल अब जेसी-760303एल), 10 नवंबर  
2005/1 अक्टूबर 2005\*

देवेन्द्र कुमार पन्डा (सं. 14559722एच अब जेसी-760305डब्ल्यू),  
5 नवंबर 2005/1 अक्टूबर 2005\*

तारापद परीदा (सं. 14559723एल अब जेसी-760306वाई),  
31 अक्टूबर 2005/1 अक्टूबर 2005\*

सत्यबीर सिंह (सं. 14548942एम अब जेसी-760308के), 7 नवंबर  
2005/1 अक्टूबर 2005\*

लालन सिंह (सं. 14555360पी अब जेसी-760309एम), 12 नवंबर  
2005/1 अक्टूबर 2005\*

## एच एम टी से नायब सूबेदार टेक बी (वेहिकल) के रैंक में

पी ए खान (सं. 14607399वाई अब जेसी-760239वाई), 7 नवंबर  
2005/1 सितंबर 2005\*

नाबा कुमार कुन्दु (सं. 14608033एन अब जेसी-760242 वाई), 28  
अक्टूबर 2005/1 सितंबर 2005\*

दुखित राम पाल (सं. 14609528एम अब जेसी-760257एफ), 29  
अक्टूबर 2005/1 सितंबर 2005\*

अरविन्द्रा पटनायक (सं. 14609225एक्स अब जेसी-760260एफ),  
19 अक्टूबर 2005/1 सितंबर 2005\*

अजय कुमार सिंह (सं. 14609720डब्ल्यू अब जेसी-760264एक्स),  
20 अक्टूबर 2005/1 सितंबर 2005\*

## एच एम टी से नायब सूबेदार टेक (अरमोरर) के रैंक में

अशोक कुंवर (सं. 14610329एल अब जेसी-760285एन),  
26 अक्टूबर 2005/1 सितंबर 2005\*

## हवलदार से नायब सूबेदार (अरमोरर) के रैंक में

कामेश्वर ठाकुर (सं. 14546526के अब जेसी-760187एन),  
11 अक्टूबर 2005/1 सितंबर 2005\*

पी पदमाजन नायर (सं. 14546923एच अब जेसी-760188डब्ल्यू),  
11 अक्टूबर 2005/1 सितंबर 2005\*

केदार नाथ नायक (सं. 14547886एम अब जेसी-760200एम),  
31 अक्टूबर 2005/1 सितंबर 2005\*

सत्य प्रकाश (सं. 14548178एम अब जेसी-760203ए), 6 अक्टूबर  
2005/1 सितंबर 2005\*

अरून कुमार सिंह (सं. 14539194एच अब जेसी-760210डब्ल्यू),  
5 नवंबर 2005/1 सितंबर 2005\*

राम बाबू (सं. 14545422 डब्ल्यू अब जेसी-760211वाई), 01 नवंबर 2005/1 सितंबर 2005\*

विजय कुमार सिंह (सं. 14550353पी अब जेसी-760218एच), 04 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005\*

एस के विश्नोई (सं. 14550389एन अब जेसी-760222एल), 17 अक्टूबर 2005/1 सितंबर 2005\*

अशोक कुमार पी आर (सं. 14546797एफ अब जेसी-760186एल), 24 अक्टूबर 2005/1 सितंबर 2005\*

श्रीनू पी के (सं. 14546093एक्स अब जेसी-760191डब्ल्यू), 11 नवंबर 2005/1 सितंबर 2005\*

शिव भगत (सं. 14549533एल अब जेसी-760224डब्ल्यू), 5 अक्टूबर 2005/1 सितंबर 2005\*

हवलदार से नायब सूबेदार इलेक्ट (एम वी) के रैंक में

गजेन्द्र प्रसाद शर्मा (सं. 14536775पी जेसी-760293एम), 30 अगस्त 2005

राधे श्याम यादव (सं. 14676320 डब्ल्यू अब जेसी-760174 डब्ल्यू), 17 अक्टूबर 2005/1 सितंबर 2005\*

हवलदार से नायब सूबेदार वी एम (एम वी) के रैंक में

एस एन शर्मा (सं. 14540383वाई अब जेसी-760296ए), 9 नवंबर 2005/सितंबर 2005\*

जगदीश चन्द्र शर्मा (सं. 14540103ए अब जेसी-760299एन), 11 नवंबर 2005/1 अक्टूबर 2005\*

हवलदार से नायब सूबेदार ड्राईवर (एम टी) के रैंक में

चन्द्र प्रकाश दीक्षित (सं. 14542855एच अब जेसी-760154एच), 27 अक्टूबर 2005/1 सितंबर 2005\*

मुन्ना लाल (सं. 14543045एम अब जेसी-760155एल), 1 नवंबर 2005/1 सितंबर 2005\*

परमानंद बेहरा (सं. 14542145एल अब जेसी-760310एफ), 16 अक्टूबर 2005/1 अक्टूबर 2005\*

वारादी गोपाल राव (सं. 14543462वाई अब जेसी-760314एक्स), 14 नवंबर 2005/1 अक्टूबर 2005\*

सिया राम (सं. 14537259एम अब जेसी-760311के), 18 नवंबर 2005/1 अक्टूबर 2005\*

सूबेदार मेजर टेक्नीकल के रैंक में

सूबेदार अद्दला रामअन्जानेयल्लु (जेसी-747532एक्स), 1 मार्च 2005

सूबेदार बिशराम प्रसाद (जेसी-748055एन), 1 मई 2005

सूबेदार विनोद कुमार पनवर (जेसी-748446वाई), 30 जून 2005/ 1 जून 2005X

सूबेदार मेजर (आरमोर) के रैंक में

सूबेदार एस मोताइयन (जेसी-752626वाई), 6 मई 2005/1 मई 2005\*

सूबेदार मुकटेश्वर झा (जेसी-752630एफ), 30 जून 2005/1 जून 2005X

सूबेदार टेक्नीकल के रैंक में

नायब सूबेदार चन्चल सिंह (जेसी-755553एच), 1 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार अतुल चन्द्र बोरा (जेसी-755509वाई), 9 मई 2005/1 मई 2005X

नायब सूबेदार शिव प्रसाद दिक्षीत (जेसी-755530एफ), 14 मई 2005/1 मई 2005X

नायब सूबेदार सुरिन्दर कुमार (जेसी-755533पी), 24 मई 2005/1 मई 2005X

नायब सूबेदार ए के सिंह (जेसी-754238ए), 27 मई 2005/ 1 नवंबर 2003X

नायब सूबेदार सुनील कुमार बी (जेसी-755645पी), 4 जून 2005/1 मई 2005X

नायब सूबेदार सुरेन्द्र नाथ (जेसी-755635एल), 4 जून 2005/1 मई 2005X

नायब सूबेदार दीप कुमार चौधरी (जेसी-755634एच), 6 जून 2005/1 मई 2005X

नायब सूबेदार राजेश सिंह (जेसी-755632एक्स), 6 जून 2005/1 मई 2005X

नायब सूबेदार सन्जीव कुमार (जेसी-755639एफ), 8 जून 2005/1 मई 2005X

नायब सूबेदार हरिष कुमार एन (जेसी-755642एफ), 8 जून 2005/1 मई 2005X

सूबेदार टेक्नीकल (एवियेशन) के रैंक में

नायब सूबेदार राम किशन (जेसी-756496वाई), 1 जून 2005/1 अप्रैल 2005X

नायब सूबेदार गजराज सिंह (जेसी-756207वाई), 4 जून 2005/1 मार्च 2005X

नायब सूबेदार अरविन्द कुमार सा (जेसी-756509एल), 8 जून 2005/ 1 मई 2005X

नायब सूबेदार जसवन्त सिंह (जेसी-756320एन), 13 जून 2005/1 मार्च 2005X

नायब सूबेदार अनन्ता घोष (जेसी-756002ए), 20 जून 2005/1 मार्च 2005X

सूबेदार आरटीजन (एन ई) के रैंक में

नायब सूबेदार प्रभाकर त्रिवेदी (जेसी-755148एल), 1 मई 2005

## सूबेदार क्लर्क ( जी डी ) के रैंक में

नायब सूबेदार भगवान दास ( जेसी-753938एफ ), 24 मई 2005/01 मई 2005X

नायब सूबेदार के जोधिमनी ( जेसी-753714एफ ), 3 जून 2005/1 दिसंबर 2004X

## सूबेदार रिक्वरी मॅक के रैंक में

नायब सूबेदार शिन्दे राम मारूती ( जेसी-751281डब्ल्यू ), 21 जून 2005/07 अप्रैल 2004X

X पिछली तारीख से श्रेष्ठता दी जाती है ।

राष्ट्रपति, श्रीमती दर्शना ढिंगरा अब ( स्टेनो ग्रेड-I ) को दिनांक 23 मार्च 2005 ( पूर्वाह्न ) से ई. एम. ई. कोर, रक्षा मंत्रालय में स्थानापन्न प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में अगले आदेश तक नियुक्त करते हैं ।

1. वह दो वर्षों की परख अवधि पर रहेंगे ।

राष्ट्रपति, श्री राजिन्द्र नाथ अरोरा अब ( स्टेनो ग्रेड-I ) को दिनांक 13 जुलाई 2005 ( पूर्वाह्न ) से ई. एम. ई. कोर, रक्षा मंत्रालय में स्थानापन्न प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में अगले आदेश तक नियुक्त करते हैं ।

1. वह दो वर्षों की परख अवधि पर रहेंगे ।

एन के कश्मीरा  
अवर सचिव

-----

सं. 432, दिनांक 3 अगस्त 2006--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :--

## नियमित सेना

कोर आफ इंजीनियर

मद्रास इंजीनियर ग्रुप

सूबेदार मेजर ( जी.डी. ) के मूल रैंक में

सूबेदार जी.डी. वी राजाकुमार ( जेसी-305690एक्स ), 03 मई 2006

सूबेदार जी.डी. सी गोविंदन ( जेसी-305693एल ), 04 मई 2006

सूबेदार ( जी डी ) के मूल रैंक में

नायब सूबेदार जी.डी. साजीव ए ( जेसी-307279एल ), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार जी.डी. विजयन वी ( जेसी-307391एक्स ), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार जी.डी. करूनाथि टी ( जेसी-307421के ), 14 मार्च 2006

नायब सूबेदार जी.डी. कृष्णन कुट्टी सी ( जेसी-307440पी ), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार जी.डी. डी दोरास्वामी रेड्डी ( जेसी-307442ए ), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार जी.डी. एम चिन्नाप्पन ( जेसी-307445एन ), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार जी.डी. वी अरूल सेल्वम ( जेसी-307446डब्ल्यू ), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार जी.डी. के अनिल कुमार ( जेसी-307459एन ), 15 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार जी.डी. के कुमारास्वामी ( जेसी-307454वी ), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार जी.डी. देवेद्रा कुमार के ( जेसी-307456ए ), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार जी.डी. कृष्णन कुट्टी पिल्लै सी ( जेसी-307457एच ), 30 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार जी.डी. मनोज कुमार पी ( जेसी-307458एल ), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार जी.डी. रूसल सी ( जेसी-307466के ), 01 मई 2006

नायब सूबेदार जी.डी. राधाकृष्णन पिल्लै जी ( जेसी-307467एम ), 01 मई 2006

नायब सूबेदार जी.डी. अब्दुल खायाम ( जेसी-307468पी ), 03 मई 2006

नायब सूबेदार जी.डी. प्रभाकरन एम वी ( जेसी-307469एक्स ), 01 मई 2006

नायब सूबेदार जी.डी. एन आरुमुगम ( जेसी-307472एक्स ), 01 मई 2006

नायब सूबेदार जी.डी. पी एल्फ्रेड ( जेसी-307474एच ), 01 मई 2006

सूबेदार मेजर ( जी डी ) के मूल रैंक में

सूबेदार जी.डी. के मुनियन ( जेसी-305238एच ), 16 मार्च 2006

सूबेदार जी.डी. मनोहरन के ( जेसी-305399एल ), 16 मार्च 2006

सूबेदार जी.डी. रामाकृष्णन ए पी ( जेसी-305578एल ), 01 अप्रैल 2006

सूबेदार ( जी डी ) के मूल रैंक में

नायब सूबेदार जी.डी. सी राजेंद्रन ( जेसी-307392ए ), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार जी.डी. जी साइबाबु ( जेसी-307397वाई ), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार जी.डी. जोर्ज जोसेफ ( जेसी-307410एक्स ), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार जी.डी. आर मसिलामानि ( जेसी-307413एल ), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार जी.डी. मोहनन के एल ( जेसी-307418के ), 27 मार्च 2006

नायब सूबेदार जी.डी. के जोर्ज चक्रवर्थी ( जेसी-307419एम ), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार जी.डी. रमेश चामुराव पाटिल (जेसी-307422एम),  
01 मार्च 2006

नायब सूबेदार जी.डी. राजेंदिरन एन (जेसी-307436एम), 07 मार्च  
2006

नायब सूबेदार जी.डी. आर राजेंद्रन (जेसी-307437पी), 07 मार्च  
2006

नायब सूबेदार जी.डी. आर पालानि (जेसी-307438एक्स), 08 मार्च  
2006

नायब सूबेदार जी.डी. लक्ष्मन कारिहोलि (जेसी-307439ए), 01 अप्रैल  
2006

नायब सूबेदार जी.डी. रवींद्रन पी (जेसी-307441एक्स), 01 अप्रैल  
2006

नायब सूबेदार जी.डी. शालि एम डी (जेसी-307444एल), 01 अप्रैल  
2006

नायब सूबेदार जी.डी. एम लौर्डु (जेसी-307455एक्स), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार जी.डी. राजेन्द्र कुमार सी (जेसी-307626वाई),  
01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार जी.डी. स्वीटो फ्रांसिस (जेसी-307774के), 01 अप्रैल  
2006

#### बम्बई इंजीनियर ग्रुप

##### सूबेदार मेजर (जी डी) के रैंक में

सूबेदार जी.डी. गुरचरन सिंह (जेसी-347824एम), 01 मार्च 2006

सूबेदार जी.डी. गयुर अहमद खान (जेसी-347721एन), 01 मार्च 2006

सूबेदार जी.डी. पाटील तानाजी अप्पाजी (जेसी-347755एफ),  
11 मार्च 2006

##### सूबेदार मेजर (क्लर्क जी डी) के रैंक में

सूबेदार क्लर्क जी.डी. राम बहादुर पांडे (जेसी-209582डब्ल्यू), 10 मार्च  
2006

सूबेदार क्लर्क जी.डी. दिवाकर सिंह (जेसी-347008डब्ल्यू), 04 मार्च  
2006

सूबेदार क्लर्क जी.डी. रमेश कुमार (जेसी-347244एक्स), 03 मार्च  
2006

##### सूबेदार मेजर (एस के टी) के रैंक में

सूबेदार एस के टी गुरदयाल सिंह (जेसी-347292एक्स), 24 फरवरी  
2006

##### सूबेदार (जी डी) रैंक में

नायब सूबेदार जी डी कोलेकर बाबाजी धोंडु (जेसी-349258डब्ल्यू),  
10 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार जी डी राम किशन (जेसी-349281के), 13 मार्च 2006

नायब सूबेदार जी डी रमेश सिंह (जेसी-349282एम), 07 मार्च 2006

नायब सूबेदार जी डी निंबालकर सहदेव ज्ञानु (जेसी-349293वाई),  
01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार जी डी भोला सिंह (जेसी-349215एफ), 08 मार्च 2006

नायब सूबेदार जी डी मोहम्मद इजाजुल अली (जेसी-349228वाई),  
14 मार्च 2006

नायब सूबेदार जी डी सुलाचान सिंह (जेसी-349241एच), 07 मार्च  
2006

नायब सूबेदार जी डी खुरशीद (जेसी-349266पी), 07 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार जी डी बलविंदर सिंह (जेसी-349280एफ), 06 मार्च  
2006

नायब सूबेदार जी डी अजहर मिया (जेसी-349296एम), 05 अप्रैल  
2006

नायब सूबेदार जी डी हरभजन सिंह (जेसी-349265एम), 04 अप्रैल  
2006

नायब सूबेदार जी डी मनजीत सिंह भट्टी (जेसी-349261डब्ल्यू),  
01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार जी डी केशव सिंह (जेसी-349295के), 07 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार जी डी राम किशोर (जेसी-349229एफ), 07 मार्च  
2006

नायब सूबेदार जी डी शिंदे दत्ता बालकृष्ण (जेसी-349195वाई),  
13 फरवरी 2006

नायब सूबेदार जी डी गुरनीत लाल (जेसी-349230डब्ल्यू), 10 मार्च  
2006

नायब सूबेदार जी डी दीपक (जेसी-349240ए), 08 मार्च 2006

नायब सूबेदार जी डी जसबीर सिंह (जेसी-349175एल), 13 जनवरी  
2006

नायब सूबेदार जी डी केवलजीत सिंह (जेसी-349235पी), 16 फरवरी  
2006

नायब सूबेदार जी डी बीरबल सिंह (जेसी-349278के), 14 मार्च 2006

नायब सूबेदार जी डी मोहम्मद जाकीर हुसैन (जेसी-349179एफ),  
03 फरवरी 2006

नायब सूबेदार जी डी धीर सिंह (जेसी-349247के), 04 मार्च 2006

नायब सूबेदार जी डी दलीप सिंह (जेसी-349279एम), 08 मार्च 2006

नायब सूबेदार जी डी कैरूलम जलालुद्दीन (जेसी-349250के),  
01 मार्च 2006

नायब सूबेदार जी डी बलवीर सिंह (जेसी-349277एफ), 01 अप्रैल  
2006

नायब सूबेदार जी डी जाधवा वामन माधवा राव (जेसी-349245वाई),  
05 मार्च 2006

नायब सूबेदार (जी डी) कैलाश चंद (जेसी-349260एन), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार (जी डी) इब्राहिम खान (जेसी-349214वाई), 04 मार्च 2006

नायब सूबेदार (जी डी) मोबीन अहमद (जेसी-349292डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार (जी डी) नरेंद्र कुमार (जेसी-349271ए), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार (जी डी) जयबीर सिंह सिरवाग (जेसी-349223ए), 03 मार्च 2006

नायब सूबेदार (जी डी) जसबीर सिंह (जेसी-349224एच), 03 मार्च 2006

नायब सूबेदार (जी डी) पिसाल श्रीमंत निवृत्ती (जेसी-349264के), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार (जी डी) चव्हाण रमेश रामकृष्णा (जेसी-349226एन), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार (जी डी) कुलाट पोपट विश्वनाथ (जेसी-349243एन), 08 मार्च 2006

#### सूबेदार क्लर्क (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क (जी डी) रत्तन सिंह (जेसी-348651एम), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार क्लर्क (जी डी) रामबवेश सिंह यादव (जेसी-348616के), 22 मार्च 2006

नायब सूबेदार क्लर्क (जी डी) सुवाश चंद टिओट्या (जेसी-348637ए), 07 मार्च 2006

नायब सूबेदार क्लर्क (जी डी) श्याम नारायण (जेसी-348639एल), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार क्लर्क (जी डी) योगेंद्र सिंह हुड्डा (जेसी-348644डब्ल्यू), 03 मार्च 2006

नायब सूबेदार क्लर्क (जी डी) जगन सिंह (जेसी-348638एच), 08 मार्च 2006

नायब सूबेदार क्लर्क (जी डी) जगतार सिंह (जेसी-348643एन), 08 मार्च 2006

#### सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

नायब सूबेदार (एस के टी) प्रदीप कुमार (जेसी-348936वाई), 02 मार्च 2006

नायब सूबेदार (एस के टी) जगत पाल (जेसी-348920एन), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार (एस के टी) सोधा चतुर सिंग खेत सिंह (जेसी-348871डब्ल्यू), 28 फरवरी 2006

#### सूबेदार मेजर क्लर्क (जी डी) के रैंक में

सूबेदार क्लर्क (जी डी) शिरसात गुलाब किसन (जेसी-347003एक्स), 21 अप्रैल 2006

#### सूबेदार मेजर (जी डी) के रैंक में

सूबेदार (जी डी) हरीओम सिंह (जेसी-347874एक्स), 11 मई 2006

#### सूबेदार क्लर्क (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क (जी डी) गिरीष चंद्र बेलवाल (जेसी-348648एम), 08 मई 2006

#### सूबेदार (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार (जी डी) शाम सिंह (जेसी-349290एल), 07 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार (जी डी) शमशेर सिंह (जेसी-349275डब्ल्यू), 01 मई 2006

नायब सूबेदार (जी डी) सुखदेव सिंह (जेसी-349254ए), 07 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार (जी डी) कैलाश चंद (जेसी-348924के), 12 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार (जी डी) प्रेम सिंह (जेसी-349274एन), 01 मई 2006

नायब सूबेदार (जी डी) केसर सिंह (जेसी-349285ए), 14 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार (जी डी) जोगा सिंह (जेसी-349311डब्ल्यू), 03 मई 2006

नायब सूबेदार (जी डी) अजाम हुसैन (जेसी-349366ए), 01 मई 2006

नायब सूबेदार (जी डी) बाबा सिंह (जेसी-349301एम), 01 मई 2006

नायब सूबेदार (जी डी) सठवने कृष्णाराव महादेव (जेसी-349316पी), 08 मई 2006

नायब सूबेदार (जी डी) जाधव शंकर रामचंद्र (जेसी-349294एफ), 01 मई 2006

नायब सूबेदार (जी डी) बुरुटे कृष्णा गेना (जेसी-349320एक्स), 01 मई 2006

नायब सूबेदार (जी डी) अबदुल कयुम (जेसी-349302पी), 01 मई 2006

नायब सूबेदार (जी डी) प्रकाश मारुतीराव कराले (जेसी-349321ए), 01 मई 2006

नायब सूबेदार (जी डी) करंमजौत सिंह (जेसी-349267एक्स), 22 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार (जी डी) अवतार सिंह (जेसी-349222एक्स), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार (जी डी) मोटे भागवत मुकुंदराव (जेसी-349289डब्ल्यू), 01 मई 2006

नायब सूबेदार (जी डी) गणेश बहादुर (जेसी-349259वाई), 09 मार्च 2006

नायब सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

हवलदार (एस के टी) जगत सिंह (सं. 1575476एम अब जेसी-350225एक्स), 14 मार्च 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) के रैंक में

हवलदार क्लर्क जी डी कट्टाबाडी एच हुसेन भाषा (सं. 1574921एन अब जेसी-350228एल), 03 मार्च 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जाएगी।)

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार (जीडी) गुनीलाल दवन बोपचे (सं. 1568497ए अब जेसी-350226ए), 7 मार्च 2006

हवलदार (जीडी) हबीब खान (सं. 1569627के अब जेसी-350227एच), 10 मार्च 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार (जीडी) राम चंद (सं. 1559281एक्स अब जेसी-350229एन) 1 मार्च 2006

हवलदार (जीडी) परमजीत सिंह (सं. 1559852एल अब जेसी-350230एच), 5 मार्च 2006

हवलदार (जीडी) क्षीरसागर अनिल ज्ञानेश्वर (सं. 1559971एफ अब जेसी-350231एल), 18 मार्च 2006

हवलदार (जीडी) कदम भगवान नथुराम (सं. 1586816के अब जेसी-350232एन), 21 मार्च 2006

हवलदार (जीडी) खिलाडकर बापुसाहेब श्रीपती (सं. 1557314वाई अब जेसी-350233डब्ल्यू), 1 मार्च 2006

हवलदार (जीडी) चन्द्रीका प्रसाद (सं. 1558540एच अब जेसी-350234वाई), 13 मार्च 2006

हवलदार (जीडी) कडु रामभाऊ शंकर (सं. 1559204एच अब जेसी-350235एफ), 1 मार्च 2006

हवलदार (जीडी) गुलेर चंद (सं. 1559784एच अब जेसी-350236के), 25 मार्च 2006

हवलदार (जीडी) पाटील सुरेश गुंडप्पा (सं. 1566899वाई अब जेसी-350237एम), 9 मार्च 2006

हवलदार (जीडी) प्रकाश विश्वनाथ राव जाधव (सं. 1567006एम अब जेसी-350238पी), 14 मार्च 2006

हवलदार (जीडी) उतेकर विश्वास दौलत (सं. 1567134के अब जेसी-350239एक्स), 16 मार्च 2006

हवलदार (जीडी) गुरमुख सिंह (सं. 1567247एच अब जेसी-350240एम), 16 मार्च 2006

हवलदार (जीडी) गुरनाम सिंह (सं. 1567302एक्स अब जेसी-350241पी), 18 मार्च 2006

हवलदार (जीडी) गुरबचन सिंह (सं. 1567311वाई अब जेसी-350242एक्स), 14 मार्च 2006

हवलदार (जीडी) कश्मीर सिंह (सं. 1575604वाई अब जेसी-350243ए), 1 मार्च 2006

हवलदार (जीडी) इनामदार चंद अब्दुल (सं. 1567730डब्ल्यू अब जेसी-350244एच), 13 मार्च 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 2006 से दी जाएगी)

हवलदार (जीडी) डिप्टी गिरी (सं. 1571580एच अब जेसी-350245एल), 1 अप्रैल 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

हवलदार (एस के टी) जगदाले अनिल कुमार गोविंद (सं. 1576081एक्स अब जेसी-350197डब्ल्यू), 31 जनवरी 2006

हवलदार (एस के टी) शिलाके जिभाऊ माणिक (सं. 1579175ए अब जेसी-350198वाई), 5 फरवरी 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2006 से दी जाएगी)

हवलदार (एस के टी) अरूण कुमार डे (सं. 1586201वाई अब जेसी-350218एफ), 11 फरवरी 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) के रैंक में

हवलदार क्लर्क (जीडी) अरिवंदकशन पिल्लै एस (सं. 1574180एफ अब जेसी-350184वाई), 14 दिसम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क (जीडी) मेहर चंद (सं. 1574336एन अब जेसी-350188पी), 7 फरवरी 2006

हवलदार क्लर्क (जीडी) महेंद्र सिंह (सं. 1574339 एफ अब जेसी-350189एक्स), 10 फरवरी 2006

हवलदार क्लर्क (जीडी) राजेंद्र कुमार (सं. 1574341वाई अब जेसी-350190एम), 20 जनवरी 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क (जीडी) शिव कुमार राम (सं. 1574344एम अब जेसी-350199एफ), 10 फरवरी 2006

हवलदार क्लर्क (जीडी) सुरेंद्र सिंह (सं. 1574356एफ अब जेसी-350200एल), 01 फरवरी 2006

हवलदार क्लर्क (जीडी) विजय पाल सिंह (सं. 1574357के अब जेसी-350201एन), 08 फरवरी 2006

हवलदार क्लर्क (जीडी) रमेश सिंह तरयाल (सं. 1567471वाई अब जेसी-350202डब्ल्यू), 7 फरवरी 2006

हवलदार क्लर्क (जीडी) घन श्याम सिंह (सं. 1571506एफ अब जेसी-350203वाई), 23 फरवरी 2006

हवलदार क्लर्क (जीडी) हरदेव सिंह (सं. 1573979वाई अब जेसी-350204एफ), 01 फरवरी 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी।)

हवलदार क्लर्क (जीडी) तिलक धारी (सं. 1573986पी अब जेसी-350219डब्ल्यू), 01 मार्च 2006

हवलदार क्लर्क (जीडी) गुलजार राम (सं. 1574810डब्ल्यू अब जेसी-350220वाई), 01 मार्च 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार (जीडी) संत कुमार (सं. 1555228पी अब जेसी-350185एफ), 08 फरवरी 2006

हवलदार (जीडी) महेन्द्र सिंह (सं. 1558655डब्ल्यू अब जेसी-350186के), 14 फरवरी 2006

हवलदार (जीडी) अजित सिंह (सं. 1567904एल अब जेसी-350187एम), 17 जनवरी 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी।)

हवलदार (जीडी) दत्ता राम (सं. 1558712एम अब जेसी-350191पी), 16 जनवरी 2006

हवलदार (जीडी) पावसकर प्रभाकर कृष्णा (सं. 1567113एन अब जेसी-350192एक्स), 01 फरवरी 2006

हवलदार (जीडी) महावीर सिंह (सं. 1558651ए अब जेसी-350193ए), 04 जनवरी 2006

हवलदार (जीडी) जसपाल सिंह (सं. 1559988पी अब जेसी-350194एच), 19 जनवरी 2006

हवलदार (जीडी) हरमेश सिंह (सं. 1567146वाई अब जेसी-350195एल), 14 जनवरी 2006

हवलदार (जीडी) संत सिंह (सं. 1567186ए अब जेसी-350196एन), 17 जनवरी 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी।)

हवलदार (जीडी) शिम्भुजी (सं. 1567973एफ अब जेसी-350205के), 04 फरवरी 2006

हवलदार (जीडी) राम आसरे (सं. 1568413एफ अब जेसी-350206एम), 02 फरवरी 2006

हवलदार (जीडी) जोगा सिंह (सं. 1568578ए अब जेसी-350207पी), 10 फरवरी 2006

हवलदार (जीडी) गौरी शंकर (सं. 1568607के अब जेसी-350208एक्स), 17 फरवरी 2006

हवलदार (जीडी) नागरगोजे सर्जेराव त्रिंबकराव (सं. 1558845एच अब जेसी-350209ए), 04 फरवरी 2006

हवलदार (जीडी) गजानन मारुती असवर (सं. 1568978एम अब जेसी-350210पी), 06 फरवरी 2006

हवलदार (जीडी) मामरात सिंह (सं. 1569041एन अब जेसी-350211एक्स), 06 फरवरी 2006

हवलदार (जीडी) खुरसाद खान (सं. 1569172वाई अब जेसी-350212ए), 16 फरवरी 2006

हवलदार (जीडी) तरसेम सिंह (सं. 1569706वाई अब जेसी-350213एच), 03 फरवरी 2006

हवलदार (जीडी) त्रिलोक सिंह (सं. 1569877एल अब जेसी-350214एल), 07 फरवरी 2006

हवलदार (जीडी) धन सिंह सपराल (सं. 1570443एक्स अब जेसी-350215एन), 01 फरवरी 2006

हवलदार (जीडी) सचित्ता नंद (सं. 1572263एन अब जेसी-350216डब्ल्यू), 04 फरवरी 2006

हवलदार (जीडी) सालुखे विलास सुखादेव (सं. 1575422एल अब जेसी-350217वाई), 14 फरवरी 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी।)

हवलदार (जीडी) नज़ीर मोहम्मद (सं. 1559614वाई अब जेसी-350221एफ), 01 मार्च 2006

हवलदार (जीडी) पाटील दिनकर रामा (सं. 1559776के अब जेसी-350222के), 01 मार्च 2006

हवलदार (जीडी) आलम शाह अनसारी (सं. 1559900ए अब जेसी-350223एम), 01 मार्च 2006

हवलदार (जीडी) शिंदे अनिल कुमार महादेव (सं. 1581441एम अब जेसी-350224पी), 01 मार्च 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क जीडी) रवींद्र सिंह तलान (सं. 1574377एक्स अब जेसी-350246एन), 01 मार्च 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार (जीडी) सालुखे अशोक पांडुरंग (सं. 1556793वाई अब जेसी-350247डब्ल्यू), 21 मार्च 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जायेगी।)

हवलदार (जी डी) बलकार सिंह (सं. 1558410ए अब जेसी-350248वाई), 01 अप्रैल 2006

हवलदार (जी डी) सुरज भान (सं. 1558591डब्ल्यू अब जेसी-350249एफ), 01 अप्रैल 2006

हवलदार (जी डी) होशियार सिंह (सं. 1558897वाई अब जेसी-350250डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2006

हवलदार (जी डी) तीर्थ सिंह (सं. 1559025एच अब जेसी-350251वाई), 01 अप्रैल 2006

हवलदार (जी डी) सुखदेव सिंह (सं. 1559298एल अब जेसी-350252एफ), 01 अप्रैल 2006

हवलदार (जी डी) सतार खान (सं. 1559366एन अब जेसी-350253के), 01 अप्रैल 2006

हवलदार (जी डी) पाचपुते सुधाकर माधव (सं. 1568495पी अब जेसी-350254एम), 01 अप्रैल 2006

हवलदार (जी डी) धपाधुले रामलिंग बाबुराव (सं. 1569306एम अब जेसी-350255पी), 13 अप्रैल 2006

हवलदार (जी डी) गोपाल सिंह जाट (सं. 1569623एन अब जेसी-350256एक्स), 01 अप्रैल 2006

हवलदार (जी डी) करमजीत सिंह (सं. 1569965एफ अब जेसी-350257ए), 10 अप्रैल 2006

हवलदार (जी डी) रमेश कुमार (सं. 1577301एच अब जेसी-350258एच), 01 अप्रैल 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जायेगी।)

मद्रास इंजीनियर ग्रुप

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार (जी डी) डी रामु (सं. 1380546ए अब जेसी-308424के), 10 मार्च 2006\$

हवलदार (जी डी) मनोहरन एन (सं. 1381466पी अब जेसी-308425एम), 01 मार्च 2006\$

हवलदार (जी डी) दिलीप कुमार (सं. 15301411डब्ल्यू अब जेसी-308426पी), 01 मार्च 2006\$

हवलदार (जी डी) परमेश्वरन के बी (सं. 1376429एक्स अब जेसी-308429एच), 03 मार्च 2006\$

हवलदार (जी डी) यू आर वी प्रसाद (सं. 1376493पी अब जेसी-308430एक्स), 01 मार्च 2006\$

हवलदार (जी डी) सेकर एन (सं. 1376744एन अब जेसी-308431ए), 01 मार्च 2006\$

हवलदार (जी डी) कृष्णनकुट्टी नायर एम (सं. 1377714एच अब जेसी-308432एच), 01 मार्च 2006\$

हवलदार (जी डी) एम रमन (सं. 1377865एफ अब जेसी-308433एल), 13 मार्च 2006\$

हवलदार (जी डी) रेथ्नाकरन के के (सं. 1378066एक्स अब जेसी-308434एन), 01 मार्च 2006\$

हवलदार (जी डी) कुट्टाप्यन पिल्लै एस (सं. 1378878एल अब जेसी-308435डब्ल्यू), 01 मार्च 2006\$

हवलदार (जी डी) डी गुलासेकरन (सं. 1379173एल अब जेसी-308436वाई), 13 मार्च 2006\$

हवलदार (जी डी) जेम्स डी (सं. 1381838पी अब जेसी-308438के), 06 मार्च 2006\$

हवलदार (जी डी) रेजिमोन के वी (सं. 15302794ए अब जेसी-308440एफ), 01 मार्च 2006\$

हवलदार (जी डी) बाबु वी वी (सं. 1375786एन अब जेसी-308441के), 01 मार्च 2006\$

हवलदार (जी डी) आर सेकर (सं. 1376105एच अब जेसी-308461एक्स), 01 अप्रैल 2006@

हवलदार (जी डी) वेनु गोपन वी (सं. 1376570वाई अब जेसी-308462ए), 01 अप्रैल 2006@

हवलदार (जी डी) पी मारगिमई दस (सं. 1380015एच अब जेसी-308465एन), 01 अप्रैल 2006@

हवलदार (जी डी) रमेश कुमार (सं. 1381543वाई अब जेसी-308466डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2006@

हवलदार (जी डी) एस थोमास एडिसन (सं. 1383988के अब जेसी-308469के), 01 अप्रैल 2006@



हवलदार (जीडी) पीएलुमालाई (सं. 1380406एन अब जेसी-308473एम), 03 अप्रैल 2006@

हवलदार (जीडी) आर थगाराज (सं. 1377354एच अब जेसी-308474पी), 01 अप्रैल 2006@

हवलदार (जीडी) एन पांडारिनाथन (सं. 1376554एच अब जेसी-308475एक्स), 01 अप्रैल 2006@

हवलदार (जीडी) के कुमार (सं. 1372640पी अब जेसी-308476ए), 01 अप्रैल 2006@

\$ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जायेगी।)

@ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार (जीडी) योगेशन सी के (सं. 1382427एच अब जेसी-308323डब्ल्यू), 07 नवम्बर 2005@

हवलदार (जीडी) चद्रसेकरन सी (सं. 15301997एक्स अब जेसी-308410के), 01 फरवरी 2006#

हवलदार (जीडी) राजन एम के (सं. 1376807एल अब जेसी-308414ए), 01 फरवरी 2006#

हवलदार (जीडी) एम मुनिराज (सं. 1380961पी अब जेसी-308437एफ), 07 अप्रैल 2006\$

हवलदार (जीडी) एस रथिनम (सं. 1375699ए अब जेसी-308460पी), 01 अप्रैल 2006%

हवलदार (जीडी) गुरुसिदाप्पा (सं. 1378374एक्स अब जेसी-308463एच), 01 मई 2006%

हवलदार (जीडी) के जगदेशन (सं. 1378708एफ अब जेसी-308464एल), 01 अप्रैल 2006%

हवलदार (जीडी) एम सम्वासिव रेड्डी (सं. 1381816डब्ल्यू अब जेसी-308467वाई), 01 अप्रैल 2006%

हवलदार (जीडी) पद्य कुमार सी (सं. 1382018पी अब जेसी-308468एफ), 01 अप्रैल 2006%

हवलदार (जीडी) बसंथ डी (सं. 15302430एन अब जेसी-308470वाई), 01 अप्रैल 2006%

हवलदार (जीडी) सी राजा सेकर (सं. 1371914एच अब जेसी-308471एफ), 01 अप्रैल 2006%

हवलदार (जीडी) प्रसन्ना कुमारन आर (सं. 1376250के अब जेसी-308472के), 01 अप्रैल 2006%

हवलदार (जीडी) एम राजेन्द्रन (सं. 1376110एक्स अब जेसी-308477एच), 17 अप्रैल 2006%

हवलदार (जीडी) माल्लाप्या गोलायि (सं. 1375101के अब जेसी-308478एल), 08 अप्रैल 2006%

हवलदार (जीडी) बालाकृष्णा आर (सं. 1376901पी अब जेसी-308479एन), 05 अप्रैल 2006%

हवलदार (जीडी) पी नागेंद्रा राव (सं. 1376384एच अब जेसी-308480एच), 07 अप्रैल 2006%

हवलदार (जीडी) एम इलुमालाई (सं. 1378710वाई अब जेसी-308481एल), 05 अप्रैल 2006%

हवलदार (जीडी) बाबु जी (सं. 1375997डब्ल्यू अब जेसी-308491पी), 08 मई 2006

हवलदार (जीडी) गोपालाकृष्णान नायर सी (सं. 1377744ए अब जेसी-308492एक्स), 01 मई 2006&

हवलदार (जीडी) पी कृष्णान (सं. 1380274एल अब जेसी-308493ए), 02 मई 2006&

हवलदार (जीडी) ए ए कांदासामी एस के वी (सं. 1374467पी अब जेसी-308494एच), 01 मई 2006&

हवलदार (जीडी) स्पीशन के (सं. 1380457एफ अब जेसी-308497डब्ल्यू), 01 मई 2006&

हवलदार (जीडी) एम बी शरनाप्पा (सं. 1375928ए अब जेसी-308498वाई), 01 मई 2006&

हवलदार (जीडी) राधाकृष्णान ए पी (सं. 1376982ए अब जेसी-308499एफ), 03 मई 2006&

हवलदार (जीडी) बी राजेन्द्रन (सं. 1378528वाई अब जेसी-308500एल), 01 मई 2006&

हवलदार (जीडी) पालानियाप्पान (सं. 1373946के अब जेसी-308501एन), 01 मई 2006&

हवलदार (जीडी) जॉसन वी (सं. 15318991एम अब जेसी-308508एक्स), 27 अप्रैल 2006\*

@(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी।)

#(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी।)

\$(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जायेगी।)

%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जायेगी।)

&(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जायेगी।)

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 मार्च 2006 से दी जायेगी।)

## बंगाल इन्जीनियर ग्रुप

## नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार ईन्दिरा सिंह ऐथानी (सं. 1472710एक्स अब जेसी-329833एल), 02 जनवरी 2006\*

हवलदार गुरदेव सिंह (सं. 1472478एक्स अब जेसी-329834एन), 20 फरवरी 2006#

हवलदार हरभजन सिंह (सं. 1473963वाई अब जेसी-329835डब्ल्यू), 21 फरवरी 2006#

हवलदार शैलेन्द्र सिंह (सं. 1473975एन अब जेसी-329836वाई), 22 फरवरी 2006#

हवलदार औली ऊददीन भरभुयिया (सं. 1474081के अब जेसी-329837एफ), 01 मार्च 2006%

हवलदार जय प्रकाश (सं. 1474089डब्ल्यू अब जेसी-329838के), 01 मार्च 2006%

हवलदार अजित सिंह (सं. 1474072एच अब जेसी-329839एम), 01 मार्च 2006%

हवलदार चरनजीत सिंह (सं. 1474171एल अब जेसी-329840एफ), 01 मार्च 2006%

हवलदार शकटार सिंह (सं. 1474049पी अब जेसी-329841के), 01 मार्च 2006%

हवलदार गुलजिन्द सिंह (सं. 1474076वाई अब जेसी-329842एम), 01 मार्च 2006%

हवलदार लवकेश सिंह (सं. 1474136एच अब जेसी-329843पी), 01 मार्च 2006%

हवलदार मदन सिंह (सं. 1474112वाई अब जेसी-329844एक्स), 01 मार्च 2006%

हवलदार सतनाम सिंह (सं. 1466873पी अब जेसी-329845ए), 01 मार्च 2006%

हवलदार सतेश्वर सिंह (सं. 1474177एम अब जेसी-329846एच), 18 मार्च 2006%

## नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार बासुदेव साहु (सं. 1471435डब्ल्यू अब जेसी-329847एल), 20 फरवरी 2006#

हवलदार श्याम लाल डोगरा (सं. 1470992एच अब जेसी-329848एन), 28 फरवरी 2006#

हवलदार दीना नाथ घोष (सं. 1471764एम अब जेसी-329849डब्ल्यू), 01 मार्च 2006%

हवलदार प्रेम पाल सिंह पाल (सं. 1471911के अब जेसी-329850एल), 01 मार्च 2006%

हवलदार बिनोद प्रसाद (सं. 1472228डब्ल्यू अब जेसी-329851एन), 14 मार्च 2006%

हवलदार सुरेश चन्द शिकरवर (सं. 1470173वाई अब जेसी-329852डब्ल्यू), 14 मार्च 2006%

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी।)

#(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी।)

%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जायेगी।)

## नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार समपूर्ण चन्द (सं. 1468905एल अब जेसी-329853वाई), 28 फरवरी 2005%

हवलदार छबी बिस्वाश (सं. 1473892एच अब जेसी-329854एफ), 17 मार्च 2006#

हवलदार करम सिंह (सं. 1474174वाई अब जेसी-329855के), 01 मार्च 2006@

हवलदार गज्जन सिंह (सं. 1474283एल अब जेसी-329856एम), 01 अप्रैल 2006\*

हवलदार जोगिन्द्र सिंह (सं. 1474284एन अब जेसी-329857पी), 01 अप्रैल 2006\*

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 1474289एम अब जेसी-329858एक्स), 01 अप्रैल 2006\*

हवलदार नायब सिंह (सं. 1474310के अब जेसी-329859ए), 01 अप्रैल 2006\*

हवलदार जसवीर सिंह (सं. 1474337एफ अब जेसी-329860पी), 01 अप्रैल 2006\*

हवलदार शरदूल सिंह (सं. 1474408एक्स अब जेसी-329861एक्स), 01 अप्रैल 2006\*

हवलदार मदन सिंह (सं. 1474527एन अब जेसी-329862ए), 01 अप्रैल 2006\*

हवलदार जसमेल सिंह (सं. 1474532वाई अब जेसी-329863एच), 01 अप्रैल 2006\*

हवलदार राज बलविन्द्र सिंह (सं. 1474651पी अब जेसी-329864एल), 01 अप्रैल 2006\*

हवलदार अरविन्द कुमार (सं. 1474654एफ अब जेसी-329865एन), 01 अप्रैल 2006\*

हवलदार लोहीत बोरा (सं. 1474680के अब जेसी-329866डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2006\*

हवलदार लखविन्द्र सिंह (सं. 1474756वाई अब जेसी-329867वाई),  
01 अप्रैल 2006\*

हवलदार रविन्द्र सिंह (सं. 1474813पी अब जेसी-329868एफ),  
01 अप्रैल 2006\*

हवलदार राधेश्याम सिंह (सं. 1466148एच अब जेसी-329869के),  
01 अप्रैल 2006\*

हवलदार सुखविन्द्र सिंह (सं. 3383368ए अब जेसी-329870वाई),  
02 अप्रैल 2006\*

हवलदार कुलवन्त सिंह (सं. 1468943एफ अब जेसी-329871एफ),  
01 मई 2006\$

हवलदार जसपाल सिंह (सं. 1470029के अब जेसी-329872के),  
01 मई 2006\$

हवलदार बिनोद सिंह (सं. 1469981के अब जेसी-329873एम),  
01 मई 2006\$

नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में

हवलदार मदन लाल बगोरिया (सं. 1470570एक्स अब  
जेसी-329874पी), 01 अप्रैल 2006\*

हवलदार एलिजर ओरिया (सं. 1471394एक्स अब  
जेसी-329875एक्स), 01 अप्रैल 2006\*

हवलदार बिश्वनाथ शाह (सं. 1471762एफ अब जेसी-329876ए),  
01 अप्रैल 2006\*

हवलदार कृष्णा कान्त मिश्रा (सं. 1471862एम अब जेसी-329877एच),  
01 अप्रैल 2006\*

हवलदार कौशल कुमार सिंह (सं. 1471960एम अब  
जेसी-329878एल), 01 अप्रैल 2006\*

हवलदार विरेन्द्र सिंह (सं. 1472323एच अब जेसी-329879एन),  
01 मई 2006\$

हवलदार दिनेश कुमार (सं. 1472318ए अब जेसी-329880एच),  
01 मई 2006\$

हवलदार रघु राज सिंह (सं. 1472319एच अब जेसी-329881एल),  
01 मई 2006\$

हवलदार श्याम लाल (सं. 1472321एक्स अब जेसी-329882एन),  
01 मई 2006\$

%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 19 फरवरी 2005 से दी जायेगी।)

#(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी।)

@(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जायेगी।)

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जायेगी।)

\$(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जायेगी।)

रोजी शर्मा  
उप सचिव

-----

सं. 433, दिनांक 2 अगस्त 2006-- राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां  
करते हैं:--

नियमित सेना

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

स्थायी सूबेदार मेजर (जी डी) के रैंक में

सूबेदार महेन्द्र सिंह (जेसी-188637वाई), 01 फरवरी 2006

सूबेदार ध्यान सिंह रावत (जेसी-157764एम), 01 मार्च 2006

सूबेदार छेरिंग अंगचोक एस एम (जेसी-175141एल), 01 अप्रैल 2006

स्थायी सूबेदार (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार राम सिंह (जेसी-840845एच), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार सतीष कुमार मल्ल (जेसी-629254एक्स), 01 फरवरी  
2006

नायब सूबेदार सुबाष डडवाल (जेसी-412061एक्स), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार ओंकार सिंह मन्हास (जेसी-578116एल), 01 फरवरी  
2006

नायब सूबेदार सिवाकुमारन नायर वी (जेसी-438080ए), 01 मार्च  
2006

नायब सूबेदार महेन्द्र पाल सिंह (जेसी-468208पी), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार जगतम्बा परशाद शर्मा (जेसी-518549वाई), 01 मार्च  
2006

नायब सूबेदार गिरन्द सिंह (जेसी-840867एफ), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार रामजी पान्डेय (जेसी-840879डब्ल्यू), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार परशोत्तम चन्द (जेसी-184141एम), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार रसाल सिंह (जेसी-840885के), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार उदेय सिंह (जेसी-840892ए), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार राम लखन पासवान (जेसी-840883वाई), 01 अप्रैल  
2006

नायब सूबेदार अवदेश कुमार (जेसी-141689वाई), 01 मई 2006

हवलदार दामोदर बेहेरा (सं. 10259151एक्स अब जेसी-841899डब्ल्यू), 06 फरवरी 2006\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी।)

हवलदार अमर नाथ (सं. 10180994के अब जेसी-841950एल), 28 मार्च 2006\*\*

\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी।)

हवलदार मोहबत सिंह राजपूत (सं. 2870500एच अब जेसी-841971एफ), 20 अप्रैल 2006\*\*\*

हवलदार ब्रह्मदेव झा (सं. 4249617एच अब जेसी-841978एल), 12 अप्रैल 2006\*\*\*

हवलदार भदोरिया सुरेन्द्र सिंह (सं. 8021562एच अब जेसी-841980एच), 12 अप्रैल 2006\*\*\*

हवलदार शेवराव गवाली (सं. 1250066एम अब जेसी-841982एन), 10 अप्रैल 2006\*\*\*

हवलदार जैकरन (सं. 13932609एफ अब जेसी-841983एन), 10 अप्रैल 2006\*\*\*

हवलदार जगदीश चन्दर (सं. 2865000एफ अब जेसी-841986के), 18 अप्रैल 2006\*\*\*

हवलदार राम खिलारी (सं. 2964990ए अब जेसी-841987एम), 25 अप्रैल 2006\*\*\*

हवलदार करम सिंह (सं. 3967757एन अब जेसी-841988पी), 07 अप्रैल 2006\*\*\*

हवलदार हरि सिंह (सं. 2867674एक्स अब जेसी-841991पी), 07 अप्रैल 2006\*\*\*

हवलदार चमन लाल (सं. 10196317डब्ल्यू अब जेसी-841993ए), 11 अप्रैल 2006\*\*\*

हवलदार जगरूप सिंह (सं. 2867335एक्स अब जेसी-841996एन), 10 अप्रैल 2006\*\*\*

हवलदार बत्तन सिंह (सं. 2663376ए अब जेसी-841999एफ), 16 अप्रैल 2006\*\*\*

\*\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी।)

हवलदार करुणाकरन एम (सं. 10290144एच अब जेसी-842013ए), 24 अप्रैल 2006\*\*\*\*

हवलदार बालाकृष्णन पी टी (सं. 10289924एफ अब जेसी-842014एच), 12 अप्रैल 2006\*\*\*\*

हवलदार लछमन दत्त (सं. 10133643के अब जेसी-842024एम), 06 अप्रैल 2006\*\*\*\*

\*\*\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जायेगी।)

हवलदार प्रेम चन्द (सं. 2465080डब्ल्यू अब जेसी-842038एम), 05 अप्रैल 2006\*\*\*\*\*

हवलदार हरपाल सिंह (सं. 2970481एक्स अब जेसी-842039पी), 05 अप्रैल 2006\*\*\*\*\*

हवलदार राजेश्वर सिंह चौहान (सं. 10133761एक्स अब जेसी-842040के), 03 अप्रैल 2006\*\*\*\*\*

हवलदार के वासुदेवन (सं. 10289528एल अब जेसी-842042पी), 13 अप्रैल 2006\*\*\*\*\*

हवलदार प्रसान्त कुमार बारिक (सं. 10259373एम अब जेसी-842043एक्स), 05 अप्रैल 2006\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जायेगी।)

हवलदार (लिपिक) गणेशन जी (सं. 10451643एल अब जेसी-842001एल), 20 मार्च 2006\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* (नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी।)

हवलदार (लिपिक) अजित सिंह (सं. 10361075के अब जेसी-842003डब्ल्यू), 24 मार्च 2006\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* (नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जायेगी।)

हवलदार (लिपिक) सत्यानारायण राव बोद्धापति (सं. 6649012एफ अब जेसी-842028एच), 01 अप्रैल 2006\*\*\*\*\*

हवलदार (लिपिक) हाकिम सिंह (सं. 3168820एच अब जेसी-842029एल), 20 अप्रैल 2006\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* (नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जायेगी।)

टी. के. एम. पिल्लै  
अवर सचिव

सं. 434, दिनांक 4 अगस्त 2006-- राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं:--

नियमित सेना

स्थाई कमीशन

(सेना चिकित्सा कोर)

ब्रिगेडियर (व समकक्ष) से मेजर जनरल (व समकक्ष) रैंक में

पी मधुसूदनन (एम आर-02848एल), 24 नवम्बर 2005  
वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले वरीयता 29 सितम्बर 2005 से दी जाती है।

सुरेश चन्द्रा (एम आर-03488एम), 27 मार्च 2006

वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले वरीयता 02 जनवरी 2006 से दी जाती है।

ग्रुप कैप्टन (व समकक्ष) से ब्रिगेडियर (व समकक्ष) रैंक में

विपन चन्द्र (एम आर-03609एच), 31 जनवरी 2006

वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 29 जून 2004 से दी जाती है।

(सेना चिकित्सा सेवा) (गैर तकनीकी)

ले. कर्नल के पद पर

मिमीला जनार्दन नायडू मेजर (एन टी आर-16564एम), 16 दिसम्बर 2004

रती पाल सिंह चण्होण मेजर (एन टी आर-16620ए), 16 दिसम्बर 2004

निरंजन लाल मेजर (एन टी आर-16566एक्स), 16 दिसम्बर 2004

बिष्णु गन्दे मेजर (एन टी आर-16592वाई), 16 दिसम्बर 2004

तारा दत्त भट्ट मेजर (एन टी आर-16616एक्स), 16 दिसम्बर 2004

यशुदर सुगुमार पी मेजर (एन टी आर-16636एल), 20 जनवरी 2004

(सेना चिकित्सा सेवा)

मेजर के पद पर

राजू जोस कप्तान (एन टी आर-16646पी), 16 दिसम्बर 2004

(सेना चिकित्सा सेवा) (गैर तकनीकी)

मेजर के पद पर

राघवेंद्रा मिश्रा कप्तान (एन टी आर-16633एक्स), 16 दिसम्बर 2004

(सेना चिकित्सा सेवा)

कप्तान के पद पर

दिवान सिंह कप्तान (एन टी आर-16676डब्ल्यू), 16 दिसम्बर 2004

एन महाबीर सिंह कप्तान (एन टी आर-16678एक्स), 16 दिसम्बर 2004

दिवान सिंह कप्तान (एन टी आर-16707एफ), 16 दिसम्बर 2004

चन्द्र भान कप्तान (एन टी आर-16708के), 16 दिसम्बर 2004

राजेश कामरान

ब्रिगेडियर

उप डी जी ए एफ एम एस (प्रशा.)

सं. 435, दिनांक 07 अगस्त 2006--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी आयोग

ले. कर्नल से कर्नल के मूल रैंक में (समयमान द्वारा)

आईसी सं., नाम, आर्म और सन्सटैंटिव तिथि

27738 पी के गुप्ता इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004

34736 रफत अख्तर इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004

34870 आर एम मंगाराज आर्टी, 16 दिसम्बर 2004

35265 अजीत सक्सेना आर्टी, 16 दिसम्बर 2004

36219 हरजीत सिंह आर्टी, 16 दिसम्बर 2004

36258 वी के कौल इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004

37071 भगवान सिंह सिगनल्स, 16 दिसम्बर 2004

37376 भारत प्रकाश इन्फैन्ट्री, 01 मई 2005

37519 टी पी एस कन्दरा आर्टी, 15 नवम्बर 2005

37528 आर के एस कनवार आर्टी, 17 नवम्बर 2005

38563 आई एस बासनेट एओसी, 22 दिसम्बर 2005

38570 एस डी जोशी एएडी, 22 दिसम्बर 2005

39055 रूपेन्द्र सिंह इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004

एसएल 02595 तरलोचन दत्त एसएलआरओ, 23 जुलाई 2005

एस एल 02994 आर वी सिंह, ए पीटीसी 16 दिसम्बर 2004

अजय गोयल

उप निदेशक

एमएस-8ए

सेना सचिव शाखा

सं. 436, दिनांक 07 अगस्त 2006--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर जनरल के मूल रैंक में

नाम, आईसी, आर्म और मेजर जनरल के मूल रैंक की प्रभावी तिथि

ब्रिगे. आर. एस. मेहता एवीएसएम, वीएसएम (आईसी-28733), एसी, 03 मई 2004

ब्रिगे. के. एस. डोगरा एवीएसएम, वीएसएम (आईसी-28805), एएडी, 03 मई 2004

ब्रिगे. आर. के. सुडान (आईसी-28867), एएडी, 11 मई 2004

ब्रिगे. यू. एस. पी. सिन्हा (आईसी-27146), इंजीनियर्स, 21 नवम्बर 2004 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 11 मई 2004 से दी जायेगी।

ब्रिगे. दलजीत सिंह (आईसी-27158), इंजीनियर्स, 21 नवम्बर 04 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 11 मई 2004 से दी जाएगी।

ब्रिगे. वी. के. सिंह, वाईएसएम (आईसी-24173), राजपूत, 29 जून 2004

ब्रिगे. पी. सी. भारद्वाज, वीआरसी, एससी, वीएसएम (आईसी-24178), पारा, 29 जून 2004

ब्रिगे. जे. एस. माहिल (आईसी-24186), एएडी, 29 जून 2004

ब्रिगे. एम. एस. डडवाल, पीएसएम (आईसी-24194), इन्फैं. 01 जुलाई 2004

ब्रिगे. टी. पी. सिंह (आईसी-24196), ईएमई, 01 जुलाई 2004

ब्रिगे. सी. के. एस बाबू, वीएसएम (आईसी-24198), आर्टी, (जी.सी.) 01 जुलाई 2004

ब्रिगे. ए. एस. सेखॉन, वाईएसएम (आईसी-24208), सिख लाई, 01 जुलाई 2004

ब्रिगे. मेहता के. सी. (आईसी-24210), सिगनल्स, 16 मार्च 2005 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जुलाई 2004 से दी जाएगी।

ब्रिगे. पी. के. मेहता (आईसी-24211), एएससी, 01 जुलाई 2004

ब्रिगे. दीपक मल्होत्रा (आईसी-24215), आर्टी, 29 जुलाई 2004

ब्रिगे. ए. के. एस. चंदेल (आईसी-24219), ईएमई, 01 अगस्त 2004

ब्रिगे. पी एस राणा, वीएसएम (आईसी-24237), ग्रेन., 01 अगस्त 2004

ब्रिगे. ए. एन. औल, यूवाईएसएम (आईसी-24255), 3जीआर, 01 अगस्त 2004

ब्रिगे. वी. एस. नागल, एसएम (आईसी-24260), जाट, 01 अगस्त 2004

ब्रिगे. अमित सरदार (आईसी-24270), 68 एआर 01 अगस्त 2004

ब्रिगे. आर. के. लूम्बा (आईसी-24283), 9 हार्स., 03 अगस्त 2004

ब्रिगे. डी. पी. सिंह (आईसी-29202), जाट, 01 सितम्बर 2004

ब्रिगे. महिपाल सिंह, वीएसएम (आईसी-29336), आर्टी, 01 सितम्बर 2004

ब्रिगे. बलहारा एम.एस., केसी, एसएम (आईसी-24568), बिहार, 10 सितम्बर 2004

ब्रिगे. बेनिवाल ओ.पी., वीएसएम (आईसी-24579), सिगनल्स, 15 अप्रैल 2005 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10 सितम्बर 2004 से दी जाएगी।

ब्रिगे. खन्ना वी.एल (आईसी-24581), इंजीनियर्स, 10 जनवरी 2005 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10 सितम्बर 2004 से दी जाएगी।

ब्रिगे. बी. एस. जसवाल, वीएसएम (आईसी-24584), जैकरिफ, 10 सितम्बर 2004

ब्रिगे. लम्बा ए.एस., वीएसएम (आईसी-24588), सिगनल्स, 15 अप्रैल 2005 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10 सितम्बर 2004 से दी जाएगी।

ब्रिगे. नेगी वी. के. (आईसी-24591), इंजीनियर्स, 18 मार्च 2005 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10 सितम्बर 2004 से दी जाएगी।

ब्रिगे. डी. एस. बर्तवाल (आईसी-24604), जाट, 01 अक्टूबर 2004

ब्रिगे. अवधेश प्रकाश, वीएसएम (आईसी-24611), नागा, 01 अक्टूबर 2004

ब्रिगे. आर. के. करवाल, एसएम, वीएसएम (आईसी-24652), राजपूत, 01 अक्टूबर 2004

ब्रिगे. तेजिन्दर सिंह, वीएसएम (आईसी-24654), गार्डस, 01 अक्टूबर 2004

ब्रिगे. प्रदीप खन्ना (आईसी-24656), 20 एल, 11 अक्टूबर 2004

ब्रिगे. मानवलन जे.जे. (आईसी-24671), इंजीनियर्स, 12 सितम्बर 2005 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10 अक्टूबर 2004 से दी जाएगी।

ब्रिगे. राव के. आर. (आईसी-24706), आर्टी, 07 जनवरी 2005 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 11 अक्टूबर 2004 से दी जाएगी।

ब्रिगे. वी. एस. सिसोदिया, वीएसएम (आईसी-24716), एओसी, 01 दिसम्बर 2004

ब्रिगे. पी. के. गोयल (आईसी-24718), आर्टी, 01 दिसम्बर 2004

ब्रिगे. ए. के. मेहरा, वीएसएम (आईसी-24722), एडी आर्टी, 01 दिसम्बर 2004

ब्रिगे. शर्मा वी. के. (आईसी-24726), इंजि., 25 मई 2005 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 दिसम्बर 2004 से दी जाएगी।

ब्रिगे. शर्मा एस. सी., वीएसएम (आईसी-24745), जैक रिफ, 16 जनवरी 2005

ब्रिगे. खरबन्दा पी. सी. (आईसी-24749), आर्टी (जीसी), 11 मार्च 2005 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 16 जनवरी 2005 से दी जाएगी।

ब्रिगे. सिंह एसवीपी, वीएसएम (आईसी-24790), आर्टी, 20 अप्रैल 2005 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 16 जनवरी 2005 से दी जाएगी।

ब्रिगे. आर. के. गुप्ता (आईसी-24810), एएससी, 16 जनवरी 2005

ब्रिगे. बी शिवशंकर, पीएसएम (आईसी-24871), ग्रेन., 16 जनवरी 2005

ब्रिगे. वी.डी.आई. देवावाराम, एसएम, वीएसएम (आईसी-24926), मद्रास, 16 जनवरी 2005

ब्रिगे. शर्मा एस. के. (आईसी-27530), ईएमई, 01 फरवरी 2005

ब्रिगे. घई एम. एस. (आईसी-27539), इंजी., 25 मई 2005 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 फरवरी 2005 से दी जाएगी।

ब्रिगे. उपाध्याय के. के. (आईसी-27548), सिगनल्स, 01 अक्टूबर 2005 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 फरवरी 2005 से दी जाएगी।

ब्रिगे. एम. पी. सिंह (आईसी-27549), ईएमई, 03 फरवरी 2005

एन. के. फूकन  
एएमएस/एमएस (एक्स)

वायु सेना मुख्यालय

सं. 437, दिनांक 02 अगस्त 2006--राष्ट्रपति, सहर्ष श्री कञ्छीद सिंह डीईओ डी को सशस्त्र सेना मुख्यालय/अवर सेवा संगठनों ने दिनांक 17 मार्च 2006 से डीपीए ग्रेड बी (ग्रुप ख राजपत्रित) वेतनमान 6500 से 10500 के पद पर पदोन्नत करते हैं।

शंकर सिंह  
उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सं. 438, दिनांक 07 अगस्त 2006--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं:--

भारतीय वायु सेना

उड़ान शाखा

एयर वॉयस मार्शल के मूल रैंक में:--

आर सी बरूआ (13156), उ.पा., 01 मार्च 06/01 दिसम्बर 05 (केवल नो.से. के लिए)

(इनका नाम एयर वॉयस मार्शल डी एन गनेश (13243), उ.पा. के ऊपर आयेगा।)

बी. सी. नन्जपा (13246), उ.पा., 01 मार्च 2006

वी के यजूर्वेदी (13248), उ.पा., 01 मार्च 2006

के. बी. शंकर  
संयुक्त निदेशक कार्मिक (अधिकारी)-2(बी)

सं. 439, दिनांक 04 अगस्त 2006--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नति मूल रैंक में करते हैं:--

भारतीय वायु सेना

उड़ान (नेवीगेशन) शाखा

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट के मूल स्क्वाड्रन लीडर के रैंक में

एस तोमर (21599), 14 दिसम्बर 2001 से

संजीव श्रीवास्तव  
विंग कमाण्डर  
जेडीपीओ 3 (डी)

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 2nd September 2006

No. 425, dated 1st August 2006.—The President is pleased to appoint Shri R. C. Gupta, Formerly Under Secretary, borne on the strength of the Ministry of Defence, to the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS, in the same Ministry, purely on ad-hoc basis w.e.f. 29.06.2006 (FN) until further orders in terms of DOP&T Order No. 4/2/2006-CS.I dated the 29th June, 2006.

2. The appointment of the above officer as Deputy Secretary (ad-hoc) in the Ministry of Defence, is subject to following condition:—

- (i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS.

The President is pleased to appoint Shri Jose Thomas, Under Secretary, borne on the strength of the Ministry of Food Processing Industries, to the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS, in the Ministry of Defence, purely on ad-hoc basis w.e.f. 11.07.2006 (FN) until further orders in terms of DOP&T Order No. 4/2/2006-CS.I dated the 29th June, 2006.

2. The appointment of the above officer as Deputy Secretary (ad-hoc) in the Ministry of Defence is subject to following condition:—

- (i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS.
- (ii) Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

The President is pleased to appoint Shri I. Srinagesh, Assistant Commissioner (CT), Office of the Commissioner of Commercial Taxes, Government of Andhra Pradesh, Hyderabad as OSD to Raksha Rajay Mantri (Shri M. M. Pallam Raju) in the pay scale of Rs. 10,000—15,200/- w.e.f. 31st May, 2006 (FN) till the Minister demits office or until further orders, whichever is earlier.

The President is pleased to appoint Shri Raj Kumar Gathwal, Under Secretary, borne on the strength of the Ministry of Health & Family Welfare to the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS, in the Ministry of Defence, purely on ad-hoc basis w.e.f. 06.07.2006 (FN) until further orders in terms of DOP&T Order No. 4/2/2006-CS.I dated the 29th June, 2006.

2. The appointment of the above officer as Deputy Secretary (ad-hoc) in the Ministry of Defence is subject to following condition:—

- (i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in

the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS.

- (ii) Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

3. This supersedes this Ministry Notification of even number dated 13.07.2006.

The President is pleased to appoint Shri Yashvir Dutt Mehta, Under Secretary, borne on the strength of the Department of Secondary & Higher Education, to the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS, in the Ministry of Defence, purely on ad-hoc basis w.e.f. 12.07.2006 (AN) until further orders in terms of DOP&T Order No. 4/2/2006-CS.I dated the 29th June, 2006.

2. The appointment of the above officer as Deputy Secretary (ad-hoc) in the Ministry of Defence is subject to following condition:—

- (i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS.
- (ii) Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

The President is pleased to appoint Shri S. Naganathan, Section Officer borne on the CSS Cadre of the Ministry of Defence as Desk Officer in the same Ministry w.e.f. the forenoon of 7th July, 2006 until further orders.

The President is pleased to appoint Smt. Meena Pillai, a regular Assistant borne on the CSS Cadre of Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation (presently on deputation as Desk Officer in the Ministry of Statistics & Programme Implementation), as Section Officer on regular basis in the Ministry of Defence in the scale of Pay of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. 14.07.2006 (FN) until further orders consequent on inclusion of her name in the Select List of Section Officers' Grade (Seniority Quota) for the year 2003 vide DOP&T O. M. No. 5/25/2004-CS.I dated 5th June, 2006.

The President is pleased to appoint Shri A. K. Sood, a regular Assistant (working as Section Officer on ad-hoc basis) borne on the CSS Cadre of Ministry of Human Resources Development (Department of Secondary & Higher Education), as Section Officer on regular basis in the Ministry of Defence in the scale of Pay of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. 18.07.2006 (FN) until further orders consequent on inclusion of his name in the Select List of Section Officers' Grade (Seniority Quota) for the year 2003.

The President is pleased to appoint Shri Brij Bihari Lal, Assistant borne on the CSS Cadre of Department of Telecommunications, as Section Officer on regular basis in the Ministry of Defence in the scale of Pay of Rs. 6,500-



200-10,500/- w.e.f. 29.06.2006 (AN) until further orders consequent on inclusion of his name in the Select List of Section Officers' Grade (Examination Quota) for the year 2004.

2. This supersedes this Ministry's notification of even number dated 03 July, 2006.

The President is pleased to appoint Smt. Jyotsna Gupta, a regular Assistant borne on the CSS Cadre of Ministry of Defence (presently working as Section Officer on ad-hoc basis), as Section Officer on regular basis in the same Ministry in the scale of Pay of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. 17.07.2006 (FN) until further orders consequent on inclusion of her name in the Select List of Section Officers' Grade (Examination Quota) for the year 2002.

The President is pleased to appoint Smt. Parvathy Chandran, Personal Assistant borne on the CSSS Cadre of Ministry of Road Transport & Highways, as Section Officer on regular basis in the Ministry of Defence in the scale of Pay of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. 30.06.2006 (FN) until further orders consequent on inclusion of her name in the Select List of Section Officers' Grade (Examination Quota) for the year 2004.

The President is pleased to appoint Shri Brijesh Kumar Sharma, Steno Grade 'C' borne on the CSS Cadre of Ministry of Information & Broadcasting, as Section Officer on ad-hoc basis, on regular basis in the Ministry of Defence in the scale of Pay of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. 03.07.2006 (FN) until further orders consequent on inclusion of his name in the Select List of Section Officers' Grade (Examination Quota) for the year 2004.

V. SARASWATHY  
Dy. Secy.

(ARMY BRANCH)

No. 426, dated 7th August 2006.—The President is pleased to make the following appointments for a period of 5 years under AI 75/78 as amended:—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

To be Capt (On Probation)

- Capt Ganpat Singh (MS-14977X), AMC—12 Apr 2005  
 Capt Yegade Walmik Shrihari (MS-14995A), AMC—12 Apr 2005  
 Capt Rajeev Kumar Bhagat (MS-15034L), AMC—12 Apr 2005  
 Capt Ramandeep Sekhon (MS-15035N), AMC—12 Apr 2005  
 Capt Balwinder Singh (MS-15038F), AMC—12 Apr 2005  
 Capt Ravinder Kumar (MS-15039K), AMC—12 Apr 2005

- Capt Kirti Bhushan (MS-15040K), AMC—12 Apr 2005  
 Capt Adarsh Sharma (MS-15041F), AMC—12 Apr 2005  
 Capt Roshan Kumar B (MS-15042K), AMC—12 Apr 2005  
 Capt (Miss) Seema Rathore (MS-14467W), AMC—14 Feb 2003  
 Capt Basudeb Mandal (MS-14604K), AMC—04 Apr 2003  
 Capt Ratan Kumar Misra (MS-14610X), AMC—18 Feb 2003  
 Capt Baljinder Kumar (MS-14784X), AMC—17 Feb 2004  
 Capt Devesh Kumar (MS-14813F), AMC—17 Feb 2004  
 Capt Baljit Singh Jhaji (MS-15028X), AMC—12 Apr 2005  
 Capt Rajeev Kumar (MS-15001A), AMC—12 Apr 2005  
 Capt Shridhara T R (MS-15002H), AMC—12 Apr 2005  
 Capt Palwinder Singh (MS-15004N), AMC—12 Apr 2005  
 Capt Raghuvinder Kumar (MS-15066N), AMC—17 May 2005  
 Capt Sanjay Kumar Jha (MS-15067W), AMC—17 May 2005  
 Capt Navdeep Singh (MS-15068Y), AMC—17 May 2005  
 Capt Harneet Kaur Dhindsa (MS-15069F), AMC—17 May 2005  
 Capt Ravi Kapoor (MS-15070W), AMC—17 May 2005  
 Capt More Vijay Kumar Krishna (MS-15071Y), AMC—17 May 2005  
 Capt Mariam Mathew (MS-15072F), AMC—17 May 2005  
 Capt Dhananjay Sudhakar Borse (MS-15073K), AMC—17 May 2005  
 Capt Udhaya Kumar R (MS-15075P), AMC—17 May 2005  
 Capt Patil Pradeep Maruti (MS-15076X), AMC—17 May 2005  
 Capt Kaushik Vishal Devendra Prasad (MS-15078H), AMC—17 May 2005  
 Capt Sandeep Shankar Bhandare (MS-15079L), AMC—17 May 2005  
 Capt Nachiket M Palaskar (MS-15080A), AMC—17 May 2005  
 Capt Vandana Makkar (MS-15086F), AMC—09 Aug 2005

- Capt Omkar Singh (MS-14993P), AMC—12 Apr 2005
- Capt Sandeep Gupta (MS-15029A), AMC—12 Apr 2005
- Capt Sumit Bhasker (MS-15030P), AMC—12 Apr 2005
- Capt Sandip Singh (MS-15033H), AMC—12 Apr 2005
- Capt Kanwaljeet Singh (MS-15036W), AMC—12 Apr 2005
- Capt Jagmeet Singh Arora (MS-15037Y), AMC—12 Apr 2005
- Capt Saurabh Moond (MS-15044P), AMC—12 Apr 2005
- Capt Rajesh Kumar (MS-15045X), AMC—12 Apr 2005
- Capt Jadhav Trimbak Bhimrao (MS-15046A), AMC—12 Apr 2005
- Capt Archana Gupta (MS-15047H), AMC—12 Apr 2005
- Capt Kapil Rampal (MS-15059X), AMC—19 Apr 2005
- Capt Satinder Pal Singh (MS-15060M), AMC—19 Apr 2005
- Capt Wankhede Tanaji Sitaram (MS-15061P), AMC—19 Apr 2005
- Capt Harish Chandra Joshi (MS-15062X), AMC—19 Apr 2005
- Capt Mintu Mani Baruah (MS-15064H), AMC—17 May 2005
- Capt G Vasanth Kumar (MS-15065L), AMC—17 May 2005
- Capt Vivek Kumar (MS-15074M), AMC—17 May 2005
- Capt Amit Arora (MS-15102N), AMC—12 Apr 2005
- Capt Sanjay Kumar Saini (MS-14949L), AMC—12 Apr 2005
- Capt Anil Kumar Gupta (MS-14950A), AMC—12 Apr 2005
- Capt Sidharth Jain (MS-14952L), AMC—12 Apr 2005
- Capt Nitin Dutt Bhardwaj (MS-14953N), AMC—12 Apr 2005
- Capt Anil Goyal (MS-14957K), AMC—12 Apr 2005
- Capt Neeraj Sharma (MS-14969Y), AMC—12 Apr 2005
- Capt Sunil Kumar Jhahharia (MS-14970Y), AMC—12 Apr 2005
- Capt Harpreet Singh (MS-14971W), AMC—12 Apr 2005
- Capt Sandeep Kumar Kaushal (MS-14972Y), AMC—12 Apr 2005
- Capt Pradeep Kumar Gupta (MS-14973F), AMC—12 Apr 2005
- Capt Nand Kishore Sah (MS-14974K), AMC—12 Apr 2005
- Capt Rahul Jha (MS-14975M), AMC—12 Apr 2005
- Capt Abraham Lal Chhana Chawchhim (MS-14978A), AMC—12 Apr 2005
- Capt Sukhwinder Singh Sangha (MS-14984N), AMC—12 Apr 2005
- Capt Amit Mahajan (MS-14985W), AMC—12 Apr 2005
- Capt Virender Suhag (MS-15032A), AMC—12 Apr 2005
- Capt Meena Maruthi Ohal (MS-14694W), AMC—09 Dec 2003
- Capt Ujjawal Pratap (MS-14965H), AMC—12 Apr 2005
- Capt Kanwal Jit Singh (MS-14976P), AMC—12 Apr 2005
- Capt Manish Bansal (MS-14979H), AMC—12 Apr 2005
- Capt Amit Barat (MS-14980X), AMC—12 Apr 2005
- Capt Neeraj (MS-14981A), AMC—12 Apr 2005
- Capt Ranjit Pal Singh Bhogal (MS-14994X), AMC—12 Apr 2005
- Capt Ravindra Kumar (MS-14996H), AMC—12 Apr 2005
- Capt Ashish Chadha (MS-14999W), AMC—12 Apr 2005
- Capt Ambikesh Kumar (MS-15006Y), AMC—12 Apr 2005
- Capt Santosh T (MS-15007F), AMC—12 Apr 2005
- Capt Vipin Kumar (MS-15009M), AMC—12 Apr 2005
- Capt Mukesh Kumar (MS-15010F), AMC—12 Apr 2005
- Capt Jayashree N (MS-15012M), AMC—12 Apr 2005
- Capt Kakul Aggarwal (MS-15013P), AMC—12 Apr 2005
- Capt Girija Nandan Tripathy (MS-15014X), AMC—12 Apr 2005
- Capt Daya Nath Jha (MS-15043M), AMC—12 Apr 2005
- Capt Ajeet Kumar Pandey (MS-14523K), AMC—17 Feb 2003
- Capt Amit Arora (MS-14706A), AMC—27 Nov 2003

The President is pleased to make the following appointments under AI 40/73 with effect from 28 Apr 2005, in AMC/SSC (Non-Tech):—

#### REGULAR ARMY

#### SHORT SERVICE COMMISSION

#### ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

As Lieutenant wef 28 Apr 2005 (On Probation)

Nb Sub/Clk Narendra Singh (JC-694025A now NTS-17506P), 28 Apr 2005

(Seniority for Pay only will reckon w.e.f. 28 Apr 2003)

Hav/Clk Daleep Kumar (13976441A now NTS-17507X),  
28 Apr 2005

Hav/Clk Varghese K Y (13978121K now NTS-17508A),  
28 Apr 2005

Hav/SKT Kailash Chandra (13968975W now NTS-  
17509H), 28 Apr 2005

Nk/HA Suresh P S (13982152F now NTS-17516Y), 28  
Apr 2005

Nk/SKT Gurumendra Giri (13989156A now NTS-  
17510X), 28 Apr 2005

Nk/DT Tomar Shiv Prakash Singh Rajendra Singh  
(13994733L now NTS-17511A), 28 Apr 2005

LNk/DH Jolly C Joseph (13988821L now NTS-17512H),  
28 Apr 2005

Nk/LA Bijith Kumar P S (13984541A now NTS-  
17513L), 28 Apr 2005

Nk/Pharm Neelakantan P S (13993673P now NTS-  
17514N), 28 Apr 2005

Nk/Clk Parwinder Singh (13995476L now NTS-  
17515W), 28 Apr 2005

Sep/Pharm Chandra Prakash (13997676A now NTS-  
17517F), 28 Apr 2005

Sep/AA Prabhakaran K (13987457L now NTS-17518K),  
28 Apr 2005

Sep/STA S Raja (13989226N now NTS-17519M),  
28 Apr 2005

L/Nk/LA Bikash Chand Rana (13991010L now NTS-  
17520F), 28 Apr 2005

Sep/ORA Hari Sai Srinivas (13993556K now NTS-  
17521K), 28 Apr 2005

Sep/STA Sanjay Kumar Shukla (13995549M now NTS-  
17522M), 28 Apr 2005

Sep/ORA Abhay Singh (13996262F now NTS-17523P),  
28 Apr 2005

Sep/Dvr Suraj Basnet (13997480M now NTS-17524X),  
28 Apr 2005

Sep/Pharm Ravinder Jambhle (13999012L now NTS-  
17525A), 28 Apr 2005

The President is pleased to make the following  
appointment under AI 10/2001 with effect from 28 Apr  
2005, in AMC/PC (Non Tech) officers:—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

#### ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

As Lieutenant wef 28 Apr 2005 (On Probation)

Nb Sub/HA Mohan Singh Kapkoti (JC-694217X now  
NTR-16711K), 28 Apr 2005

(Seniority for Pay only will reckon wef 28 April 2003)

Nb Sub/NT Jayavelu S (JC-694253H now NTR-  
16712M), 28 Apr 2005

(Seniority for Pay only will reckon wef 28 April 2003)

Hav/Pharm I Arockia Samy (13982784M now NTR-  
16713P), 28 Apr 2005

Nk/X-Ray Ramesh Thiraviam K (13994173K now NTR-  
16714X), 28 Apr 2005

Nk/Clk Kailas P S (13995303N now NTR-16715A),  
28 Apr 2005

Nk/Clk Sunil Y (13995504M now NTR-16716H), 28  
Apr 2005

Sep/LA Guram Ravi Narsaiah (13992172H now NTR-  
16717L), 28 Apr 2005

Sep/NA Sanjeev Uniyal (13992790N now NTR-  
16718N), 28 Apr 2005

Sep/AA Vinod Kumar U (13993713L now NTR-  
16719W), 28 Apr 2005

L/Nk/NA Ravindra Kumar Malik (13993889W now  
NTR-16720L), 28 Apr 2005

Sep/NA D Prakash Rao (13998877L now NTR-16721N),  
28 Apr 2005

Sep/PTA Neeraj Yadav (13998944L now NTR-16722W),  
28 Apr 2005

Sep/SKT Virendra Kumar Pandey (13999139N now  
NTR-16723Y), 28 Apr 2005

The President is pleased to make the following  
appointments for a period of 5 years under AI 75/78 as  
amended:—

#### REGULAR ARMY

#### SHORT SERVICE COMMISSION

To be Flt Lt (On Probation)

Flt Lt Mohana Rangam T (MS-15027P/AF-28370),  
AMC—12 Apr 2005

Flt Lt Md Abu Sadeque (MS-15052N/AF-27683),  
AMC—12 Apr 2005

Flt Lt Takio Teyi (MS-15054Y/AF-28375), AMC—  
12 Apr 2005

Flt Lt Bipul Kumar Sinha (MS-15056K/AF-27684),  
AMC—12 Apr 2005

To be Surg Lt (On Probation))

Surg Lt Alex Thangjalet Touthang (MS-14685-P/  
75828K), AMC—08 Dec 2003

Surg Lt Promila Rani (MS-14780-F/75837-F), AMC—  
17 Feb 2004

To be Capt (Probn)

Capt (Miss) Meena Jatvindu (MS-14459X), DOC—19 Dec 2002

with seniority for pay and promotion from 19 Dec 1999 (this includes 36 months antedate for Master of Surgery which will not count for gratuity).

(Ministry of Defence notification publication on in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Capt Kanwal Jit Kaur (MS-14484W), DOC—19 Dec 2002

with seniority for pay and promotion from 19 Jun 1999 (this includes 42 months antedate for Doctor of Medicine and Hospital appointment which will not count for gratuity).

(Ministry of Defence notification publication on in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Capt Mayuri Jain (MS-14822H), DOC—17 Feb 2004

with seniority for pay and promotion from 17 Aug 2003 (this includes 06 months antedate for Hospital appointment which will not count for gratuity).

(Ministry of Defence notification publication on in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

RAJESH KAMRAN  
Brig  
Dy. DGAFMS (Pers)

No. 427, dated 7th Aug 2006.—The President is pleased to make the following appointments under the provisions of SAI 7/S/66 as amended:—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

The undermentioned SSCOs are granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 04 Mar 2005 with seniority for promotion and increments of pay from 08 May 1998 on relinquishing their SSC wef 04 Mar 2005. Their inter-se-seniority vis-a-vis SSCOs granted PC will, however, remain same as allocated in GN for grant SSC.

SS-38289, IC-64819Y Nishit Misra, EME

MLN SRAVAN KUMAR  
Col  
Col MS (R&PR)

No. 428, dated 1st Aug 2006.—The President is pleased to extend the appointment of the undermentioned Assistants borne on the CSS Cadre of Ministry of Defence, presently officiating as Section Officer on ad-hoc basis, as Section Officer on ad-hoc basis in the same Ministry in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- for the period from

01.07.2006 to 17.07.2006 or till vacation of the 'Status quo' status of SOs as directed by CAT in OA No. 1295/2006, whichever is earlier, subject to the following conditions:—

- (i) the ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers' Grade and;
- (ii) the ad-hoc Section Officers will be reverted to Assistants' Grade on availability of regular Section Officers through normal channels of recruitment as prescribed in the CSS Rules.

Sl. No.	Name of the Officer
1	2
	S/Shri
1.	O. P. Joshi
2.	Smt. K. Saraswati
3.	Dharam Parkash-II
4.	V. K. Kaura
5.	Smt. Jyotsna Gupta
6.	D. R. Sahu
7.	S. K. Pandey
8.	Smt. Sushma Rani
9.	Vinod Kumar
10.	B. M. Patnaik
11.	Smt. Santosh Kumari
12.	A. K. Singh
13.	Smt. Nirmal Chabra
14.	A. K. Saxena
15.	Itbari Lal
16.	D. C. Sharma
17.	S. Das
18.	S. N. Agarwal
19.	Smt. Bhagwanti
20.	D. P. Tanwar
21.	P. B. S. Dinkar
22.	Shasi Dharan Nair N.
23.	K. K. Sharma
24.	Shankar Ganguly
25.	B. K. Gupta
26.	J. P. Aswani
27.	V. P. Singh

1	2
	S/Shri
28.	Krishana Prasad
29.	Smt. Chander Kanta
30.	Smt. Kanta Kamra
31.	(J. B. Gupta
32.	R. S. Dabas
33.	K. C. Upreti
34.	S. K. Malhotra
35.	Ramesh Goel
36.	Kumar Pranav
37.	Joginder Kumar
38.	V. K. Ramnani
39.	D. K. Chopra
40.	Satish Kumar
41.	Smt. Geeta Mahajan
42.	Surinder Kumar
43.	Ratan Singh
44.	Yashpal
45.	Sheikh Moideen M.
46.	Shyam Swaroop
47.	D. Sudarshan Rao
48.	H. R. Batra
49.	V. Thanabalan
50.	G. C. Sharma

V. SARASWATHY  
Dy. Secy.

(ARMY BRANCH)

No. 429, dated 2nd Aug 2006.—The President is pleased to re-employ the undermentioned JCOs on the active list in the rank and date specified:—

REGULAR ARMY

DEFENCE SECURITY CORPS

In the Rank of Subedar Major (GD)

Sub Maj Ameer G (JC-179320H), Formerly The Maratha LI—09 Jul 2005

Sub Maj Kailash Chandra Rout (JC-184441N), Formerly The Bihar Regt—11 Jul 2005

Sub Maj Ranjit Singh Rana (JC-205720P), Formerly JAK Rif—13 Jul 2005

Sub Maj Ravinder Singh (JC-152798W), Formerly Punjab Regt—08 Oct 2005

In the rank of Subedar (GD)

Sub Ramji Dubey (JC-810293L), Formerly Artillery—01 May 2005

Sub Prem Chand (JC-211652H), Formerly The Mech Inf Regt—01 May 2005

Sub Suman Kumar (JC-578731H), Formerly JAK Rif—02 May 2005

Sub Sarup Chand (JC-578352M), Formerly JAK Rif—09 Jul 2005

Sub Surinder Kumar (JC-578450M), Formerly JAK Rif—09 Jul 2005

Sub Ranjit Singh (JC-221025K), Formerly The Kumaon Regt—09 Jul 2005

Sub Ved Parkash (JC-205423F), Formerly The Guards—09 Jul 2005

Sub Sunil Kumar (JC-558373F), Formerly The Bihar Regt—08 Oct 2005

In the rank of Naib Subedar (GD)

Nb Sub Chandra Prakash (JC-841885W), Formerly Indian Navy—11 Jul 2005

Nb Sub Krishna Nand Srivastava (JC-237071H), Formerly Armoured Corps—08 Oct 2005

Nb Sub Muthu P (JC-236067N), Formerly Armoured Corps—08 Oct 2005

T. K. M. PILLAI  
Under Secy.

(ARMY BRANCH)

No. 430, dated 1st Aug 2006.—The President is pleased to make the following promotion wef the date shown against their names:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Maj to be Substantive Lt Col

V-430K Maj MS Sandhu, RVC—16 Dec 2004

V-431M Maj SL Baghel, RVC—16 Dec 2004

V-432P Maj SK Bhardwaj, RVC—16 Dec 2004

V-433X Maj Jagdip Singh, RVC—16 Dec 2004

V-434A Maj YS Kumar, RVC—16 Dec 2004

V-444K Maj RN Joshi, RVC—16 Dec 2004

V-436L Maj K Sivaji, RVC—16 Dec 2004

V-437N Maj SD Gangwar, RVC—16 Dec 2004

V-445M Maj Anil Kumar Verma, RVC—16 Dec 2004

- V-438W Maj Pradeep Poonia, RVC—16 Dec 2004  
 V-440N Maj DP Singh, RVC—16 Dec 2004  
 V-441W Maj Pradeep Kumar, RVC—16 Dec 2004  
 V-446P Maj Inderjit Singh, RVC—16 Dec 2004  
 V-442Y Maj Pramod Batra, RVC—16 Dec 2004  
 V-443 F Maj RA Misra, RVC—16 Dec 2004  
 V-447X Maj Bapu Parasanalli, RVC—16 Dec 2004  
 V-448A Maj Ranbir Singh, RVC—16 Dec 2004  
 V-449H Maj BS Nara, RVC—16 Dec 2004  
 V-450X Maj Sanjay Malik, RVC—16 Dec 2004  
 V-451A Maj YVV Sunder Ram Murty, RVC—16 Dec 2004  
 V-455W Maj DM Prasad, RVC—16 Dec 2004  
 V-452H Maj Ravi Girdhar, RVC—16 Dec 2004  
 V-453L Maj CS Rathore, RVC—16 Dec 2004  
 V-460F Maj VK Joshi, RVC—16 Dec 2004  
 V-456Y Maj Anurag Kohli, RVC—16 Dec 2004  
 V-457F Maj DK Ahlawat, RVC—16 Dec 2004  
 V-461K Maj Inderjit Singh, RVC—16 Dec 2004  
 V-458K Maj Devender Kumar, RVC—16 Dec 2004  
 V-459M Maj Rajesh Arora, RVC—16 Dec 2004  
 V-477P Maj NS Nara, RVC—16 Dec 2004  
 V-478X Maj SP Anantrao, RVC—16 Dec 2004  
 V-462M Maj DS Duhan, RVC—16 Dec 2004  
 V-479A Maj PK Soni, RVC—16 Dec 2004  
 V-463P Maj VK Mudgal, RVC—16 Dec 2004  
 V-464X Maj Pratap Bhanu, RVC—16 Dec 2004  
 V-465A Maj PVS Sidhu, RVC—16 Dec 2004  
 V-480P Maj Nikunj Kumar, RVC—16 Dec 2004  
 V-466H Maj Sanjeev Bhalla, RVC—16 Dec 2004  
 V-481X Maj CP Churamani, RVC—16 Dec 2004  
 V-467L Maj KB Mrutyunjaya, RVC—16 Dec 2004  
 V-468N Maj RT Pawar, RVC—16 Dec 2004  
 V-469W Maj VK Dixit, RVC—16 Dec 2004  
 V-470L Maj S. V. Wanjari, RVC—16 Dec 2004  
 V-482A Maj PP Singh, RVC—16 Dec 2004  
 V-490Y Maj BP Dubey, RVC—16 Dec 2004  
 V-471N Maj Raman Joshi, RVC—16 Dec 2004  
 V-483H Maj Ashwini Goel, RVC—16 Dec 2004  
 V-484L Maj Gurvinder Singh Gill, RVC—16 Dec 2004  
 V-485N Maj JS Mann, RVC—16 Dec 2004  
 V-472W Maj KL Narayanan, RVC—16 Dec 2004  
 V-491F Maj RK Yadav, RVC—16 Dec 2004  
 V-486W Maj SS Balaje, RVC—16 Dec 2004  
 V-473Y Maj Manoj Batra, RVC—16 Dec 2004  
 V-487Y Maj Jeet Kashyap, RVC—16 Dec 2004  
 V-492K Maj Rajesh Rishi, RVC—16 Dec 2004  
 V-488F Maj Yogesh Dogra, RVC—16 Dec 2004  
 V-474F Maj Swagat Sibbal, RVC—16 Dec 2004  
 V-475K Maj Pankaj Aggarwal, RVC—16 Dec 2004  
 V-476M Maj Aurobinda Halder, RVC—16 Dec 2004  
 V-489K Maj Bijinder Singh Malik, RVC—16 Dec 2004  
 V-498L Maj SR Akkireddy, RVC—21 Dec 2004  
 V-493M Maj Yoginder Sangwan, RVC—21 Dec 2004  
 V-494P Maj Ravish Kumar Chhajed, RVC—21 Dec 2004  
 V-496A Maj Sharat Kumar Nayak, RVC—21 Dec 2004  
 V-510F Maj Jagdish M, RVC—03 Apr 2005  
 V-511K Maj Madrewar Laxmikant Bhim Rao, RVC—03 Apr 2005  
 V-497H Maj Ajay Kumar, RVC—03 Apr 2005  
 V-495X Maj Sanjeev Chauhan, RVC—21 Dec 2005  
 V-499N Maj Krishan Atri, RVC—21 Dec 2005  
 V-500X Maj Dibya Darshan Pawar, RVC—21 Dec 2005  
 V-502H Maj Shomir Bhatnagar, RVC—07 Feb 2006  
 V-503L Maj PK Chug, RVC—07 Feb 2006  
 V-505W Maj JKP Sharma, RVC—07 Feb 2006  
 V-506Y Maj Mangal Singh, RVC—07 Feb 2006  
 V-519W Maj Bhupender Bhasin, RVC—07 Feb 2006
- ARMY SERVICE CORPS (ANIMAL TRANSPORT)
- The President is pleased to make the following promotions:—
- To be Substantive Risaldar Major (ASH)
- Ris Raj Kumar Joshi (JC-680222X), 14 Nov 2005/01 Nov 2005\*
- To be Substantive Risaldar (ASH)
- Nb Ris Amar Singh (JC-680587M), 13 Sept 2005/01 Aug 2005\*
- Nb Ris Jalauddin (JC-680601N), 24 Oct 2005/01 Oct 2005\*

Nb Ris Sewa Lal (JC-680602W), 08 Oct 2005/01 Oct 2005\*

Nb Ris Pradip Kumar Biswas (JC-680603Y), 15 Oct 2005/01 Oct 2005\*

Nb Ris Bikash Biswas (JC-680605K), 23 Nov 2005/01 Nov 2005\*

Nb Ris Hardayal Singh (JC-680606M), 01 Nov 2005

Nb Ris Tara Singh (JC-680609A), 22 Nov 2005/01 Nov 2005\*

To be Substantive Risaldar (AT)

Nb Ris Pancham Singh (JC-680593A), 01 Dec 2005/01 Sep 2005\*

Nb Ris Rajendra Ram Parmanik (JC-680594H), 07 Nov 2005/01 Oct 2005\*

Nb Ris Kailash Kumar (JC-680595L), 12 Nov 2005/01 Oct 2005\*

Nb Ris Mir Ajim (JC-680626A), 16 Nov 2005/01 Nov 2005\*

To be Substantive Risaldar (ASH)

Nb Ris Sarangadhar Das (JC-680687X), 02 Jan 2006/01 Jan 2006\*

Nb Ris Nehru Lal (JC-680689H), 03 Jan 2006/01 Jan 2006\*

Nb Ris V Guna Sekaran (JC-680692N), 02 Jan 2006/01 Jan 2006\*

Nb Ris Swayamber Singh Rawat (JC-680693L), 02 Jan 2006/01 Jan 2006\*

Nb Ris Kandarpa Kumar Kakati (JC-680694N), 10 Jan 2006/01 Jan 2006\*

Nb Ris B. L. B. B. Bhai (JC-680695W), 01 Jan 2006/01 Jan 2006\*

Nb Ris Dinesh Yadav (JC-680696Y), 02 Jan 2006/01 Jan 2006\*

Nb Ris Ramotar Singh (JC-680698K), 01 Feb 2006/01 Jan 2006\*

Nb Ris Sampat Singh (JC-680700W), 02 Jan 2006/01 Jan 2006\*

Nb Ris Chandra Shekar Behera (JC-680701Y), 02 Jan 2006/01 Jan 2006\*

Nb Ris Raghoobar Singh (JC-680702F), 02 Jan 2006/01 Jan 2006\*

Nb Ris Naresh Kuamr (JC-680704M), 23 Jan 2006/01 Jan 2006\*

Nb Ris Mahesh Kumar (JC-680705P), 01 Feb 2006/01 Feb 2006\*

Nb Ris Des Raj (JC-680706X), 01 Feb 2006/01 Feb 2006\*

Nb Ris Dharam Deo (JC-680709L), 01 Feb 2006/01 Feb 2006\*

Nb Ris Arvind Kumar (JC-680710A), 01 Feb 2006/01 Feb 2006\*

Nb Ris Madan Singh Chauhan (JC-680711H), 03 Feb 2006/01 Feb 2006\*

Nb Ris Bagh Singh (JC-680712F), 01 Feb 2006/01 Feb 2006\*

Nb Ris Prabhu Singh (JC-680713N), 01 Feb 2006/01 Feb 2006\*

Nb Ris Madha Banand Roy (JC-680716F), 01 Feb 2006/01 Feb 2006\*

Nb Ris Vishram Singh (JC-680718M), 01 Feb 2006/01 Feb 2006\*

To be Substantive Risaldar (AT)

Nb Ris Gopal Datt (JC-680684K), 18 Jan 2006/01 Jan 2006\*

To be Substantive Risaldar (ASH)

Nb Ris Abhinash Prasad (JC-680617Y), 10 Nov 2005/01 Nov 2005\*

Nb Ris Manohar Singh (JC-680674A), 31 Jan 2006/01 Nov 2005\*

Nb Ris Ram Chandra Sawaiyan (JC-680619K), 26 Dec 2005/01 Nov 2005\*

Nb Ris Premadasan CK (JC-680620Y), 09 Jan 2006/01 Nov 2005\*

Nb Ris Raghubeer Singh (JC-680621F), 29 Dec 2005/01 Nov 2005\*

Nb Ris R B S Yadav (JC-680622K), 06 Jan 2006/01 Nov 2005\*

Nb Ris Ram Dayal (JC-680623H), 02 Jan 2006/01 Nov 2005\*

Nb Ris Ramesh (JC-680624P), 03 Jan 2006/01 Nov 2005\*

Nb Ris Narayan Ray (JC-680625X), 28 Dec 2005/01 Nov 2005\*

Nb Ris R D S Yadav (JC-680627H), 02 Jan 2006/01 Nov 2005\*

Nb Ris Mukhtiar Singh (JC-680629W), 25 Dec 2005/01 Dec 2005\*

Nb Ris Dinesh Chandra Pandey (JC-680630H), 27 Dec 2005/01 Dec 2005\*

Nb Ris Keshav Kumar (JC-680631L), 28 Dec 2005/01 Dec 2005\*

Nb Ris Daya Kishan (JC-680632X), 28 Dec 2005/01 Dec 2005\*

Nb Ris Om Prakash (JC-680634Y), 17 Jan 2006/01 Dec 2005\*

Nb Ris Sita Ram (JC-680640M), 03 Jan 2006/01 Dec 2005\*

Nb Ris Sheoji Ram Meena (JC-680641P), 27 Dec 2005/01 Dec 2005\*

Nb Ris Dilip Kumar Ghosh (JC-680642N), 28 Dec 2005/01 Dec 2005\*

Nb Ris Sree Dharan S (JC-680643A), 28 Dec 2005/01 Dec 2005\*

Nb Ris Dinesh Chandra Mohanty (JC-680648Y), 27 Dec 2005/01 Dec 2005\*

Nb Ris Room Singh (JC-680650W), 27 Dec 2005/01 Dec 2005\*

Nb Ris Manber Singh (JC-680655P), 26 Dec 2005/01 Dec 2005\*

Nb Ris Mahabir Singh (JC-680656X), 01 Dec 2005/01 Dec 2005\*

Nb Ris Ram Singh Godara (JC-680657A), 16 Jan 2006/01 Dec 2005\*

Nb Ris Shreemant Namdeo K (JC-680658H), 14 Jan 2006/01 Dec 2005\*

Nb Ris Chunni Lal (JC-680659L), 30 Dec 2005/01 Dec 2005\*

Nb Ris Keshar Prasad Singh (JC-680660A), 26 Dec 2005/01 Dec 2005\*

Nb Ris Uma Kanta Mohanty (JC-680661H), 19 Jan 2006/01 Dec 2005\*

Nb Ris Satya Prakash (JC-680662L), 28 Dec 2005/01 Dec 2005\*

Nb Ris Gangadhar Malviya (JC-680663N), 02 Jan 2006/01 Dec 2005\*

Nb Ris Md Gulam Kibria Laskar (JC-680664W), 30 Dec 2005/01 Dec 2005\*

Nb Ris Joy K J (JC-680665Y), 02 Jan 2006/01 Dec 2005\*

Nb Ris Rameshwar Singh (JC-680666F), 17 Jan 2006/01 Dec 2005\*

Nb Ris Parsu Ram Swain (JC-680667K), 06 Jan 2006/01 Dec 2005\*

Nb Ris Mohan Ram (JC-680668M), 16 Jan 2006/01 Dec 2005\*

Nb Ris P N Jha (JC-680672P), 06 Jan 2006/01 Dec 2005\*

Nb Ris Arjun Prasad Sharma (JC-680675Y), 03 Jan 2006/01 Dec 2005\*

Nb Ris Suresh Ram (JC-680677N), 26 Dec 2005/01 Dec 2005\*

Nb Ris Bijay Kumar (JC-680678W), 02 Jan 2006/01 Dec 2005\*

Nb Ris Bachchu Mandal (JC-680680K), 28 Dec 2005/01 Dec 2005\*

Nb Ris Narendra Raut (JC-680683F), 26 Dec 2005/01 Dec 2005\*

Nb Ris Anil Kumar Mishra (JC-680685M), 28 Dec 2005/01 Dec 2005\*

Nb Ris Krishan Kumar (JC-680608N), 26 Jan 2006/06 Dec 2005\*

\*(Gtd ante-date seniority without effect on pay and allces wef).

#### REGIMENT OF ARTILLERY

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Laxman Singh Ankoh (JC-260940Y), 29 Jan 2005/01 Jan 2006\*

Nb Sub Ram Nath Singh (JC-263837Y), 01 Jan 2005

Nb Sub Chandra Prakash (JC-264091A), 12 Feb 2005/01 Jan 2005\*

Nb Sub Tejvir Singh (JC-264051Y), 26 Jan 2005/01 Jan 2005\*

Nb Sub Rajpal Singh (JC-264664Y), 18 Jan 2005/01 Jan 2005\*

Nb Sub Satnam Singh (JC-264098K), 31 Jan 2005/01 Jan 2005\*

Nb Sub Hari Singh Yadav (JC-264516N), 10 Jan 2005/01 Jan 2005\*

Nb Sub Krishana Nair B (JC-264624X), 01 Jan 2005

Nb Sub Ramessan P (JC-264231H), 03 Feb 2005/01 Jan 2005\*

Nb Sub Milap Chand (JC-264723A), 01 Jan 2005

Nb Sub Ranjit Singh Rajput (JC-264764K), 24 Feb 2005/01 Jan 2005\*

Nb Sub Shirname Sadashiv Tukaram (JC-264816P), 21 Jul 2005/01 Jan 2005\*

Nb Sub Varkey KP (JC-264782M), 03 Feb 2005/01 Jan 2005\*

Nb Sub Pavitharan V (JC-264309F), 04 Jan 2005/01 Jan 2005\*

Nb Sub Subramani K (JC-264233M), 22 Feb 2005/01 Jan 2005\*

Nb Sub Jagdish Singh (JC-264647Y), 01 Jan 2005/01 Jan 2005\*



Nb Sub Mata Badal Mishra (JC-264565W), 04 Jan 2005/  
01 Jan 2005\*

Nb Sub Sujan Singh (JC-264397H), 12 Jan 2005/01 Jan  
2005\*

Nb Sub Bijaya Kumar Samal (JC-264459X), 01 Jan 2005

Nb Sub G Udayanan (JC-264904L), 10 Jan 2005/01 Jan  
2005\*

Nb Sub Dalbir Singh (JC-264479L), 01 Jan 2005

Nb Sub Paruvatha Rami Reddy (JC-264863M), 01 Jan  
2005\*

Nb Sub Baldev Singh (JC-264969Y), 01 Jan 2005

Nb Sub Suresh Singh (JC-264842W), 07 Mar 2005/  
01 Jan 2005\*

Nb Sub Siddhappa (JC-264893K), 21 Feb 2005/01 Jan  
2005\*

Nb Sub Makhan Singh (JC-264945P), 18 Jan 2005/  
01 Jan 2005\*

Nb Sub Bhagwan Singh (JC-265079L), 29 Jan 2005/  
01 Jan 2005\*

Nb Sub Daljit Singh (JC-265348M), 01 Jan 2005

Nb Sub Ranjit Singh (JC-265177L), 01 Jan 2005

Nb Sub Bhagwan Singh Rana (JC-265338H), 30 Jan  
2005/01 Jan 2005\*

Nb Sub Bushan Lal (JC-265448X), 01 Jan 2005

Nb Sub Chinnappa Raju (JC-265574K), 01 Jan 2005

Nb Sub Matadeen (JC-264512X), 07 May 2005/06 Jan  
2005\*

Nb Sub Jagbir Singh (JC-261306H), 15 Feb 2005/01 Feb  
2005\*

Nb Sub Kishori Lal (JC-261536W), 01 Feb 2005

Nb Sub Satpal (JC-261720F), 01 Feb 2005

Nb Sub Ram Dhani Mishra (JC-262257X), 01 Feb 2005

Nb Sub Amar Singh (JC-262073Y), 12 Jul 2005/01 Feb  
2005\*

Nb Sub Bani Singh (JC-265401M), 21 Feb 2005/01 Feb  
2005\*

Nb Sub Santosh Kumar (JC-265534H), 01 Apr 2005/  
01 Feb 2005\*

Nb Sub Bajrang Singh (JC-265355H), 20 Mar 2005/  
01 Feb 2005\*

Nb Sub S Rajendran (JC-265626P), 07 Mar 2005/01 Feb  
2005\*

Nb Sub Ram Kishan (JC-265298M), 19 Feb 2005/01 Feb  
2005\*

Nb Sub Sukhdev Singh (JC-265810A), 14 Feb 2005/  
01 Feb 2005\*

Nb Sub R Murugesan (JC-265712A), 12 Feb 2005/  
01 Feb 2005\*

\*(Gtd seniority wef)

S. P. SHARMA  
Under Secy.

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL  
ENGR BRANCH

No. 431, dated 3rd August 2006.—The President is  
pleased to make the following appointment:—

To be Sub Maj Tech

Sub Ashok V Ghorpade (JC-748065X), 12 Sep 2005/  
01 Aug 2005\*

Sub Ram Pyare Prasad (JC-748179H), 01 Sep 2005

Sub Girija Ashankar (JC-748664M), 01 Oct 2005

Sub Atar Singh (JC-748272K), 01 Oct 2005

Sub Karnail Singh (JC-748264L), 01 Oct 2005

Sub Akhay Kumar Samal (JC-748099L), 01 Aug 2005

Sub Rachhpal Singh Manhas (JC-748249W), 01 Oct  
2005

Sub-KC Samal (JC-748730F), 01 Oct 2005

To be Sub Maj Artzn (EC)

Sub Raj Kumar Nisad (JC-751228L), 01 Oct 2005

To be Sub Maj Clerk (GD)

Sub Thomas Kutty KT (JC-747120W), 01 Sep 2005

To be Sub Maj Armr

Sub Gaurav Singh (JC-752977N), 01 Sep 2005

Sub GP Singh (JC-752976L), 08 Sep 2005/01 Aug 2005\*

To be Sub Tech

Nb Sub Rajendra Yadav (JC-755640W), 27 Aug 2005/  
01 May 2005\*

Nb Sub Denendra Prasad Singh (JC-754181W), 16 Aug  
2005/01 Jun 2005\*

Nb Sub Ambika Prasad (JC-755860A), 23 Aug 2005/  
01 Jul 2005\*

Nb Sub Jai Karan Yadav (JC-755681A), 29 Aug 2005/  
01 Aug 2005\*

Nb Sub Rajendran K (JC-755682H), 27 Aug 2005/  
01 Aug 2005\*

Nb Sub Bhaskaran Komath (JC-755694X), 25 Aug 2005/  
01 Aug 2005\*

Nb Sub Shyambir (JC-755805K), 30 Aug 2005/01 Aug  
2005\*

Nb Sub Banshu Prasad Verma (JC-755906X), 01 Sep 2005

To be Sub Artzn (AVN)

Nb Sub Anil Kumar (JC-755907A), 01 Sep 2005

Nb Sub Puran Chandra (JC-753582Y), 29 Aug 2005/01 Aug 2005

Nb Sub Ajay Kumar Gupta (JC-755535A), 08 Jun 2005/01 May 2005\*

To be Sub Clerk (GD)

Nb Sub P Laxminarayan (JC-755637W), 29 Jul 2005/01 May 2005\*

Nb Sub Daulat Singh Yadav (JC-754004W), 22 Aug 2005/01 Jul 2005\*

To be Sub SKT

Nb Sub Hari Keshav (JC-755545K), 18 Jul 2005/01 Jul 2005\*

Nb Sub Narayanan P (JC-754213N), 29 Aug 2005/01 Jun 2005\*

To be Sub DW

Nb Sub Brindaban Paul (JC-755556W), 29 Aug 2005/01 Jun 2005\*

Nb Sub Krishna Prasad Yadav (JC-757459X), 08 Aug 2005/01 Aug 2005\*

Nb Sub Pawale Hanumant (JC-756151X), 05 Aug 2005/01 Jun 2005\*

Nb Sub Yogendra Prasad (JC-757461P), 01 Aug 2005

Nb Sub Shashi Chandra Mishra (JC-755547P), 25 Aug 2005/01 Jul 2005\*

Nb Sub Pradip CH Borthakur (JC-757385N), 22 Aug 2005/01 Aug 2005\*

Nb Sub Soshanka Chakaraborty (JC-755483M), 24 Aug 2005/01 Jul 2005\*

Nb Sub Indraj Singh (JC-756942P), 30 Aug 2005/22 Mar 2005\*

Nb Sub Sanabam Romeshor Meitei (JC-755866F), 01 Sep 2005

Nb Sub Ramappa Wagh (JC-757515L), 01 Sep 2005

Nb Sub Rati Ram (JC-755746H), 01 Sep 2005/01 Aug 2005\*

Nb Sub A K Sharma (JC-757520W), 01 Sep 2005

Nb Sub P Johnson Vadamutha (JC-755751N), 01 Sep 2005

Nb Sub Jagdish Singh (JC-757474M), 05 Sep 2005/01 Aug 2005\*

To be Sub Technical

Nb Sub Gour Chandra Sutrdhar (JC-755809A), 01 Sep 2005/01 Aug 2005\*

Nb Sub Chhote Lal (JC-753245K), 28 Nov 2005/01 Jun 2005\*

Nb Sub Ram Babu Sharma (JC-755756M), 01 Sep 2005

Nb Sub Aditya Kumar Gharai (JC-755477F), 28 Jul 2005/01 Jun 2005\*

Nb Sub Nem Singh (JC-756204L), 01 Sep 2005/01 Jul 2005\*

Nb Sub Mossa MM (JC-755494F), 07 Oct 2005/01 Jun 2005\*

Nb Sub Vinodh Kumar (JC-755544F), 01 Aug 2005/01 Jul 2005\*

Nb Sub Naresh Kumar (JC-755864W), 29 Aug 2005/01 Jul 2005\*

To be Sub Artzn (EC)

Nb Sub Sukhmar Panda (JC-757336L), 27 Aug 2005/01 Jul 2005\*

Nb Sub Jagdle SK (JC-755666L), 26 Dec 2005/01 Aug 2005\*

Nb Sub N Bhatha Valsalan (JC-757338W), 29 Aug 2005/01 Aug 2005

Nb Sub Vanna Singh (JC-755807P), 31 Aug 2005/01 Aug 2005\*

Nb Sub Harish Chandra Pandey (JC-757352H), 29 Aug 2005/01 Aug 2005\*

Nb Sub Agarkar SW (JC-755873X), 31 Dec 2005/01 Aug 2005\*

Nb Sub Ishwar Prasad (JC-757342Y), 29 Aug 2005/01 Aug 2005\*

Nb Sub Ramesh Chand (JC-755876L), 23 Dec 2005/01 Oct 2005\*

Nb Sub Santo Das (JC-757777F), 30 Aug 2005/01 Aug 2005\*

Nb Sub Pamalla Vijaya Bhaskar (JC-756283L), 22 Nov 2005/01 Oct 2005\*

Nb Sub Subramanyam SB (JC-757772H), 01 Sep 2005

Nb Sub Kande Gorakh Devidas (JC-755784Y), 23 Nov 2005/01 Oct 2005\*

To be Sub Artzn (NE)

Nb Sub Shyam Babu Singh (JC-755924A), 02 Sep 2005/01 Aug 2005\*

Nb Sub K Vijay Raj (JC-755899M), 31 Dec 2005/01 Oct 2005\*

Nb Sub Vijayendra MV (JC-756033K), 02 Jan 2006/  
01 Dec 2005\*

Nb Sub Ganesh Sahani (JC-755881W), 10 Jan 2006/  
01 Dec 2005\*

Nb Sub Lokhande Tanhaji Raghunath (JC-755882Y),  
02 Jan 2006/01 Dec 2005\*

Nb Sub Kalu Ram Mali (JC-755883F), 29 Dec 2005/  
01 Dec 2005\*

Nb Sub Mahadev Nuli (JC-755974L), 27 Dec 2005/  
01 Dec 2005\*

Nb Sub Uma Dutt Sharma (JC-755975N), 25 Dec 2005/  
01 Dec 2005\*

Nb Sub P Venkateswarlu (JC-756307K), 02 Jan 2006/01  
Dec 2005\*

Nb Sub Shyam Singh (JC-755902F), 02 Jan 2006/01 Dec  
2005\*

Nb Sub Raj Pal Singh (JC-755903K), 25 Dec 2005/  
01 Dec 2005\*

Nb Sub Kishan Ram (JC-755936P), 05 Jan 2006/01  
Dec 2005\*

Nb Sub Vijay Kumar PK (JC-756007H), 27 Dec 2005/  
01 Dec 2005\*

Nb Sub Raj Singh (JC-755980Y), 24 Dec 2005/01 Dec  
2005\*

Nb Sub Athani Samal (JC-755983M), 09 Jan 2006/  
01 Dec 2005\*

Nb Sub M Ponmalai (JC-755994Y), 01 Jan 2006/01 Dec  
2005\*

Nb Sub SK Dil Mohammad (JC-755995F), 26 Dec 2005/  
01 Dec 2005\*

Nb Sub Anil Kumar Mondal (JC-755998P), 27 Dec  
2005/01 Dec 2005\*

Nb Sub Bacta Ram Patel (JC-756036X), 02 Jan 2006/  
01 Dec 2005\*

Nb Sub Elicius Soreng (JC-756037A), 02 Jan 2006/  
01 Dec 2005\*

Nb Sub Girish Chandra Andola (JC-756038A), 26 Dec  
2005/01 Dec 2005\*

Nb Sub Thakur Singh (JC-756209K), 19 Jan 2006/  
01 Dec 2005\*

Nb Sub CT Naidu (JC-755945W), 22 Jan 2006/01 Jan  
2006\*

To be Sub Artzn (EC)

Nb Sub Kaur Singh (JC-757557X), 23 Aug 2005/01 Jul  
2005\*

Nb Sub Sajith Kumar V (JC-758045X), 24 Dec 2005/  
01 Jul 2005\*

Nb Sub Dewanand Thakur (JC-757942F), 29 Dec 2005/  
01 Dec 2005\*

To be Sub Artzn (NE)

Nb Sub Satya Narayan (JC-754174A), 18 Oct 2005/  
01 Nov 2004\*

Nb Sub Satpal Sharma (JC-756022X), 06 Sep 2005/  
01 Aug 2005\*

Nb Sub Surendra Prasad (JC-756314A), 12 Jan 2006/  
01 Dec 2005\*

Nb Sub Ram Chandra (JC-756216A), 27 Dec 2005/  
01 Dec 2005\*

To be Sub Clk (GD)

Nb Sub Davender Kumar Sharma (JC-753958P), 28 Aug  
2005/01 Jun 2005\*

Nb Sub Laxman Yadav (JC-754003N), 27 Aug 2005/  
01 Jun 2005\*

Nb Sub Pradeep Kumar Chopra (JC-754113H), 29 Aug  
2005/01 Aug 2005\*

Nb Sub Vijendra Kumar (JC-754199Y), 30 Dec 2005/  
01 Dec 2005\*

To be Sub Armr

Nb Sub CR Das (JC-756958A), 13 Oct 2005/01 Aug  
2005\*

Nb Sub Chittaranjan Sarkar (JC-756960L), 09 Jan 2006/  
01 Sep 2005\*

Nb Sub Suresh Chand (JC-756765A), 23 Oct 2005/  
01 Sep 2005\*

Nb Sub Puran Singh (JC-756716X), 23 Nov 2005/01 Sep  
2005\*

Nb Sub Basavaraj Konnuri (JC-756916N), 17 Jan 2006/  
01 Dec 2005\*

Nb Sub A Ramesh (JC-756917W), 31 Dec 2005/01 Dec  
2005\*

Nb Sub Shiba Prasad Panda (JC-757045L), 26 Dec 2005/  
01 Dec 2005\*

Nb Sub Kanhaiya Lal (JC-757136P), 26 Dec 2005/  
01 Dec 2005\*

To be Sub (DW)

Nb Sub Umesh Singh (JC-757606P), 02 Dec 2005/  
01 Nov 2005\*

Nb Sub Ranjit Singh (JC-757526X), 29 Nov 2005/  
01 Nov 2005\*

Nb Sub Sachita Nand Singh (JC-757823L), 20 Dec 2005/  
01 Nov 2005\*

Nb Sub Dhaneshwar Ray (JC-757826Y), 24 Dec 2005/  
01 Dec 2005\*

Nb Sub Awinash Kumar Ojha (JC-757997L), 26 Dec 2005/01 Dec 2005\*

Nb Sub Nagender Singh (JC-757944M), 02 Jan 2006/01 Dec 2005\*

Nb Sub Bhupendra Singh (JC-757945P), 28 Dec 2005/01 Dec 2005\*

Nb Sub Pritam Chand (JC-757946X), 26 Dec 2005/01 Dec 2005\*

Nb Sub Ram Naresh (JC-757947A), 26 Dec 2005/01 Dec 2005\*

Nb Sub Makhan Singh (JC-758002H), 30 Dec 2005/01 Dec 2005\*

To be Subedar Technical

Nb Sub Rajinder Singh (JC-755589F), 01 May 2005

Nb Sub Bimal Chandra Nath (JC-755501M), 19 Jul 2005/01 Jul 2005\*

Nb Sub Naresh Kumar Mehta (JC-755654W), 24 Aug 2005/01 Jun 2005\*

Nb Sub More Sambhaji Nivrutti (JC-755801N), 31 Aug 2005/01 Jul 2005\*

Nb Sub Kailash Chand (JC-755863N), 30 Aug 2005/01 Jul 2005\*

Nb Sub Birbal Prasad (JC-755550P), 31 Aug 2005/01 Jul 2005\*

Nb Sub Shailendra Kumar Dubey (JC-755677X), 22 Aug 2005/01 Aug 2005\*

Nb Sub Suresh Kumar Tanwar (JC-755679H), 01 Sep 2005/01 Aug 2005\*

Nb Sub Anil Kumar Mishra (JC-755748N), 01 Sep 2005/01 Aug 2005\*

Nb Sub Vijay Narayan Tripathi (JC-755749W), 03 Sep 2005/01 Sep 2005\*

Nb Sub Inder Jeet (JC-755750L), 01 Sep 2005

Nb Sub DC Upreti (JC-755757P), 01 Sep 2005

Nb Sub SBS Jagatageri (JC-755802W), 30 Aug 2005/01 Aug 2005\*

Nb Sub Pradeep Patel (JC-755868M), 01 Sep 2005

Nb Sub Mahendra Nath Mandi (JC-755871M), 01 Sep 2005

Nb Sub P Moorthy (JC-755361L), 01 Apr 2005

Nb Sub Shri Krishan (JC-755475W), 18 Jul 2005/01 Jun 2005\*

Nb Sub Sushil Kumar (JC-755715H), 23 Aug 2005/01 Jun 2005\*

Nb Sub Chandra Pal Patel (JC-755668W), 28 Aug 2005/01 Aug 2005\*

Nb Sub Dilbagh Singh (JC-755695A), 27 Aug 2005/01 Aug 2005\*

Nb Sub SK Srivastava (JC-755696H), 29 Aug 2005/01 Aug 2005\*

Nb Sub S Muthu Krishnan (JC-755665N), 02 Sep 2005/01 Aug 2005\*

Nb Sub Mangat Ram (JC-755579X), 04 Apr 2005/01 Apr 2005\*

Nb Sub Basir Khan (JC-755656K), 18 Jul 2005/01 Jun 2005\*

Nb Sub Arvind Kumar (JC-755671W), 24 Aug 2005/01 Jul 2005\*

Nb Sub Yogendra Nath Chaturvedi (JC-755651H), 17 Sep 2005/01 Jun 2005\*

Nb Sub Mal Singh Sekhawat (JC-755539W), 16 Aug 2005/01 Jul 2005\*

Nb Sub P Vijay Kumar (JC-755702L), 12 Jul 2005/01 Jul 2005\*

Nb Sub Mallikarjuna Swamy (JC-755861H), 16 Sep 2005/01 Jul 2005\*

Nb Sub N Muralidharan (JC-755720N), 31 Aug 2005/01 Jul 2005\*

Nb Sub Sujit Kumar Nath (JC-755745A), 30 Aug 2005/01 Jul 2005\*

Nb Sub Manoranjan Dey (JC-756366W), 24 Aug 2005/01 Jul 2005\*

Nb Sub Shri Pal Singh (JC-755653N), 12 Sep 2005/01 Jun 2005\*

Nb Sub VP Singh (JC-755689M), 26 Aug 2005/01 Aug 2005\*

Nb Sub Md Jiyauddin (JC-756511H), 27 Sep 2005/01 Aug 2005\*

Nb Sub Ram Balak Singh (JC-755754F), 01 Sep 2005

Nb Sub Jayamohan P (JC-755895W), 28 Sep 2005/01 Aug 2005\*

Nb Sub Surya Dev (JC-755698N), 29 Aug 2005/01 Aug 2005\*

Nb Sub RK Nag (JC-755680X), 26 Sep 2005/01 Aug 2005\*

Nb Sub Dulal Basu Biswas (JC-755869P), 01 Sep 2005

Nb Sub Raghubir Singh (JC-755687F), 27 Sep 2005/01 Aug 2005\*

Nb Sub Ravindra Singh (JC-755667N), 29 Aug 2005/01 Aug 2005\*

Nb Sub Chandra Shekhar (JC-755752W), 16 Sep 2005/01 Sep 2005\*

## To be Subedar Artzn (EC)

Nb Sub Jainandan (JC-757261Y), 23 Aug 2005/01 Jul 2005\*

Nb Sub Nirmal Kumar Sau (JC-757360F), 01 Sep 2005

Nb Sub Diwakar Prasad Singh (JC-757771A), 07 Sep 2005/01 Sep 2005\*

Nb Sub AS Bisht (JC-757778K), 01 Sep 2005

Nb Sub Ram Krishna Sinha (JC-757940W), 01 Sep 2005

Nb Sub Tapesh Chakraborty (JC-757248P), 05 Sep 2005/01 Jun 2005\*

Nb Sub Vijay Kumar PS (JC-758319X), 19 Sep 2005/01 Jan 2004\*

Nb Sub Tippanna Nucha Natti (JC-757339Y), 19 Sep 2005/01 Aug 2005\*

Nb Sub Mohanan Nair TR (JC-757554K), 23 Sep 2005/01 Sep 2005\*

## To be Subedar Artzn (NE)

Nb Sub Kailash Babu (JC-755922P), 07 Sep 2005/01 Jul 2005\*

Nb Sub YN Mallesh (JC-755856X), 01 Sep 2005/01 Aug 2005\*

Nb Sub Vema Raju Sesham Raju (JC-755438H), 10 Aug 2005/01 Jul 2005\*

## To be Sub Tech (Avn)

Nb Sub AP Bishwakarma (JC-756586A), 28 Jul 2005/01 Jun 2005\*

## To be Sub Clerk (GD)

Nb Sub Subha Chand Yadav (JC-754160A), 01 Sep 2005/01 Aug 2005\*

Nb Sub Mohinder Singh (JC-754161N), 01 Sep 2005

## To be Sub Armr

Nb Sub Radhakant Prasad Singh (JC-754852P), 08 Aug 2005/01 Aug 2002\*

Nb Sub Tej Bahadur Pal (JC-755223K), 06 Sep 2005/01 Jun 2005\*

## To be Sub (DW)

Nb Sub AK Ingle (JC-757464H), 08 Sep 2005/01 Aug 2005\*

Nb Sub Pabitra Kumar Das (JC-757518Y), 02 Sep 2005/01 Sep 2005\*

Nb Sub Chaman Lal (JC-757567F), 27 Aug 2005/01 Aug 2005\*

Nb Sub Uma Shankar Singh (JC-757571K), 01 Sep 2005

Nb Sub Om Sharan (JC-757353L), 31 Aug 2005/01 Aug 2005\*

Nb Sub UK Mishra (JC-757463A), 01 Aug 2005

Nb Sub Suresh Prasad Sah (JC-757462X), 29 Aug 2005/01 Aug 2005\*

Nb Sub NS Negi (JC-757570F), 02 Sep 2005/01 Aug 2005\*

Nb Sub Vijay Kumar Singh (JC-757519P), 01 Sep 2005

Nb Sub Hans Narain Singh (JC-757513A), 01 Sep 2005

## Hav To be Nb Sub Clk (GD)

Rajendra Prasad Dash (14558056W now JC-760301A), 08 Nov 2005/01 Oct 2005\*

Krishnamurthi L (14559673L now JC-760303L), 10 Nov 2005/01 Oct 2005\*

Debendra Kumar Panda (14559722H now JC-760305W), 05 Nov 2005/01 Oct 2005\*

Tarapad Parida (14559723L now JC-760306Y), 31 Oct 2005/01 Oct 2005\*

Satyavir Singh (14548942M now JC-760308K), 07 Nov 2005/01 Oct 2005\*

Lallan Singh (14555360P now JC-760309M), 12 Nov 2005/01 Oct 2005\*

## HMT to be Nb Sub Tech B Veh

PA Khan (14607399Y now JC-760239Y), 07 Nov 2005/01 Sep 2005\*

Naba Kumar Kundu (14608033N now JC-760242Y), 28 Oct 2005/01 Sep 2005\*

Dukhit Ram Pal (14609528M now JC-760257F), 29 Oct 2005/01 Sep 2005\*

Arabindra Pattanaik (14609225M now JC-760260F), 19 Oct 2005/01 Sep 2005\*

Ajay Kumar Singh (14609720W now JC-760264X), 20 Oct 2005/01 Sep 2005\*

## HMT to be Nb Sub Tech Armr

Ashok Kuwar (14610329L now JC-760285N), 26 Oct 2005/01 Sep 2005\*

## Hav to be Nb Sub Armr

ameshwar Thakur (14546526K now JC-760187N), 11 Oct 2005/01 Sep 2005\*

P Padmajan Nair (14546923H now JC-760188W), 11 Oct 2005/01 Sep 2005\*

Kedar Nath Nayak (14547886M now JC-760200M), 31 Oct 2005/01 Sep 2005\*

Satya Prakash (14548178M now JC-760203A), 06 Oct 2005/01 Sep 2005\*

Arun Kumar Singh (14539194H now JC-760210W), 05 Nov 2005/01 Sep 2005\*

Ram Babu (14545422W now JC-760211Y), 01 Nov 2005/01 Sep 2005\*

Vijay Kumar Singh (14550353P now JC-760218H), 04 Oct 2005/01 Sep 2005\*

SK Bishnoi (14550389N now JC-760222L), 17 Oct 2005/01 Sep 2005\*

Ashok Kumar PR (14546797F now JC-760186L), 24 Oct 2005/01 Sep 2005\*

Sreenu PK (14546093X now JC-760191W), 11 Nov 2005/01 Sep 2005\*

Shiw Bhagat (14549533L now JC-760224W), 05 Oct 2005/01 Sep 2005\*

Hav to be Nb Sub Elect (MV)

Gajendra Prasad Sharma (14536775P now JC-760293M), 30 Aug 2005

Radhey Shyam Yadav (14676320W now JC-760174W), 17 Oct 2005/01 Sep 2005\*

Hav to be Nb Sub VM (MV)

SN Sharma (14540383Y now JC-760296A), 09 Nov 2005/01 Sep 2005\*

Jagdish Chandra Sharma (14540103A now JC-760299N), 11 Nov 2005/01 Oct 2005\*

Hav to be Nb Sub DVR (MT)

Chandra Prakash Dixit (14542855H now JC-760154H), 27 Oct 2005/01 Sep 2005\*

Munna Lal (14543045M now JC-760155L), 01 Nov 2005/01 Sep 2005\*

Paramanand Behera (14542145L now JC-760310F), 16 Oct 2005/01 Oct 2005\*

Varadi Gopal Rao (14543462Y now JC-760314X), 14 Nov 2005/01 Oct 2005\*

Sia Ram (14537259M now JC-760311K), 18 Nov 2005/01 Oct 2005\*

To be Sub Maj Tech

Sub Addala K Ramanjaneyulu (JC-747532X), 01 Mar 2005

Sub Bishram Prasad (JC-748055N), 01 May 2005

Sub Vinod Kumar Panwar (JC-748446Y), 30 Jun 2005/01 May 2005\*

To be Sub Maj Armr

Sub S Mottaiyan (JC-752626Y), 06 May 2005/01 May 2005\*

Sub Mukteshwar Jha (JC-752630F), 30 Jun 2005/01 Jun 2005\*

To be Sub Technical

Nb Sub Chanchal Singh (JC-755553H), 01 Apr 2005

Nb Sub Atul Chandra Borah (JC-755509Y), 09 May 2005/01 May 2005\*

Nb Sub Shiv Prasad Dixit (JC-755530F), 14 May 2005/01 May 2005\*

Nb Sub Surinder Kumar (JC-755533P), 24 May 2005/01 May 2005\*

Nb Sub AK Singh (JC-754238A), 27 May 2005/01 Nov 2003\*

Nb Sub Sunil Kumar B (JC-755645P), 04 Jun 2005/01 May 2005\*

Nb Sub T Surendra Nath (JC-755635L), 04 Jun 2005/01 May 2005\*

Nb Sub Deep Kumar Chaudhary (JC-755634H), 06 Jun 2005/01 May 2005\*

Nb Sub Rajesh Singh (JC-755632X), 06 Jun 2005/01 May 2005\*

Nb Sub Sanjeev Kumar (JC-755639F), 08 Jun 2005/01 May 2005\*

Nb Sub Harish Kumar N (JC-755642F), 08 Jun 2005/01 May 2005\*

To be Sub Technical (Avn)

Nb Sub Ram Kishan (JC-756496Y), 01 Jun 2005/01 Apr 2005\*

Nb Sub Gajraj Singh (JC-756207Y), 04 Jun 2005/01 Mar 2005\*

Nb Sub Arvind Kumar Saw (JC-756509L), 08 Jun 2005/01 May 2005\*

Nb Sub Jaswant Singh (JC-756320N), 13 Jun 2005/01 May 2005\*

Nb Sub Ananta Ghosh (JC-756002K), 20 Jun 2005/01 May 2005\*

To be Sub Artzn (NE)

Nb Sub Prabakar Trivedi (JC-755148L), 01 May 2005

To be Sub Clk (GD)

Nb Sub Bhagwan Das (JC-753938F), 24 May 2005/01 May 2005\*

Nb Sub K Jothimani (JC-753714F), 03 Jun 2005/01 Dec 2004\*

To be Sub Rec Mech

Nb Sub Shinde Ram Maruti (JC-751281W), 21 Jun 2005/07 Apr 2004\*

\*(Gtd ante dated seniority)

The President is pleased to promote Smt. Darshana Dhingra, Steno Grade-I to the grade of Temporary Private Secretary in the Corps of EME under Ministry of Defence with effect from 23 Mar 2005 (Forenoon). She will remain on probation for a period of two years.

The President is pleased to promote Shri Rajinder Nath Arora, Steno Grade-I to the grade of Temporary Private Secretary in the Corps of EME under Ministry of Defence with effect from 13 Jul 2005 (Forenoon). He will remain on probation for a period of two years.

N K KASHMIRA  
Under Secy.

No. 432, dated 3rd August 2006.—The President is pleased to make the following promotions:—

#### REGULAR ARMY

#### CORPS OF ENGINEERS

#### MADRAS ENGINEER GROUP

To be Substantive Sub Maj (GD)

Sub (GD) V Rajakumar (JC-305690X), 03 May 2006

Sub (GD) C Govindan (JC-305693L), 04 May 2006

To be Substantive Sub (GD)

Nb Sub (GD) Sajeev A (JC-307279L), 01 Sep 2005

Nb Sub (GD) Vijayan V (JC-307391X), 01 Feb 2006

Nb Sub (GD) Karunanithy T (JC-307421K), 14 Mar 2006

Nb Sub (GD) Krishnan Kutty C (JC-307440P), 01 Apr 2006

Nb Sub (GD) D Doraswamy Reddy (JC-307442A), 01 Apr 2006

Nb Sub (GD) M Chinnappan (JC-307445N), 01 Apr 2006

Nb Sub (GD) V Arul Selvam (JC-307446W), 01 Apr 2006

Nb Sub (GD) K Anil Kumar (JC-307459N), 15 Apr 2006

Nb Sub (GD) K Kumaraswamy (JC-307454P), 01 Apr 2006

Nb Sub (GD) Devendra Kumar K (JC-307456A), 01 Apr 2006

Nb Sub (GD) Krishnan Kutty Pillai C (JC-307457H), 30 Apr 2006

Nb Sub (GD) Manoj Kumar P (JC-307458L), 01 Apr 2006

Nb Sub (GD) Russal C (JC-307466K), 01 May 2006

Nb Sub (GD) Radhakrishna Pillai G (JC-307467M), 01 May 2006

Nb Sub (GD) Abdul Khayyam (JC-307468P), 03 May 2006

Nb Sub (GD) Prabhakaran MV (JC-307469X), 01 May 2006

Nb Sub (GD) N Arumugam (JC-307472X), 01 May 2006

Nb Sub (GD) P Alfred (JC-307474H), 01 May 2006

To be Substantive Sub Maj (GD)

Sub (GD) K Munian (JC-305238H), 16 Mar 2006

Sub (GD) Manoharan K (JC-305399L), 16 Mar 2006

Sub (GD) Ramakrishnan AP (JC-305578L), 01 Apr 2006

To be Substantive Sub (GD)

Nb Sub (GD) C Rajendran (JC-307392A), 01 Feb 2006

Nb Sub (GD) G Saibabu (JC-307397Y), 01 Mar 2006

Nb Sub (GD) George Joseph (JC-307410X), 01 Mar 2006

Nb Sub (GD) R Masilamani (JC-307413L), 01 Mar 2006

Nb Sub (GD) Mohanan KL (JC-307418K), 27 Mar 2006

Nb Sub (GD) K George Chakravarthy (JC-307419M), 01 Mar 2006

Nb Sub (GD) Ramesh Chamurao Patil (JC-307422M), 01 Mar 2006

Nb Sub (GD) Rajendran N (JC-307436M), 07 Mar 2006

Nb Sub (GD) R Rajendran (JC-307437P), 07 Mar 2006

Nb Sub (GD) R Palani (JC-307438X), 08 Mar 2006

Nb Sub (GD) Laxman Kariholi (JC-307439A), 01 Apr 2006

Nb Sub (GD) Raveendran P (JC-307441X), 01 Apr 2006

Nb Sub (GD) Shali MD (JC-307444L), 01 Apr 2006

Nb Sub (GD) M Lourdu (JC-307455X), 01 Apr 2006

Nb Sub (GD) Rajendra Kumar C (JC-307626Y), 01 Apr 2006

Nb Sub (GD) Sweeto Francis (JC-307774K), 01 Apr 2006

#### BOMBAY ENGINEER GROUP

To be Subedar Major (GD)

Sub (GD) Gurcharan Singh (JC-347824M), 01 Mar 2006

Sub (GD) Gayur Ahmad Khan (JC-347721N), 01 Mar 2006

Sub (GD) Patil Tanaji Appaji (JC-347755F), 11 Mar 2006

To be Subedar Major (Clk GD)

Sub (Clk GD) Ram Bahadur Pandey (JC-209582W), 10 Mar 2006

The President is pleased to promote Smt. Darshana Dhingra, Steno Grade-I to the grade of Temporary Private Secretary in the Corps of EME under Ministry of Defence with effect from 23 Mar 2005 (Forenoon). She will remain on probation for a period of two years.

The President is pleased to promote Shri Rajinder Nath Arora, Steno Grade-I to the grade of Temporary Private Secretary in the Corps of EME under Ministry of Defence with effect from 13 Jul 2005 (Forenoon). He will remain on probation for a period of two years.

N K KASHMIRA  
Under Secy.

No. 432, dated 3rd August 2006.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

CORPS OF ENGINEERS

MADRAS ENGINEER GROUP

To be Substantive Sub Maj (GD)

Sub (GD) V Rajakumar (JC-305690X), 03 May 2006

Sub (GD) C Govindan (JC-305693L), 04 May 2006

To be Substantive Sub (GD)

Nb Sub (GD) Sajeev A (JC-307279L), 01 Sep 2005

Nb Sub (GD) Vijayan V (JC-307391X), 01 Feb 2006

Nb Sub (GD) Karunanithy T (JC-307421K), 14 Mar 2006

Nb Sub (GD) Krishnan Kutty C (JC-307440P), 01 Apr 2006

Nb Sub (GD) D Doraswamy Reddy (JC-307442A), 01 Apr 2006

Nb Sub (GD) M Chinnappañ (JC-307445N), 01 Apr 2006

Nb Sub (GD) V Arul Selvam (JC-307446W), 01 Apr 2006

Nb Sub (GD) K Anil Kumar (JC-307459N), 15 Apr 2006

Nb Sub (GD) K Kumaraswamy (JC-307454P), 01 Apr 2006

Nb Sub (GD) Devendra Kumar K (JC-307456A), 01 Apr 2006

Nb Sub (GD) Krishnan Kutty Pillai C (JC-307457H), 30 Apr 2006

Nb Sub (GD) Manoj Kumar P (JC-307458L), 01 Apr 2006

Nb Sub (GD) Russal C (JC-307466K), 01 May 2006

Nb Sub (GD) Radhakrishna Pillai G (JC-307467M), 01 May 2006

Nb Sub (GD) Abdul Khayyam (JC-307468P), 03 May 2006

Nb Sub (GD) Prabhakaran MV (JC-307469X), 01 May 2006

Nb Sub (GD) N Arumugam (JC-307472X), 01 May 2006

Nb Sub (GD) P Alfred (JC-307474H), 01 May 2006

To be Substantive Sub Maj (GD)

Sub (GD) K Munian (JC-305238H), 16 Mar 2006

Sub (GD) Manoharan K (JC-305399L), 16 Mar 2006

Sub (GD) Ramakrishnan AP (JC-305578L), 01 Apr 2006

To be Substantive Sub (GD)

Nb Sub (GD) C Rajendran (JC-307392A), 01 Feb 2006

Nb Sub (GD) G Saibabu (JC-307397Y), 01 Mar 2006

Nb Sub (GD) George Joseph (JC-307410X), 01 Mar 2006

Nb Sub (GD) R Masilamani (JC-307413L), 01 Mar 2006

Nb Sub (GD) Mohanan KL (JC-307418K), 27 Mar 2006

Nb Sub (GD) K George Chakravarthy (JC-307419M), 01 Mar 2006

Nb Sub (GD) Ramesh Chamurao Patil (JC-307422M), 01 Mar 2006

Nb Sub (GD) Rajendiran N (JC-307436M), 07 Mar 2006

Nb Sub (GD) R Rajendran (JC-307437P), 07 Mar 2006

Nb Sub (GD) R Palani (JC-307438X), 08 Mar 2006

Nb Sub (GD) Laxman Kariholi (JC-307439A), 01 Apr 2006

Nb Sub (GD) Raveendran P (JC-307441X), 01 Apr 2006

Nb Sub (GD) Shali MD (JC-307444L), 01 Apr 2006

Nb Sub (GD) M Lourdu (JC-307455X), 01 Apr 2006

Nb Sub (GD) Rajendra Kumar C (JC-307626Y), 01 Apr 2006

Nb Sub (GD) Sweeto Francis (JC-307774K), 01 Apr 2006

BOMBAY ENGINEER GROUP

To be Subedar Major (GD)

Sub (GD) Gurcharan Singh (JC-347824M), 01 Mar 2006

Sub (GD) Gayur Ahmad Khan (JC-347721N), 01 Mar 2006

Sub (GD) Patil Tanaji Appaji (JC-347755F), 11 Mar 2006

To be Subedar Major (Clk GD)

Sub (Clk GD) Ram Bahadur Pandey (JC-209582W), 10 Mar 2006



Sub (Clk GD) Diwakar Singh (JC-347008W), 04 Mar 2006

Sub (Clk GD) Ramesh Kumar (JC-347244X), 03 Mar 2006

To be Subedar Major (SKT)

Sub (SKT) Gurdial Singh (JC-347292X), 24 Feb 2006

To be Subedar (GD)

Nb Sub (GD) Kolekar Babaji Dhondu (JC-349258W), 10 Apr 2006

Nb Sub (GD) Ram Kishan (JC-349281K), 13 Mar 2006

Nb Sub (GD) Ramesh Singh (JC-349282M), 07 Mar 2006

Nb Sub (GD) Nimbalkar Sahadeo Dnyanu (JC-349293Y), 01 Apr 2006

Nb Sub (GD) Bhola Singh (JC-349215F), 08 Mar 2006

Nb Sub (GD) Mohammad Ijazul Ali (JC-349228Y), 14 Mar 2006

Nb Sub (GD) Sulakhan Singh (JC-349241H), 07 Mar 2006

Nb Sub (GD) Khursheed (JC-349266P), 07 Apr 2006

Nb Sub (GD) Balvinder Singh (JC-349280F), 06 Mar 2006

Nb Sub (GD) Ajhar Miyan (JC-349296M), 05 Apr 2006

Nb Sub (GD) Harbhajan Singh (JC-349265M), 04 Apr 2006

Nb Sub (GD) Manjit Singh Bhatti (JC-349261W), 01 Apr 2006

Nb Sub (GD) Keshav Singh (JC-349295K), 07 Apr 2006

Nb Sub (GD) Ram Kishore (JC-349229F), 07 Mar 2006

Nb Sub (GD) Shinde Datta Balkrishan (JC-349195Y), 13 Feb 2006

Nb Sub (GD) Gurmit Lal (JC-349230W), 10 Mar 2006

Nb Sub (GD) Deepak (JC-349240A), 08 Mar 2006

Nb Sub (GD) Jasbir Singh (JC-349175L), 13 Jan 2006

Nb Sub (GD) Kewaljit Singh (JC-349235P), 16 Feb 2006

Nb Sub (GD) Birbal Singh (JC-349278K), 14 Mar 2006

Nb Sub (GD) Md Zakir Hussain (JC-349179F), 03 Feb 2006

Nb Sub (GD) Dhir Singh (JC-349247K), 04 Mar 2006

Nb Sub (GD) Dalip Singh (JC-349279M), 08 Mar 2006

Nb Sub (GD) Kairulanam Jalaludden (JC-349250K), 01 Mar 2006

Nb Sub (GD) Balvir Singh (JC-349277F), 01 Apr 2006

Nb Sub (GD) Jadhva Waman Madhava Rao (JC-349245Y), 05 Mar 2006

Nb Sub (GD) Kailash Chand (JC-349260N), 01 Apr 2006

Nb Sub (GD) Ibrahim Khan (JC-349214Y), 04 Mar 2006

Nb Sub (GD) Mobin Ahmed (JC-349292W), 01 Apr 2006

Nb Sub (GD) Narendra Kumar (JC-349271A), 01 Apr 2006

Nb Sub (GD) Jaibir Singh Sirawag (JC-349223A), 03 Mar 2006

Nb Sub (GD) Jasbir Singh (JC-349224H), 03 Mar 2006

Nb Sub (GD) Pisal Shrimant Nivratti (JC-349264K), 01 Apr 2006

Nb Sub (GD) Chavan Ramesh Ramkrishna (JC-349226N), 01 Mar 2006

Nb Sub (GD) Kulat Popat Vishwanath (JC-349243N), 08 Mar 2006

To be Subedar (Clk GD)

Nb Sub (Clk GD) Rattan Singh (JC-348651M), 01 Apr 2006

Nb Sub (Clk GD) Rambresh Singh Yadav (JC-348616K), 22 Mar 2006

Nb Sub (Clk GD) Suvash Chand Teotia (JC-348637A), 07 Mar 2006

Nb Sub (Clk GD) Shyam Narayan (JC-348639L), 01 Mar 2006

Nb Sub (Clk GD) Yogender Singh Hudda (JC-348644W), 03 Mar 2006

Nb Sub (Clk GD) Jagan Singh (JC-348638H), 08 Mar 2006

Nb Sub (Clk GD) Jagtar Singh (JC-348643N), 08 Mar 2006

To be Subedar (SKT)

Nb Sub (SKT) Pradeep Kumar (JC-348936Y), 02 Mar 2006

Nb Sub (SKT) Jagat Pal (JC-348920N), 01 Apr 2006

Nb Sub (SKT) Sodha Chatur Singh Khet Sinh (JC-348871W), 28 Feb 2006

To be Subedar Major (Clk GD)

Sub (Clk GD) Shirsat Gulab Kisan (JC-347003X), 21 Apr 2006

## To be Subedar Major (GD)

Sub (GD) Hariom Singh (JC-347874X), 11 May 2006

## To be Subedar (Clk GD)

Nb Sub (Clk GD) Girish Chandra Belwal (JC-348648M), 08 May 2006

## To be Subedar (GD)

Nb Sub (GD) Sham Singh (JC-349290L), 07 Apr 2006

Nb Sub (GD) Shamsher Singh (JC-349275W), 01 May 2006

Nb Sub (GD) Sukhdev Singh (JC-349254A), 07 Apr 2006

Nb Sub (GD) Kailash Chand (JC-348924K), 12 Apr 2006

Nb Sub (GD) Prem Singh (JC-349274N), 01 May 2006

Nb Sub (GD) Kesari Singh (JC-349285A), 14 Apr 2006

Nb Sub (GD) Joga Singh (JC-349311W), 03 May 2006

Nb Sub (GD) Ajam Hussain (JC-349366A), 01 May 2006

Nb Sub (GD) Bawa Singh (JC-349301M), 01 May 2006

Nb Sub (GD) Sathwane Krishnarao Mahadeo (JC-349316P), 08 May 2006

Nb Sub (GD) Jadhav Shaṅkar Ramchandra (JC-349294F), 01 May 2006

Nb Sub (GD) Burute Krishna Gena (JC-349320X), 01 May 2006

Nb Sub (GD) Abdul Kayyom (JC-349302P), 01 May 2006

Nb Sub (GD) Prakash Marutirao Karale (JC-349321A), 01 May 2006

Nb Sub (GD) Karamjit Singh (JC-349267X), 22 Apr 2006

Nb Sub (GD) Avtar Singh (JC-349222X), 01 Apr 2006

Nb Sub (GD) Mote Bhagwat Mukundrao (JC-349289W), 01 May 2006

Nb Sub (GD) Ganesh Bahadur (JC-349259Y), 09 Mar 2006

## To be Nb Sub (SKT)

Hav (SKT) Jagat Singh (No. 1575476M now JC-350225X), 14 Mar 2006

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jan 2006 without effect on pay & allces).

## To be Nb Sub (Clk GD)

Hav (Clk GD) Kattubadi H Hussen Bhasha (No. 1574921N now JC-350228L), 03 Mar 2006

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Mar 2006 without effect on pay & allces).

## To be Nb Sub (GD)

Hav (GD) Gunilal Dawan Bopche (No. 1568497A now JC-350226A), 07 Mar 2006

Hav (GD) Habib Khan (No. 1569627K now JC-350227H), 10 Mar 2006

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Feb 2006 without effect on Pay & allces).

Hav (GD) Ram Chand (No. 1559281X now JC-350229N), 01 Mar 2006

Hav (GD) Paramjit Singh (No. 1559852L now JC-350230H), 05 Mar 2006

Hav (GD) Kshirsagar Anil Dnyaneshwar (No. 1559971F now JC-350231L), 18 Mar 2006

Hav (GD) Kadam Bhagawan Nathuram (No. 1586816K now JC-350232N), 21 Mar 2006

Hav (GD) Khiladkar Bapusaheb Shripati (No. 1557314Y now JC-350233W), 01 Mar 2006

Hav (GD) Chandrika Prasad (No. 1558540H now JC-350234Y), 13 Mar 2006

Hav (GD) Kadu Rambhau Shankar (No. 1559204H now JC-350235F), 01 Mar 2006

Hav (GD) Guler Chand (No. 1559784H now JC-350236K), 25 Mar 2006

Hav (GD) Patil Suresh Gundappa (No. 1566899Y now JC-350237M), 09 Mar 2006

Hav (GD) Prakash Vishwanath Rao Jadhav (No. 1567006M now JC-350238P), 14 Mar 2006

Hav (GD) Utekar Vishwas Daulat (No. 1567134K now JC-350239X), 16 Mar 2006

Hav (GD) Gurmukh Singh (No. 1567247H now JC-350240M), 16 Mar 2006

Hav (GD) Gurnam Singh (No. 1567302X now JC-350241P), 18 Mar 2006

Hav (GD) Gurbachan Singh (No. 1567311Y now JC-350242X), 14 Mar 2006

Hav (GD) Kashmir Singh (No. 1575604Y now JC-350243A), 01 Mar 2006

Hav (GD) Inamdar Chand Abadul (No. 1567730W now JC-350244H), 13 Mar 2006

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Mar 2006 without effect on Pay & allces).

Hav (GD) Dipty Giri (No. 1571580H now JC-350245L), 01 Apr 2006

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Apr 2006 without effect on Pay & allces).

## To be Nb Sub (SKT)

Hav (SKT) Jagdale Anil Kumar Govind (No. 1576081X now JC-350197W), 31 Jan 2006

Hav (SKT) Shelake Jibhau Manik (No. 1579175A now JC-350198Y), 05 Feb 2006

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2006 without effect on Pay & allces).

Hav (SKT) Arun Kumar Dey (No. 1586201Y now JC-350218F), 11 Feb 2006

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Feb 2006 without effect on Pay & allces).

## To be Nb Sub (Clk GD)

Hav (Clk GD) Aravindakshan Pillai S (No. 1574180F now JC-350184Y), 14 Dec 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Dec 2005 without effect on Pay & allces).

Hav (Clk GD) Mehar Chand (No. 1574336N now JC-350188P), 07 Feb 2006

Hav (Clk GD) Mahender Singh (No. 1574339F now JC-350189X), 10 Feb 2006

Hav (Clk GD) Rajendra Kumar (No. 1574341Y now JC-350190M), 20 Jan 2006

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2006 without effect on Pay & allces).

Hav (Clk GD) Sheo Kumar Ram (No. 1574344M now JC-350199F), 10 Feb 2006

Hav (Clk GD) Surendra Singh (No. 1574356F now JC-350200L), 01 Feb 2006

Hav (Clk GD) Vijay Pal Singh (No. 1574357K now JC-350201N), 08 Feb 2006

Hav (Clk GD) Ramesh Singh Taryal (No. 1567471Y now JC-350202W), 07 Feb 2006

Hav (Clk GD) Ghan Shyam Singh (No. 1571506F now JC-350203Y), 23 Feb 2006

Hav (Clk GD) Hardev Singh (No. 1573979Y now JC-350204F), 01 Feb 2006

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Feb 2006 without effect on Pay & allces).

Hav (Clk GD) Tilak Dhari (No. 1573986P now JC-350219W), 01 Mar 2006

Hav (Clk GD) Guljar Ram (No. 1574810W now JC-350220Y), 01 Mar 2006

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Mar 2006 without effect on Pay & allces).

## To be Nb Sub (GD)

Hav (GD) Sant Kumar (No. 1555228P now JC-350185F), 08 Feb 2006

Hav (GD) Mahendra Singh (No. 1558655W now JC-350186K), 14 Feb 2006

Hav (GD) Ajit Singh (No. 1567904L now JC-350187M), 17 Jan 2006

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Dec 2005 without effect on Pay & allces).

Hav (GD) Data Ram (No. 1558712M now JC-350191P), 16 Jan 2006

Hav (GD) Pawaskar Prabhakar Krishna (No. 1567113N now JC-350192X), 01 Feb 2006

Hav (GD) Mahavir Singh (No. 1558651A now JC-350193A), 04 Jan 2006

Hav (GD) Jaspal Singh (No. 1559988P now JC-350194H), 19 Jan 2006

Hav (GD) Harmesh Singh (No. 1567146Y now JC-350195L), 14 Jan 2006

Hav (GD) Sant Singh (No. 1567186A now JC-350196N), 17 Jan 2006

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2006 without effect on Pay & allces).

Hav (GD) Shimbhuji (No. 1567973F now JC-350205K), 04 Feb 2006

Hav (GD) Ram Asare (No. 1568413F now JC-350206M), 02 Feb 2006

Hav (GD) Joga Singh (No. 1568578A now JC-350207P), 10 Feb 2006

Hav (GD) Gauri Shankar (No. 1568607K now JC-350208X), 17 Feb 2006

Hav (GD) Nagargoje Sarjerao Trimbakrao (No. 1558845H now JC-350209A), 04 Feb 2006

Hav (GD) Gajanan Maruti Aswar (No. 1568978M now JC-350210P), 06 Feb 2006

Hav (GD) Mamraj Singh (No. 1569041N now JC-350211X), 06 Feb 2006

Hav (GD) Khursad Khan (No. 1569172Y now JC-350212A), 16 Feb 2006

Hav (GD) Tarsem Singh (No. 1569706Y now JC-350213H), 03 Feb 2006

Hav (GD) Tirlok Singh (No. 1569877L now JC-350214L), 07 Feb 2006

Hav (GD) Dhan Singh Sapral (No. 1570443X now JC-350215N), 01 Feb 2006

Hav (GD) Sachchita Nand (No. 1572263N now JC-350216W), 04 Feb 2006

Hav (GD) Salunkhe Vilas Sukhadeo (No. 1575422L now JC-350217Y), 14 Feb 2006

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Feb 2006 without effect on Pay & allces).

Hav (GD) Nazir Mohd (No. 1559614Y now JC-350221F), 01 Mar 2006

Hav (GD) Patil Dinakar Rama (No. 1559776K now JC-350222K), 01 Mar 2006

Hav (GD) Alam Shah Ansari (No. 1559900A now JC-350223M), 01 Mar 2006

Hav (GD) Shinde Anil Kumar Mahadeo (No. 1581441M now JC-350224P), 01 Mar 2006

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Mar 2006 without effect on Pay & allces).

To be Nb Sub (Clk GD)

Hav (Clk GD) Ravendra Singh Talan (No. 1574377X now JC-350246N), 01 Mar 2006

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Mar 2006 without effect on Pay & allces).

To be Nb Sub (GD)

Hav (GD) Salunkhe Ashok Pandurang (No. 1556793Y now JC-350247W), 21 Mar 2006

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Mar 2006 without effect on Pay & allces).

Hav (GD) Balkar Singh (No. 1558410A now JC-350248Y), 01 Apr 2006

Hav (GD) Suraj Bhan (No. 1558591W now JC-350249F), 01 Apr 2006

Hav (GD) Hoshier Singh (No. 1558897Y now JC-350250W), 01 Apr 2006

Hav (GD) Tirath Singh (No. 1559025H now JC-350251Y), 01 Apr 2006

Hav (GD) Sukhdev Singh (No. 1559298L now JC-350252F), 01 Apr 2006

Hav (GD) Sattar Khan (No. 1559366N now JC-350253K), 01 Apr 2006

Hav (GD) Pachpute Sudhakar Madhav (No. 1568495P now JC-350254M), 01 Apr 2006

Hav (GD) Dhaphadhule Ramling Baburao (No. 1569306M now JC-350255P), 13 Apr 2006

Hav (GD) Gopal Singh Jat (No. 1569623N now JC-350256X), 01 Apr 2006

Hav (GD) Karamjit Singh (No. 1569965F now JC-350257A), 10 Apr 2006

Hav (GD) Ramesh Kumar (No. 1577301H now JC-350258H), 01 Apr 2006

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Apr 2006 without effect on Pay & allces).

#### MADRAS ENGINEER GROUP

To be Nb Sub (GD)

Rank, Name, Army No., JC No. and Date of promotion

Hav (GD) D Ramu (1380546A now JC-308424K), 10 Mar 2006\$

Hav (GD) Manoharan N (1381466P now JC-308425M), 01 Mar 2006\$

Hav (GD) Dileep Kumar (15301411W now JC-308426P), 01 Mar 2006\$

Hav (GD) Parameswaran KB (1376429X now JC-308429H), 03 Mar 2006\$

Hav (GD) URV Prasad (1376493P now JC-308430X), 01 Mar 2006\$

Hav (GD) Sekar N (1376744N now JC-308431A), 01 Mar 2006\$

Hav (GD) Krishnan Kutty Nair M (1377714H now JC-308432H), 01 Mar 2006\$

Hav (GD) M Raman (1377865F now JC-308433L), 13 Mar 2006\$

Hav (GD) Rethnakaran KK (1378066X now JC-308434N), 01 Mar 2006\$

Hav (GD) Kuttappan Pillai S (1378878L now JC-308435W), 01 Mar 2006\$

Hav (GD) D Gunasekaran (1379173L now JC-308436Y), 13 Mar 2006\$

Hav (GD) James D (1381838P now JC-308438K), 06 Mar 2006\$

Hav (GD) Rejimon KV (15302794A now JC-308440F), 01 Mar 2006\$

Hav (GD) Babu VV (1375786N now JC-308441K), 01 Mar 2006\$

Hav (GD) R Sekar (1376105M now JC-308461X), 01 Apr 2006@

Hav (GD) Venu Gopan V (1376570Y now JC-308462A), 01 Apr 2006@

Hav (GD) P Magimai Doss (1380015H now JC-308465N), 01 Apr 2006@

Hav (GD) Ramesh Kumar (1381543Y now JC-308466W), 01 Apr 2006@

Hav (GD) S Thomas Edison (1383988K now JC-308469K), 01 Apr 2006@

Hav (GD) P Elumalai (1380406N now JC-308473M),  
03 Apr 2006@

Hav (GD) R Thangaraj (1377354X now JC-308474P),  
01 Apr 2006@

Hav (GD) N Pandari Nathan (1376564H now JC-  
308475X), 01 Apr 2006@

Hav (GD) K Kumar (1372640P now JC-308476A),  
01 Apr 2006@

\$(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar  
2006 without effect on Pay & allces).

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr  
2006 without effect on Pay & allces).

Hav (GD) Yogesan CK (1382427H now JC-308323W),  
07 Nov 2005@

Hav (GD) Chandrasekaran C (15301997X now JC-  
308410K), 01 Feb 2006#

Hav (GD) Rajan MK (1376807L now JC-308414A),  
01 Feb 2006#

Hav (GD) M Muniraj (1380961P now JC-308437F),  
07 Apr 2006\$

Hav (GD) S Rathinam (1375699A now JC-308460P),  
01 Apr 2006%

Hav (GD) Gurusiddappa (1378374X now JC-308463H),  
01 May 2006%

Hav (GD) K Jagadeshan (1378708F now JC-308464L),  
01 Apr 2006%

Hav (GD) M Sambasiva Reddy (1381816W now JC-  
308467Y), 01 Apr 2006%

Hav (GD) Padma Kumar C (1382018P now JC-  
308468F), 01 Apr 2006%

Hav (GD) Basanth D (15302430N now JC-308470Y),  
01 Apr 2006%

Hav (GD) C Rajasekar (1371914H now JC-308471F),  
01 Apr 2006%

Hav (GD) Presanna Kumaran R (1376250K now JC-  
308472K), 01 Apr 2006%

Hav (GD) M Rajendiran (1376110X now JC-308477H),  
17 Apr 2006%

Hav (GD) Mallappa Golayi (1375101K now JC-  
308478L), 08 Apr 2006%

Hav (GD) Balakrishna R (1376901P now JC-308479N),  
05 Apr 2006%

Hav (GD) P Nagendra Rao (1376384H now JC-  
308480H), 07 Apr 2006%

Hav (GD) M Elumalai (1378710Y now JC-308481L),  
05 Apr 2006%

Hav (GD) Babu G (1375997W now JC-308491P),  
08 May 2006&

Hav (GD) Gopalakrishnan Nair C (1377744A now JC-  
308492X), 01 May 2006&

Hav (GD) P Krishnan (1380274L now JC-308493A),  
02 May 2006&

Hav (GD) AA Kandasamy SKV (1374467P now JC-  
308494H), 01 May 2006&

Hav (GD) Sreeshan K (1380457F now JC-308497W),  
01 May 2006&

Hav (GD) MB Sharanappa (1375928A now JC-  
308498Y), 01 May 2006&

Hav (GD) Radhakrishnan AP (1376982A now JC-  
308499F), 03 May 2006&

Hav (GD) B Rajendran (1378528Y now JC-308500L),  
01 May 2006&

Hav (GD) Palaniappan PK (1373946K now JC-  
308501N), 01 May 2006&

Hav (GD) Johnson V (15318991M now JC-308508X),  
27 Apr 2006\*

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct  
2005 without effect on Pay & allces).

#(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb  
2006 without effect on Pay & allces).

\$(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar  
2006 without effect on Pay & allces).

%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr  
2006 without effect on Pay & allces).

&(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May  
2006 without effect on Pay & allces).

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 26 Mar  
2006 without effect on Pay & allces).

#### BENGAL ENGINEER GROUP

To be Nb Sub (GD)

Hav Indra Singh Aithani (1472710X now JC-329833L),  
02 Jan 2006\*

Hav Gurdev Singh (1472478X now JC-329834N),  
20 Feb 2006#

Hav Harbhajan Singh (1473963Y now JC-  
329835W), 21 Feb 2006#

Hav Sailendra Singh (1473975N now JC-329836Y),  
22 Feb 2006#

Hav Oli Uddin Barbhuiya (1474081K now JC-329837F),  
01 Mar 2006%

Hav Jai Prakash (1474089W now JC-329838K), 01 Mar  
2006%

Hav Ajit Singh (1474072H now JC-329839M), 01 Mar 2006%

Hav Charanjit Singh (1474171L now JC-329840F), 01 Mar 2006%

Hav Shakattar Singh (1474049P now JC-329841K), 01 Mar 2006%

Hav Gulginder Singh (1474076Y now JC-329842M), 01 Mar 2006%

Hav Lavkesh Singh (1474136H now JC-329843P), 01 Mar 2006%

Hav Madan Singh (1474112Y now JC-329844X), 01 Mar 2006%

Hav Satnam Singh (1466873P now JC-329845A), 01 Mar 2006%

Hav Sateshwar Singh (1474177M now JC-329846H), 18 Mar 2006%

To be Nb Sub Clk (GD)

Hav Basudev Sahoo (1471435W now JC-329847L), 20 Feb 2006%

Hav Shyam Lal Dogra (1470992H now JC-329848N), 28 Feb 2006%

Hav Dina Nath Ghosh (1471764M now JC-329849W), 01 Mar 2006%

Hav Prem Pal Singh Pal (1471911K now JC-329850L), 01 Mar 2006%

Hav Binod Prasad (1472228W now JC-329851N), 14 Mar 2006%

Hav Suresh Chand Sikarwar (1470173Y now JC-329852W), 14 Mar 2006%

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006 without effect on Pay & allces).

#(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006 without effect on Pay & allces).

%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2006 without effect on Pay & allces).

To be Nb Sub (GD)

Hav Sampuran Chand (1468905L now JC-329853Y), 28 Feb 2005%

Hav Chhabi Biswas (1473892H now JC-329854F), 17 Mar 2006#

Hav Karam Singh (1474174Y now JC-329855K), 01 Mar 2006@

Hav Gajjan Singh (1474283L now JC-329856M), 01 Apr 2006\*

Hav Joginder Singh (1474284N now JC-329857P), 01 Apr 2006\*

Hav Kuldeep Singh (1474289M now JC-329858X), 01 Apr 2006\*

Hav Naib Singh (1474310K now JC-329859A), 01 Apr 2006\*

Hav Jasvir Singh (1474337F now JC-329860P), 01 Apr 2006\*

Hav Sirdool Singh (1474408X now JC-329861X), 01 Apr 2006\*

Hav Madan Singh (1474527N now JC-329862A), 01 Apr 2006\*

Hav Jasmail Singh (1474532Y now JC-329863H), 01 Apr 2006\*

Hav Raj Balwinder Singh (1474651P now JC-329864L), 01 Apr 2006\*

Hav Arvind Kumar (1474645F now JC-329865N), 01 Apr 2006\*

Hav Lohit Borah (1474680K now JC-329866W), 01 Apr 2006\*

Hav Lakhwinder Singh (1474756Y now JC-329867Y), 01 Apr 2006\*

Hav Ravinder Singh (1474813P now JC-329868F), 01 Apr 2006\*

Hav Radhey Shyam Singh (1466148H now JC-329869K), 01 Apr 2006\*

Hav Sukhwinder Singh (3383368A now JC-329870Y), 02 Apr 2006\*

Hav Kulwant Singh (1468943F now JC-329871F), 01 May 2006\$

Hav Jaspal Singh (1470029K now JC-329872K), 01 May 2006\$

Hav Binod Singh (1469981K now JC-329873M), 01 May 2006\$

To be Nb Sub Clk (GD)

Hav Madan Lal Bagoria (1470570X now JC-329874P), 01 Apr 2006\*

Hav Elizer Oreya (1471394X now JC-329875X), 01 Apr 2006\*

Hav Bishwanath Sah (1471762F now JC-329876A), 01 Apr 2006\*

Hav Krishna Kant Mishra (1471862M now JC-329877H), 01 Apr 2006\*

Hav Kaushal Kumar Singh (1471960M now JC-329878L), 01 Apr 2006\*

Hav Virendra Singh (1472323H now JC-329879N), 01 May 2006\*

Hav Dinesh Kumar (1472318A now JC-329880H), 01 May 2006\$

Hav Raghu Raj Singh (1472319H now JC-329881L),  
01 May 2006\$

Hav Shyam Lal (1472321X now JC-329882N), 01 May  
2006\*

%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 19 Feb  
2005 without effect on Pay & allces).

#(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb  
2006 without effect on Pay & allces).

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar  
2006 without effect on Pay & allces).

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr  
2006 without effect on Pay & allces).

\$(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May  
2006 without effect on Pay & allces).

R SHARMA  
Dy. Secy.

No. 433, dated 2nd August 2006.—The President is  
pleased to make the following promotions:—

#### REGULAR ARMY

#### DEFENCE SECURITY CORPS

To be Substantive Subedar Major (GD)

Sub Mahender Singh (JC-188637Y), 01 Feb 2006

Sub Dhyan Singh Rawat (JC-157764M), 01 Mar 2006

Sub Chhering Angchok, SM (JC-175141L), 01 Apr 2006

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Ram Singh (JC-840845H), 01 Feb 2006

Nb Sub Satish Kumar Mall (JC-629254X), 01 Feb 2006

Nb Sub Subash Dadhwal (JC-412061X), 01 Feb 2006

Nb Sub Onkar Singh Manhas (JC-578116L), 01 Feb  
2006

Nb Sub Sivakumaran Nair V (JC-438080A), 01 Mar  
2006

Nb Sub Mahender Pal Singh (JC-468208P), 01 Mar  
2006

Nb Sub Jagatamba Parshad Sharma (JC-518549Y),  
01 Mar 2006

Nb Sub Girand Singh (JC-840867F), 01 Mar 2006

Nb Sub Ramji Pandey (JC-840879W), 01 Mar 2006

Nb Sub Parshottam Chand (JC-184141M), 01 Mar 2006

Nb Sub Rasal Singh (JC-840885K), 01 Apr 2006

Nb Sub Udey Singh (JC-840892A), 01 Apr 2006

Nb Sub Ram Lakhon Paswan (JC-840883Y), 01 Apr  
2006

Nb Sub Awadesh Kumar (JC-141689Y), 01 May 2006

To be Nb Subedar (GD)

Hav Damodar Behera (10259151X now JC-841899W),  
06 Feb 2006\*

\*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct  
2005 without effect on pay and allowances).

Hav Amar Nath (10180994K now JC-841950L), 28 Mar  
2006\*\*

\*\* (Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec  
2005 without effect on pay and allowances).

Hav Mohabat Singh Rajput (2870500H now JC-  
841971F), 20 Feb 2006\*\*\*

Hav Brahm Deo Jha (4249617H now JC-841978L),  
12 Apr 2006\*\*\*

Hav Bhadoria Surendhar Singh (8021562H now JC-  
841980H), 12 Apr 2006\*\*\*

Hav Sheshrao Gawali (1250066M now JC-841982N),  
10 Apr 2006\*\*\*

Hav Jaikaran (13932609F now JC-841983N), 10 Apr  
2006\*\*\*

Hav Jagdish Chander (2865000F now JC-841986K), 18  
Apr 2006\*\*\*

Hav Ram Khilari (2964990A now JC-841987M), 25 Apr  
2006\*\*\*

Hav Karam Singh (3967757N now JC-841988P), 07 Apr  
2006\*\*\*

Hav Hari Singh (2867674X now JC-841991P), 07 Apr  
2006\*\*\*

Hav Chaman Lal (10196317W now JC-841993A),  
11 Apr 2006\*\*\*

Hav Jagrup Singh (2867335X now JC-841996N), 10 Apr  
2006\*\*\*

Hav Battan Singh (2663376A now JC-841999F), 16 Apr  
2006\*\*\*

\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb  
2006 without effect on Pay & allces).

Hav Karunakaran M (10290144H now JC-842013A),  
24 Apr 2006\*\*\*\*

Hav Balakrishnan PT (10289924F now JC-842014H),  
12 Apr 2006\*\*\*\*

Hav Lachhman Datt (10133643K now JC-842024M),  
08 Apr 2006\*\*\*\*

\*\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01  
Mar 2006 without effect on Pay & allces).

Hav Prem Chand (2465080W now JC-842038M), 05 Apr 2006\*\*\*\*\*

Hav Harpal Singh (2970481X now JC-842039P), 05 Apr 2006\*\*\*\*\*

Hav Rajeshwar Singh Chauhan (10133761X now JC-842040K), 03 Apr 2006\*\*\*\*\*

Hav K Vasudevan (10289528L now JC-842042P), 13 Apr 2006\*\*\*\*\*

Hav Prasant Kumar Barik (10259373M now JC-842043X), 05 Apr 2006\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2006 without effect on Pay & allces).

To be Naib Sub (Clk)

Hav (Clk) Ganesan G (10451643L now JC-842001L), 20 Mar 2006\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) wef 01 Feb 2006 without effect on Pay & allces).

Hav (Clk) Ajit Singh (10361075K now JC-842003W), 24 Mar 2006\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) wef 01 Mar 2006 without effect on Pay & allces).

Hav (Clk) Satyanarayana Rao Boddapati (6649012F now JC-842028H), 01 Apr 2006\*\*\*\*\*

Hav (Clk) Hakim Singh (3168820H now JC-842029L), 20 Apr 2006\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) wef 01 Apr 2006 without effect on Pay & allces).

T. K. M. PILLAI  
Under Secy.

No. 434, dated 4th August 2006.—The President is pleased to make the promotions of following officers:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(ARMY MEDICAL CORPS)

Brigadier (& Equivalent) to be Maj Gen (& Equivalent)

P Madhusoodanan (MR-02848L)—24 Nov 2005 with notional seniority without effect on pay & pension from 29 Sep 2005.

Suresh Chandra (MR-03488M)—27 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 02 Jan 2006.

Gp Capt (& equivalent) to be Brig (& equivalent)

Vipin Chandar (MR-03609H)—31 Jan 2006 with notional seniority without effect on pay pension from 29th June 2004.

ARMY MEDICAL CORPS (NON-TECH)

To be Lt Col

Name, Rank, Personal No. and Date of Promotion

Mimilla Janarden Naidu (Major), NTR-16564M—16 Dec 2004

Rati Pal Singh Chauhan (Major), NTR-16620A—16 Dec 2004

Niranjan Lal (Major), NTR-16566X—16 Dec 2004

Vishnu Gandhe (Major), NTR-16592Y—16 Dec 2004

Tara Dutt Bhatt (Major), NTR-16616X—16 Dec 2004

Yesudian Sugumar P (Major), NTR-16636L—20 Jan 2006

To be Major

Name, Rank, Personal No. and Date of Promotion

Raju Jose (Capt), NTR-16646P—16 Dec 2004

Raghvendra Mishra (Capt), NTR-16633X—16 Dec 2004

To be Capt

Name, Rank, Personal No. and Date of Promotion

Diwan Singh (Capt), NTR-16676M—16 Dec 2004

N Mahabir Singh (Capt), NTR-16678X—16 Dec 2004

Diwan Singh (Capt), NTR-16707F—16 Dec 2004

Chander Bhan (Capt), NTR-16708K—16 Dec 2004

RAJESH KAMRAN

Brig

DY DGAFMS (Pers)

No. 435, dated 7th August 2006.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Lt Cols to be Substantive Col (By Time Scale)

IC-27738F Lt Col PK Gupta, Inf—16 Dec 2004

IC-34736Y Lt Col Rafat Akhtar, Engrs—16 Dec 2004

IC-34870K Lt Col RM Mangaraj, Arty—16 Dec 2004

IC-36265H Lt Col Ajit Saxena, Arty—16 Dec 2004

IC-36219A Lt Col Harjeet Singh, Arty—16 Dec 2004

IC-36258Y Lt Col VK Kaul, Engrs—16 Dec 2004

IC-37071Y Lt Col Bhagwan Singh, Sigs—16 Dec 2004

IC-37376Y Lt Col Bharat Prakash, Inf—01 May 2005

IC-37519N Lt Col TPS Kandra, Arty—15 Nov 2005

IC-37528P Lt Col RKS Kanwar, Arty—17 Nov 2005

IC-38563X Lt Col IS Basnet, AOC—22 Dec 2005



IC-38570A Lt Col SD Joshi, AAD—22 Dec 2005  
 IC-39055A Lt Col Rupinder Singh, Engrs—16 Dec 2004  
 SL--02595F Lt Col Tarlochan Datt, SL RO—23 Jul 2005  
 SL-02994L Lt Col RB Singh, APTC—16 Dec 2004

AJAY GOEL  
 Dy. Dir.

No. 436, dated 7th August 2006.—The President is pleased to make substantive promotions of Major General to the following officers:—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

To be Substantive Maj Gen

IC No., Rank, Name, Arm and D. O. Subs Maj Gen

IC-28733 Brig RS Mehtra, AVSM, VSM, AC—03 May 2004

IC-28805 Brig KS Dogra, AVSM, VSM, AAD—03 May 2004

IC-28867 Brig RK Sudan, AAD—11 May 2004

IC-27146 Brig USP Sinha, Engrs—21 Nov 2004 with seniority from 11 May 2004 without effect on pay and pension.

IC-27158 Brig Daljit Singh, Engrs—21 Nov 2004 with seniority from 11 May 2004 without effect on pay and pension.

IC-24173 Brig VK Singh, YSM, Rajput—29 Jun 2004

IC-24178 Brig PC Bhardwaj, VrC, SC, VSM, Para—29 Jun 2004

IC-24186 Brig JS Mahil, AAD—29 Jun 2004

IC-24194 Brig MS Dadwal, VSM, Inf—01 Jul 2004

IC-24196 Brig TP Singh, EME—01 Jul 2004

IC-24198 Brig CKS Sabu, VSM, Arty (GC)—01 Jul 2004

IC-24208 Brig AS Sekhon, YSM, Sikh LI—01 Jul 2004

IC-24210 Brig Mehta KC, Sigs—16 Mar 2005 with seniority from 01 Jul 2004 without effect on pay and pension.

IC-24211 Brig PK Mehta, ASC—01 Jul 2004

IC-24215 Brig Deepak Malhotra, Arty—29 Jul 2004

IC-24219 Brig AKS Chandele, EME—01 Aug 2004

IC-24237 Brig PS Rana VSM\*, Gren—01 Aug 2004

IC-24255 Brig AN AUL, UYSM, 3 GR—01 Aug 2004

IC-24260 Brig BS Nagal, SM, Jat—01 Aug 2004

IC-24270 Brig Omit Sarkar, 68 AR—01 Aug 2004

IC-24283 Brig RK Loomba, 9 Horse, 03 Aug 2004

IC-29202 Brig DP Singh, Jat—01 Sep 2004

IC-29336 Brig Mahipal Singh, VSM, Arty—01 Sep 2004

IC-24568 Brig Balhara MS, KC, SM, Bihar—01 Sep 2004

IC-24579 Brig Beniwal OP, VSM, Sigs—15 Apr 2005 with seniority from 10 Sep 2004 without effect on pay and pension.

IC-24581 Brig Khanna BL, Engrs—10 Jan 2005 with seniority from 10 Sep 2004 without effect on pay and pension.

IC-24584 Brig BS Jaswal, VSM Jak Rif—10 Sep 2004

IC-24588 Brig Lamba AS, VSM, Sigs—15 Apr 2005 with seniority from 10 Sep 2004 without effect on pay and pension.

IC-24591 Brig Negi VK, Engrs—18 Mar 2005 with seniority from 10 Sep 2004 without effect on pay and pension.

IC-24604 Brig DS Bartwal, Jat—01 Oct 2004

IC-24611 Brig Avadesh Prakash, VSM, Naga—01 Oct 2004

IC-24652 Brig RK Karwal, SM\*, VSM, Rajput—01 Oct 2004

IC-24654 Brig Tejinder Singh, VSM, Guards—01 Oct 2004

IC-24656 Brig Pradeep Khanna, 20L—11 Oct 2004

IC-24671 Brig Manavalan JJ, Engrs—12 Sep 2005 with seniority from 11 Oct 2004 without effect on pay and pension.

IC-24706 Brig Rao KR, Arty—07 Jan 2005 with seniority from 11 Oct 2004 without effect on pay and pension.

IC-24716 Brig BS Sisodia, VSM, AOC—01 Dec 2004

IC-24718 Brig PK Goel, Arty—01 Dec 2004

IC-24722 Brig AK Mehra, VSM, AD Arty—01 Dec 2004

IC-24726 Brig Sharma, VK, Engrs—25 May 2005 with seniority from 01 Dec 2004 without effect on pay and pension.

IC-24745 Brig Sharma SC, VSM, Jak Rif—16 Jan 2005

IC-24749 Brig Kharbanda PC, Arty (GC)—11 Mar 2005 with seniority from 16 Jan 2005 without effect on pay and pension.

IC-24790 Brig Singh SVP, VSM, Arty—20 Apr 2005 with seniority from 16 Jan 2005 without effect on pay and pension.

IC-24810 Brig RK Gupta, ASC—16 Jan 2005

IC-24871 Brig B Sivasankar, VSM, Gren—16 Jan 2005

IC-24926 Brig VDI Devavaram, SM, VSM, Madras—16 Jan 2005

IC-27530 Brig Sharma SK, EME—01 Feb 2005

IC-27539 Brig Ghai MS, Engrs—25 May 2005 with seniority from 01 Feb 2005 without effect on pay and pension.

IC-27548 Brig Upadhyaya KK, Sigs—01 Oct 2005 with seniority from 01 Feb 2005 without effect on pay and pension.

IC-27549 Brig MP Singh, EME—03 Feb 2005

N. K. PHUKAN  
Jt. Director/MS(X)

#### AIR HEADQUARTERS

No. 437, dated 2nd August 2006.—The President is pleased to promote Shri Kanchid Singh, DEO 'D' of AFHQ/IS Organisation Service as DPA G-'B' (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 6,500—10,500/- with effect from 17 Mar 2006.

SHANKAR SINGH  
Dy. Chief Administrative Officer

No. 438, dated 7th August 2006.—The President is pleased to make the following substantive promotions:—

#### INDIAN AIR FORCE

#### FLYING BRANCH

To be Substantive Air Vice Marshal

RC Baruah (13156), F(P)—01 Mar 2006/01 Dec 2005  
(for the purpose of seniority only)

(His name will appear above AVM DN Ganesh (13243) F(P) in the Combined Gradation List).

BC Nanjapa (13246) F(P)—01 Mar 2006

VK Yajurvedi (13248) F(P)—01 Mar 2006

KV SHANKAR  
Jt. Dir. of Personnel (Officers)-PO2(B)

No. 439, dated 4th August 2006.—The President is pleased to make the following substantive promotion:—

#### INDIAN AIR FORCE

#### F(N) BRANCH

Flt Lt to be Substantive Sqn Ldr

S Tomar (21599), wef 14 Dec 2001

S SRIVASTAV  
Wg Cdr  
JDPO-3(D)